



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 269]

नई दिल्ली, बुधस्वतिवार, मार्च 23, 2006/चैत्र 2, 1928

No. 269]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 23, 2006/CHAITRA 2, 1928

विदेश मंत्रालय

आदेश

नई दिल्ली, 23 मार्च, 2006

का.आ. 375(अ).—अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए सभी राज्यों से उपाय करने की अपेक्षा करने वाले संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय VII के अधीन संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् ने संकल्प 1373 (2001) 28 सितम्बर, 2001 (जो इस आदेश के साथ उपाबंध के रूप में संलग्न है) को अपने 4385 वें अधिवेशन में अंगीकृत किया था ;

संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् के संकल्प 1267, 1333, 1363, 1390, 1452, 1455, 1526, 1566 और 1617 अपेक्षा करते हैं कि राज्य कतिपय आतंकवादी और आतंकवादी संगठनों के विरुद्ध आस्तियाँ और अन्य आर्थिक संसाधनों को रोकने, अपने राज्य क्षेत्र में उनके प्रवेश या पारगमन को रोकने और अनुसूची में सूचीबद्ध व्यक्तियों या अस्तित्वों को आयुध और गोला बारूद का विक्रय या अंतरण रोकने के लिए कार्रवाई करें ;

केन्द्रीय सरकार, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के अधीन अंगीकृत सुरक्षा परिषद् के उक्त संकल्पों को कार्यान्वित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद्) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) के अधीन आदेश जारी करना आवश्यक और समीचीन समझती है;

केन्द्रीय सरकार, संयुक्त राष्ट्र (सुरक्षा परिषद्) अधिनियम, 1947 (1947 का 43) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त संकल्पों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, अर्थात्—

संक्षिप्त नाम और प्रारंभ	1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम आतंकवाद निवारण और दमन (सुरक्षा परिषद् संकल्प कार्यान्वयन) आदेश, 2006 है ।  (2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा ।
परिभाषाएं	2. इस आदेश में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-

	<p>(क) 'संकल्प' से 28 सितंबर, 2001 को अंगीकृत संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद् का संकल्प 1373 (2001) अभिप्रेत है और इसके अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद का मुकाबला करने के लिए संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के अध्याय VII के अधीन सुरक्षा परिषद् द्वारा अंगीकृत संकल्प 1267, 1333, 1363, 1390, 1452, 1455, 1526, 1566 और 1617 भी है।</p> <p>(ख) 'अनुसूची' से सुरक्षा परिषद् द्वारा उनके उक्त संकल्पों में किए गए अवधारणा के आधार पर निकाली गई, इस आदेश से उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;</p> <p>(ग) उन शब्दों और पदों के, जो इस आदेश में प्रयुक्त हैं किन्तु परिभाषित नहीं हैं और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में परिभाषित है वही अर्थ होंगे जो उनके ऐसी विधियों में क्रमशः हैं।</p>
इस आदेश के उपबंधों का कतिपय आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों को लागू होना	3. समय-समय पर यथासंशोधित इस आदेश के उपबंध, उक्त संकल्पों और अनुसूची के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाले आतंकवादियों और आतंकवादी संगठनों पर लागू होंगे।
इस प्रस्ताव की परिधि में आने वाली आतंकवादी गतिविधियों को रोकने और उनका दमन करने की केन्द्र सरकार की शक्ति	<p>4. केन्द्रीय सरकार सुसंगत विधियों के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते समय निम्नलिखित उपाय करेगी:-</p> <p>(क) अनुसूची में सूचीबद्ध व्यक्तियों और अस्तित्वों के संबंध में एक आतंकवादी सूची तैयार करने के लिए राज्य सरकारों तथा अन्य प्राधिकारियों से उपाय करने की अपेक्षा करने वाले और ऐसे आतंकवादियों तथा आतंकवादी संगठनों को निष्क्रिय करने के संबंध में की गई कार्रवाइयों की सूचना भेजने पर बल देते हुए नीचे उल्लिखित कार्यकलापों के संबंध में अनुवर्ती उपाय करने के लिए एक व्यापक योजना बनाना ;</p> <p>(ख) किसी आतंकवादी कार्य के वित्त पोषण को रोकना और दमन करना ;</p> <p>(ग) किसी व्यक्ति या अस्तित्व द्वारा, चाहे भारत में या भारत से बाहर, निधियों को जान बूझकर उपबंध करने या संग्रहण करने का जो इस आशय से हो कि ऐसी निधियों का उपयोग या इस जानकारी से हो कि उनका उपयोग आतंकवादी कार्यों के लिए किया जाएगा, का प्रतिषेध करना ;</p> <p>(घ) अनुसूची में सूचीबद्ध व्यक्तियों या अस्तित्वों द्वारा या उनके लिए धारित निधियों और अन्य वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों को रोकना, उनका अभिग्रहण करना या कुर्क करना ;</p> <p>(ङ) किसी व्यक्ति या अस्तित्व का अनुसूची में सूचीबद्ध व्यक्तियों या अस्तित्वों के हित लाभ के लिए किन्हीं निधियों, वित्तीय आस्तियों या आर्थिक संसाधनों या वित्तीय या उपलब्ध अन्य सहबद्ध सेवाओं का प्रतिषेध करना ;</p> <p>(च) अनुसूची में सूचीबद्ध व्यक्तियों के भारत में प्रवेश या पारगमन को रोकना ;</p> <p>(छ) अनुसूची में सूचीबद्ध व्यक्तियों या अस्तित्वों को भारत में या भारत से बाहर आयुध और गोला बारूद तथा अन्य संबंधित सामग्री के किसी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रदाय, विक्रय और अंतरण को रोकना ;</p> <p>(ज) अनुसूची में सूचीबद्ध व्यक्तियों या अस्तित्वों से संबंध किए जाने वाले किसी कार्यकलाप का प्रतिषेध करना और रोकना।</p>

निदेश देने की शक्ति, आदि	5. (1) केन्द्रीय सरकार, इस आदेश को कार्यान्वित करने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों और विभिन्न प्राधिकारियों को ऐसी रीति से, जिसे वह आवश्यक समझे, निदेश जारी कर सकेगी।  (2) इस पैरा के अधीन जारी निदेशों में आदेश के पैरा 4 में निर्दिष्ट योजनाओं को कार्यान्वित करने के निदेश और आस्तियों और अन्य आर्थिक संसाधनों को रोकने, अभिग्रहण करने या कुर्क करने के लिए निदेश, भारत में प्रवेश या भारत से होकर पारगमन को रोकने ; और अनुसूची में सूचीबद्ध व्यक्तियों या अस्तित्वों को आयुध और गोला बारूद के विक्रय या अंतरण की रोकथाम और उनके विरुद्ध कोई आपराधिक कार्यवाहियां संस्थित करने के लिए निदेश सम्मिलित है।
	6. आतंकवाद निवारण और दमन (सुरक्षा परिषद् संकल्प कार्यान्वयन) आदेश, 2004 का, उन बातों के सिवाय, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने से लोप किया गया है, अधिक्रमण किया जाता है।

[सं. एल-815/6/2006]

के. सी. सिंह, अपर सचिव (आई ओ)

अनुबन्धसंयुक्त राष्ट्रसुरक्षा परिषद  
वितरण: सामान्य

28 सितम्बर, 2001

संकल्प 1373(2001)

28 सितम्बर, 2001 को अपनी 4385 वीं बैठक में सुरक्षा परिषद द्वारा अंगीकृत

सुरक्षा परिषद,

19 अक्टूबर 1999 और 12 सितम्बर 2001 के अपने संकल्पों क्रमशः 1269(1999) और 1368 (2001) की पुनः पुष्टि करते हुए,

11 सितम्बर 2001 को न्यूयार्क, वाशिंगटन डी0सी0 और पेंसिलवेनिया में होने वाले आतंकवादी हमलों की स्पष्ट तौर पर निंदा और इस प्रकार की सभी गतिविधियों को रोकने की प्रतिबद्धता की भी पुनः पुष्टि करते हुए,

इस बात की भी पुनः पुष्टि करते हुए कि इस प्रकार की गतिविधियाँ और अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद की कोई भी गतिविधि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के लिए खतरा है,

वैयक्तिक अथवा सामूहिक स्वरक्षा के सहज अधिकार की पुनः पुष्टि करते हुए जैसा कि संकल्प 1368 (2001) में दोहराए गए के अनुसार संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में मान्यता प्रदान की गई है,

आतंकवादी गतिविधियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के होने वाले खतरे का संयुक्त राष्ट्र चार्टर में दिए गए के अनुसार सभी प्रकार से सामना करने की आवश्यकता की पुनः पुष्टि करते हुए,

विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में असहिष्णुता अथवा आतंकवाद द्वारा प्रेरित गतिविधियों में वृद्धि के प्रति गहरी चिन्ता रखते हुए,

आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने और उसके दमन हेतु सभी राज्यों से अत्यावश्यक रूप से साथ-साथ काम करने का आह्वान करते हुए जिसमें आतंकवाद से संबंधित संगत अंतर्राष्ट्रीय अभिसमयों के पूर्ण कार्यान्वयन और संवर्द्धित सहयोग के माध्यम से इसे सम्पन्न करना शामिल है,

राज्यों द्वारा अपने-अपने क्षेत्रों में सभी कानूनी मार्ग अपनाते हुए किसी आतंकवादी गतिविधि के वित्तपोषण और तैयारी पर रोक लगाने अथवा उसके दमन के लिए अतिरिक्त उपाय किए जाने के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहयोग में योगदान की आवश्यकता को मानते हुए,

अक्टूबर 1970 (संकल्प 2626(XXV)) की घोषणा में आम सभा द्वारा स्थापित सिद्धांत और 13 अगस्त 1998 के अपने संकल्प 1189(1998) में सुरक्षा परिषद द्वारा दोहराए गए सिद्धान्त की पुनः पुष्टि करते हुए, जिसमें यह निहित है कि प्रत्येक राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वे दूसरे राज्य में आतंकवादी गतिविधियों के आयोजन, उत्प्रेरण, सहायता प्रदान करने और भाग लेने से अथवा स्वयं अपने क्षेत्र में इस प्रकार की गतिविधियों को अंजाम देने से बचें,

संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय VII के तहत कार्रवाई करते हुए, यह निर्णय लेते हैं कि सभी राज्य:

(क) आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण पर रोक लगाएं और उसका दमन करें;

(ख) अपने-अपने राष्ट्रों अथवा अपने-अपने क्षेत्र में किसी भी माध्यम से परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से ऐसी निधियों को जनबूझकर प्रदान करने, अथवा एकत्र करने को आपराधिक घोषित करना जिन्हें इस आशय अथवा जानकारी के साथ संचित किया गया हो कि उनका प्रयोग आतंकवादी गतिविधियों के लिए होना है;

(ग) बिना विलम्ब के उन व्यक्तियों की निधियों, अन्य वित्तीय आस्तियों अथवा आर्थिक संसाधनों को जब्त करना जो:- आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हों, अथवा उसका प्रयास करते हों, अथवा उसमें भाग लेते हों अथवा आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने में सहयोग करते हों; ऐसी वस्तुओं की अविलम्ब जब्त करना जो परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से ऐसे व्यक्तियों के स्वामित्व में अथवा नियंत्रण में हो और ऐसे व्यक्तियों अथवा अस्तित्वों की जब्ती भी होनी चाहिए जो ऐसे व्यक्तियों और अस्तित्वों की ओर से कार्य कर रहे हों, इसमें ऐसे व्यक्तियों और संबद्ध व्यक्तियों और अस्तित्वों द्वारा परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से नियंत्रित अथवा स्वामित्व वाली संपत्ति से प्राप्त अथवा उत्पन्न निधियाँ शामिल हैं ;

(घ) अपने राष्ट्रों अथवा किसी ऐसे व्यक्ति और आस्तियों को अपने-अपने क्षेत्रों के भीतर आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले व्यक्तियों, उसको अंजाम देने का प्रयास करने वाले अथवा उसमें भाग लेने वाले व्यक्तियों, ऐसे व्यक्तियों, ऐसे व्यक्तियों की ओर से अथवा उनके निदेश पर कार्य करने वाले व्यक्तियों और अस्तित्वों के और ऐसे व्यक्तियों द्वारा परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से नियंत्रित अथवा उनके स्वामित्व वाले अस्तित्वों के लाभ हेतु परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से किसी भी निधि, वित्तीय आस्तियों, अथवा आर्थिक संसाधनों अथवा वित्तीय अथवा अन्य संबंधित सेवाएं उपलब्ध करवाने से रोकेंगे ।

2. यह निर्णय भी लेती है कि सभी राज्य:

(क) आतंकवादी गतिविधियों में शामिल अस्तित्वों अथवा व्यक्तियों को सक्रिय अथवा निष्क्रिय किसी भी प्रकार का सहयोग प्रदान नहीं करेंगे जिसमें आतंकवादी दलों के सदस्यों की भर्ती पर रोक लगाना और आतंकवादियों को शस्त्रों की आपूर्ति बंद करना शामिल है;

(ख) आतंकवादी गतिविधियों पर रोक लगाने के सभी आवश्यक उपाय करेंगे जिसमें सूचना के आदन-प्रदान के माध्यम से अन्य राज्यों को पूर्व चेतावनी प्रदान करना शामिल है;

(ग) उन व्यक्तियों को सुरक्षित आश्रय प्रदान करने से इंकार करना जो आतंकवादी गतिविधियों का वित्तपोषण, नियोजन, समर्थन अथवा उसे अंजाम देते हों अथवा सुरक्षित आश्रय प्रदान करते हों;

(घ) उनपर रोक लगाना जो उनके अपने क्षेत्रों में अन्य राज्यों अथवा उनके नागरिकों के विरुद्ध प्रयोजनों के लिए आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषण, प्रदान करते हों, नियोजन करते हों, उन्हें सुविधाएं प्रदान करते हों अथवा उनको अंजाम देते हों;

(ङ) यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी व्यक्ति जो आतंकवादी गतिविधियों को वित्तपोषण करे, नियोजन करे, उनकी तैयारी करे अथवा उसे अंजाम दे, उसे न्याय के अधीन लाया जाएगा और यह सुनिश्चित करेंगे कि उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही के साथ-साथ ऐसी आतंकवादी गतिविधियों को घरेलू कानूनों और विनियमों में गंभीर अपराधों के तौर पर स्थापित किया जाए;

(च) आतंकवादी गतिविधियों के वित्तपोषण अथवा समर्थन से संबंधित आपराधिक जाँचों अथवा आपराधिक कार्यवाहियों के संबंध में एक दूसरे को यथाधिक सहायता प्रदान करेंगे जिसमें कार्यवाहियों के लिए आवश्यक उनके पास उपलब्ध साक्ष्य को हासिल करने में सहायता करना शामिल है;

(छ) प्रभावी सीमा नियंत्रण और पहचान दस्तावेजों और यात्रा दस्तावेजों के जारी करने पर नियंत्रण और पहचान तथा यात्रा दस्तावेजों के जालीकरण, अथवा उनकी जालसाजी पर रोक लगाने के उपायों के माध्यम से आतंकवादियों अथवा आतंकवादी दलों की गतिविधियों पर रोक लगाएंगे।

### 3. समस्त राज्यों का आह्वान करता है कि :

(क) विशेषकर आतंकवादी व्यक्तियों या नेटवर्कों की गतिविधियों या कार्यवाहियों; नकली या जाली यात्रा दस्तावेजों; हथियारों, गोलाबारूदों या संवेदनशील सामग्रियों की तस्करी; आतंकवादी दलों द्वारा संचार प्रौद्योगिकियों के प्रयोग और आतंकवादी दलों द्वारा जनसंहारी हथियार रखने से उत्पन्न खतरे से संबंधित कार्यवाही की जानकारी के आदान-प्रदान को गहन और त्वरित बनाने के तरीकों की तलाश करें;

(ख) आतंकवादी गतिविधियों को शुरू होने से रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एवं स्वदेशी कानून के अनुरूप जानकारी का आदान-प्रदान करें और प्रशासनिक एवं न्यायिक मामलों में सहयोग करें;

(ग) आतंकवादी हमलों को रोकने और दबाने के लिए तथा ऐसी गतिविधियों को अंजाम देने वाले के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिए विशेषतया द्विपक्षीय और बहुपक्षीय करारों एवं समझौतों के माध्यम से सहयोग करें;

(घ) 9 दिसम्बर 1999 के आतंकवाद वित्तपोषण को दबाने हेतु अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन सहित, आतंकवाद से संबंधित संगत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं प्रोटोकोलों का यथाशीघ्र पक्षकार बनें;

(ङ.) सुझा परिषद संकल्पों 1289(1999) तथा 1368(2001) और आतंकवाद से संबंधित संगत अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों एवं प्रोटोकोलों में सहयोग बढ़ाएं और इसे पूर्णतः कार्यान्वित करें;

(च) शरण चाहने वाले ने आतंकवादी गतिविधियों को चलाने की योजना नहीं बनाई, कोई सुविधा प्रदान नहीं की या उसमें भाग नहीं लिया इसे सुनिश्चित करने के लिए शरणार्थी की स्थिति प्रदान करने से पहले मानव अधिकारों के अंतर्राष्ट्रीय मानकों सहित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय कानून के संगत प्रावधानों के अनुरूप उपयुक्त कदम उठाएं;

(छ) अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुरूप यह सुनिश्चित करें कि शरणार्थी की स्थिति का आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देने वाले, आयोजन करने वाले या सुविधा प्रदान करने वाले द्वारा दुरुपयोग न किया जाए तथा यह कि राजनीतिक प्रयोजन के दावों को कथित आतंकवादियों के प्रत्यर्पण के लिए किए गए अनुरोधों को अस्वीकृत करने हेतु आधारों के रूप में न समझा जाए;

4. अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और देश पार के संगठित अपराध, गैरकानूनी मादक द्रव्यों, मनी-लाउन्डरिंग, अवैध हथियारों की तस्करी तथा परमाणु, रासायनिक, जैविक एवं अन्य घातक सामग्रियों के बीच गहन संबंध पर चिन्ता व्यक्त करती है और इस संबंध में अंतर्राष्ट्रीय सुझा के लिए गंभीर चुनौती एवं खतरे के विरुद्ध वैश्विक प्रतिक्रिया को सुदृढ़ करने हेतु राष्ट्रीय, उपक्षेत्रीय, क्षेत्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर प्रयासों के समन्वय को बढ़ाने की आवश्यकता पर बल देती है;

5. घोषणा करती है कि आतंकवादी गतिविधियाँ, तरीके और विधियाँ संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों एवं सिद्धान्तों के विरुद्ध हैं और यह कि जानबूझकर आतंकवादी गतिविधियों का वित्तपोषण करना, योजना बनाना तथा भड़काना भी संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों एवं सिद्धान्तों के विरुद्ध है;

6. प्रक्रिया की अन्तरिम नियमावली के नियम 28 के अनुरूप सुरक्षा परिषद की एक समिति का गठन करने का निर्णय लेती है, जिसमें परिषद के सभी सदस्य शामिल हों, जिससे उपयुक्त विशेषज्ञता की सहायता से इस संकल्प के कार्यान्वयन की निगरानी हो सके और समस्त राज्यों को आह्वान करती है कि वे इस संकल्प को अपनाने की तारीख से 90 दिनों के अंदर इसकी सूचना समिति को दें और इसके बाद समिति द्वारा प्रस्तावित की गई एक समय-सारणी के अनुरूप उनके द्वारा इस संकल्प के कार्यान्वयन के लिए उठाए गए कदमों की भी जानकारी दें;

7. समिति को निर्देश देती है कि अपने कार्यों की रूपरेखा प्रस्तुत करें, इस संकल्प के अपनाने के 30 दिनों के अंदर एक कार्य योजना प्रस्तुत करें तथा महासचिव के परामर्श से अपने अपेक्षित समर्थन पर विचार करें;

8. घोषणापत्र के अंतर्गत अपने उत्तरदायित्वों के अनुरूप, इस संकल्प के पूर्ण कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए समस्त आवश्यक कदमों को उठाने हेतु अपने दृढ़निश्चय को व्यक्त करती है;

9. इस मामले पर ध्यान देते रहने का निर्णय लेती है।

**\*अनुसूची**

(पैरा 2 (ख) देखें)

**1267 समिति द्वारा बनायी गयी और संरक्षित तालिबान एवं अल-कायदा से संबद्ध व्यक्तियों और इकाइयों की नई समेकित सूची**

### **I. सामान्य सूचना**

संकल्प 1267 (1999) के पैरा 6 के अनुसरण में स्थापित सुरक्षा परिषद समिति (जिसे इसमें इसके बाद 1967 समिति कहा गया है), तालिबान, उसामा बिन लादेन और और अल कायदा संगठनों के अथवा से जुड़े व्यक्तियों और इकाइयों पर सुरक्षा परिषद द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों का राज्यों द्वारा किए जाने वाले क्रियान्वयन का पर्यवेक्षण करती है। संकल्प 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002) और 1455 (2003) के अंतर्गत सुरक्षा परिषद द्वारा सभी राज्यों के लिए इस सूची में शामिल व्यक्तियों/इकाइयों की संपत्तियों को अनुपलब्ध बनाना, अपने भूक्षेत्र में उनके प्रवेश पर और से उनके पारगमन पर रोक लगाना और हथियारों एवं सैन्य उपकरणों की प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष आपूर्ति, बिक्री अथवा अंतरण पर रोक लगाना बाध्यकारी किया गया है।

### **II. सूची का संघटन**

समेकित सूची में चार खंड हैं जो नीचे दिए गए हैं-

- (क) तालिबान के अथवा तालिबान से संबद्ध व्यक्तियों की सूची (142 व्यक्ति)
- (ख) तालिबान के अथवा तालिबान से संबद्ध इकाइयों की सूची (1 इकाई)।
- (ग) अल-कायदा संगठन के अथवा अल-कायदा से संबद्ध व्यक्तियों की सूची (208 व्यक्ति)
- (घ) अल-कायदा संगठन के अथवा अल-कायदा से संबद्ध इकाइयों की सूची (122 इकाई)
- (ङ.) 1267 समिति के निर्णय के अनुसरण में जिन व्यक्तियों और इकाइयों को सूची से हटा दिया गया है उनकी सूची (8 व्यक्ति और 11 इकाई)

सूची के सभी नामों और पहचान से संबंधित सूचनाएं 1267 समिति द्वारा संयुक्त राष्ट्र सदस्य राज्यों को दी गई हैं। तालिबान खंड के व्यक्तियों को उनके उस समय के पद के अनुरूप रखा गया है जब तालिबान का अफगानिस्तान पर नियंत्रण था। सूची के अल-कायदा खंड में व्यक्तियों के नाम परिवार के नाम से वर्ण क्रम में रखे गए हैं। इस सूची में आने वाली सभी भौगोलिक अवस्थितियों का उल्लेख उनकी राजनैतिक और विधिक स्थिति को ध्यान में बिना रखे किया गया है।

इस सूची को अंतिम बार 22 फरवरी, 2006 को अद्यतन किया गया और यह सूची 1267 समिति द्वारा जारी की गई सूची के सभी पाठों का स्थान लेगी।

### [II सूची में पहचान चिन्ह और परिवर्णी शब्द

उपलब्ध सूचना को श्रेणियों में बांटने के लिए सूची में अनेक पहचान चिन्हों का उपयोग किया गया है। बिना किसी सूचना के अथवा 'उपलब्ध नहीं' पहचान चिन्हों का अर्थ है कि 1267 समिति द्वारा सूचना प्राप्त करने के प्रयासों के बावजूद इस पहचान चिन्ह से जुड़ी जानकारी अभी उपलब्ध नहीं है। सूची में उपयुक्त पहचान चिन्हों के बारे में स्पष्टीकरण नीचे दिए गए हैं।

\* अनुसूची में अर्थभेद की स्थिति में अंग्रेजी पाठ मान्य होगा।

#### व्यक्ति

नाम 1, नाम 2, नाम 3, नाम 4। सूची में व्यक्तियों के नामों को इस प्रकार से अलग-अलग करके उल्लेख किया गया है जिस प्रकार से वे किसी राष्ट्रीय पासपोर्ट में लिखे जाते हैं। सूची में प्रत्येक व्यक्ति के लिए चार अलग-अलग नाम-स्थान रखे गए हैं ताकि विश्व के उन भागों में, जहां अरबी-आधारित नाम प्रचलित हैं, के नामों की परंपरा की पूरी श्रेणी का उल्लेख हो सके। जहां चार नाम लिखे गए हैं वहां नाम परंपरा का अर्थ इस प्रकार है: नाम 1 व्यक्ति का प्रथम नाम, नाम 2 व्यक्ति के पिता का नाम, नाम 3 व्यक्ति के दादा का नाम, नाम 4 व्यक्ति के परिवार का नाम। बहुत से स्थानों पर सूची में शामिल किए गए नामों में चार से कम नाम हैं। जहां उपयुक्त है वहां परिवार के नाम को मोटे अक्षरों में लिखा गया है। सूची में कुछ व्यक्तियों के चार से कम नाम लिखने के कई संभव कारण हैं (क) पूरे नाम के कुछ अंश के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है, अथवा (ख) दिए गए व्यक्ति के मूल देश में प्रयुक्त नामों की परंपरा उन देशों की चार नामों की परंपरा से भिन्न हो जिन देशों में अरबी आधारित नाम प्रचलित हैं। प्रयोक्ता इस बात को ध्यान में रखें कि अरबी और अन्य भाषाओं के नामों का लतिन में लिप्यंतरण किए जाने पर कई भिन्नताएं हो सकती हैं। अतएव, अनुशंसा की जाती है कि नामों की सूची में उल्लिखित सूचना के अन्य घटकों के साथ अन्योन्य संदर्भ में देखा जाए।

- उपनाम: मानद, व्यावसायिक अथवा धार्मिक उपनाम।
- पदनाम: आधिकारिक उपनाम/पद।
- जन्म तिथि: वैकल्पिक जन्मतिथियां भी शामिल हैं।
- अच्छा नाम उर्फ: उर्फ इसे सकारात्मक पहचान के रूप में माना जा सकता है।
- बुरा नाम उर्फ: उर्फ इसमें सकारात्मक अर्थ की संभावना लगभग नहीं है।
- राष्ट्रीयता: नामित नागरिकता/राष्ट्रीयता
- पासपोर्ट संख्या: पासपोर्ट संख्या (संख्याएं)

- राष्ट्रीय पहचान संख्या: राष्ट्रीय पहचान संख्या (अर्थात् पहचान पत्र संख्या, सामाजिक सुरक्षा संख्याएं इत्यादि)
- पता: पते, जहां व्यक्ति स्थायी अथवा अस्थायी रूप से (वैध अथवा अवैध रूप से) रहते हैं।
- सूचीबद्ध: वह तारीख, जब 1267 समिति ने व्यक्ति को सूची में रखा।
- अन्य सूचना: उपर्युक्त श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य कोई अनुपूरक सूचना।

#### इकाइयाँ

- नाम: इकाई का नाम।
- उर्फ: उर्फ (इस नाम से भी जाना जाता है)।
- उर्फ: पहले इस नाम से जाना जाता था।
- पता: पता (पते) जहां इकाई अवस्थित है अथवा इसकी शाखाएं हैं।
- सूचीबद्ध: वह तारीख जब 1267 समिति ने इकाई को अपनी सूची में रखा।
- अन्य सूचना: उपर्युक्त श्रेणियों के अतिरिक्त अन्य कोई अनुपूरक सूचना।

#### 'क' तालिबान से सम्बद्ध व्यक्तियों की सूची

1. नाम 1मोहम्मद	2. रब्बानी	3. उपलब्ध नहीं	4. उपलब्ध नहीं,
उपनाम: मुल्लाह,	पदनाम: शासी परिषद् का अध्यक्ष, मंत्रीपरिषद् का प्रमुख		
जन्मतिथि: लगभग 1961	जन्मस्थान: कन्धार, अफगानिस्तान		
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं			
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं			
राष्ट्रीयता: अफगान			
पासपोर्ट: उपलब्ध नहीं			
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं			
पता: उपलब्ध नहीं			
सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को (20 दिसम्बर, 2005 को संशोधित)			
अन्य सूचना: अप्रैल 2001 में मृत्यु की सूचना।			

2. नाम: मोहम्मद	2. हसन	3. उपलब्ध नहीं	4. उपलब्ध नहीं,
उपनाम: मुल्लाह पदमी हाजी	पदनाम: शासी परिषद् का उपप्रथम		
जन्मतिथि: 1958 के लगभग	जन्मस्थान: कन्धार, अफगानिस्तान		
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं			
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं			
राष्ट्रीयता: अफगान			
पासपोर्ट: उपलब्ध नहीं			
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं			
पता: उपलब्ध नहीं			
सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को (20 दिसम्बर, 2005 को संशोधित)			
अन्य सूचना: सोवियत संघ के विरुद्ध जेहाद कर रहे सात गुटों में से एक माजवावी खालिस गुट से संबद्ध। पाकिस्तान के क्वेटा के मदरसा से शिक्षा प्राप्त, मुल्ला उमर का निकट सहयोगी।			



3 नाम: 1 अब्दुल कबीर 2. उपलब्ध नहीं 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: (क) उप द्वितीय, मंत्री परिषद् (ख) नांगहर प्रान्त के गवर्नर (ग) पूर्वी जोन के प्रमुख  
 जन्मतिथि: 1958 से 1963 के बीच जन्मस्थान: जारप्रान कबीला, पाकज़ा प्रान्त अफगानिस्तान  
 अछा नाम उर्फ: ए. कबीर  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को (20 दिसम्बर 2005 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: पूर्वी अफगानिस्तान के आतंकवादी कारवाइयों में सक्रिय ।

4. नाम: मोहम्मद 2. उमर 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मुल्लाह पदनाम: विश्वासपात्र (अमीर-उल-मुमीनीन) का प्रमुख, अफगानिस्तान  
 जन्मतिथि: लगभग 1966 जन्मस्थान: उरुजगान प्रान्त, अडेहराबुड गांव  
 अछा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध: 31 जनवरी, 2001 को  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।

5. नाम: 1 मोहम्मद 2. ताहरे 3. अनवरी 4. उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मुल्लाह पदनाम: प्रशासनिक मामलों के निदेशक  
 जन्मतिथि: लगभग 1958 जन्मस्थान: जरमत जिला पाकतिया प्रान्त अफगानिस्तान  
 अछा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं

6. नाम: 1 सईद मोहम्मद 2. हक्कानी 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: प्रशासनिक मामलों के निदेशक  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं  
 अछा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध: 31 जनवरी, 2001 को (20 दिसम्बर 2005 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: पाकिस्तान के हक्कानियों मदरसा से शिक्षा प्राप्त ।

7. नाम: 1 अब्दुल लतीफ  
उपनाम: मौलवी  
जन्मतिथि: लगभग 1968  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपास संख्या: उपलब्ध नहीं  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
पता: उपलब्ध नहीं  
सूचीबद्ध: 31 जनवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।
2. मन्सूर  
पदनाम: कृषि मंत्री  
जन्मस्थान: जुरमत जिला पाकतिया प्रान्त का वासी, अफगानिस्तान
3. उपलब्ध नहीं
4. उपलब्ध नहीं,
8. नाम: 1 शम्स  
उपनाम: मुल्लाह  
जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
पता: उपलब्ध नहीं  
सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।
2. उर-रहमान  
पदनाम: कृषि उपमंत्री  
जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं
3. उपलब्ध नहीं
4. उपलब्ध नहीं,
9. नाम: 1 अतीकुल्लाह  
उपनाम: मौलवी  
जन्मतिथि: लगभग 1953  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
पता: उपलब्ध नहीं  
सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।
2. अखुन्द  
पदनाम: कृषि उप मंत्री  
जन्मस्थान: शावली कोट जिला कन्धार अफगानिस्तान
3. उपलब्ध नहीं
4. उपलब्ध नहीं,
10. नाम: 1 अब्दुल गफूर  
उपनाम: मौलवी  
जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
पता: उपलब्ध नहीं  
सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।
2. उपलब्ध नहीं  
पदनाम: कृषि उप मंत्री  
जन्मस्थान: कुनार प्रान्त, अफगानिस्तान
3. उपलब्ध नहीं
4. उपलब्ध नहीं,

11. नाम: 1 अख्तर  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।

12. नाम: 1 ताहिस  
 उपनाम: हादजी  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध: 31 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।

13. नाम: 1 मोहम्मद  
 उपनाम: मुल्लाह  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।

14. नाम: 1 हिदायतुल्लाह  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्मतिथि: लगभग 1968  
 अच्छा नाम उर्फ: अबू तुराब  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध: उपलब्ध नहीं,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।

15. नाम: 1 यार मोहम्मद  
 उपनाम: मुल्लाह  
 जन्मतिथि: लगभग 1953  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

2. मोहम्मद 3. मंसूर 4. उपलब्ध नहीं,  
 पदनाम: नागरिक उड्डयन एवं परिवहन मंत्री  
 जन्मस्थान: कन्धार, अफगानिस्तान

2. उपलब्ध नहीं 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं,  
 पदनाम: नागरिक उड्डयन उप मंत्री  
 जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं

2. नईम 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं,  
 पदनाम: नागरिक उड्डयन उप मंत्री  
 जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं

2. उपलब्ध नहीं 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं,  
 पदनाम: नागरिक उड्डयन उप मंत्री  
 जन्मस्थान: अरगानबाद जिला, कन्धार प्रान्त, अफगानिस्तान

2. रहीमी 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं,  
 पदनाम: संचार मंत्री  
 जन्मस्थान: पंजवई जिला, कन्धार प्रान्त, अफगानिस्तान

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
पता: उपलब्ध नहीं  
सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।

16. नाम: 1 अल्ला दाद  
उपनाम: 1. मुल्लाह 2. हाजी  
जन्मतिथि: लगभग 1963  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
पता: उपलब्ध नहीं  
सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।

17. नाम: 1 अब्दुल रजाक  
उपनाम: मौलवी  
जन्मतिथि: लगभग 1958  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
पता: उपलब्ध नहीं  
सूचीबद्ध: 31 जनवरी, 2001 को, (20 दिसम्बर 2005 को संशोधित)  
अन्य सूचना: अफगानिस्तान के कंधार प्रान्त में 2003 में गिरफ्तार।

18. नाम: 1 फैज मोहम्मद  
उपनाम: मौलवी  
जन्मतिथि: लगभग 1958  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
पता: उपलब्ध नहीं  
सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।

19. नाम: 1 निक मोहम्मद  
उपनाम: मौलवी  
जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं

2. तायेब 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं,  
पदनाम: संचार उप मंत्री  
जन्मस्थान: कन्धार शहर, अफगानिस्तान

2. उपलब्ध नहीं 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं,  
पदनाम: वाणिज्य मंत्री  
जन्मस्थान: अरगनदाब जिला, कन्धार प्रान्त, अफगानिस्तान

2. फैजान 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं,  
पदनाम: वाणिज्य उप मंत्री  
जन्मस्थान: जुश्मत जिला पकतिया प्रान्त, अफगानिस्तान

2. उपलब्ध नहीं 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं,  
पदनाम: वाणिज्य उप मंत्री  
जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं

पता: उपलब्ध नहीं

सूचीबद्ध: 31 जनवरी, 2001 को,

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।

20. नाम: 1 मतिउल्लाह

उपनाम: मुल्लाह

जन्मतिथि: लगभग 1973

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता: अफगान

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं

पता: उपलब्ध नहीं

सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।

21. नाम: 1 अल्लाहवाद्

उपनाम: मौलवी

जन्मतिथि: लगभग 1953

अच्छा नाम उर्फ: अखुंड

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता: अफगान

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं

पता: उपलब्ध नहीं

सूचीबद्ध: 31 जनवरी, 2001 को,

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।

22. नाम: 1 उबादुल्लाह

उपनाम: मुल्लाह उपनाम: हाजी

जन्मतिथि: लगभग 1968

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता: अफगान

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं

पता: उपलब्ध नहीं

सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।

23. नाम: 1 फाजेल मोहम्मद

2 मज़लूम

3 उपलब्ध नहीं

4 उपलब्ध नहीं,

उपनाम: मुल्लाह पदनाम: आर्मी स्टाफ के उप-प्रमुख

जन्मतिथि: 1963 से 1968 के बीच,

जन्मस्थान: उरुज़गान, अफगानिस्तान

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: अफगान

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

2. उपलब्ध नहीं

3. उपलब्ध नहीं

4. उपलब्ध नहीं,

पदनाम: निदेशक, काबुल कस्टम हाउस

जन्मस्थान: दमन जिला, कन्धार प्रान्त, अफगानिस्तान

2. उपलब्ध नहीं

3. उपलब्ध नहीं

4. उपलब्ध नहीं,

पदनाम: निर्माण मंत्री

जन्मस्थान: स्पिनबोल्दाक जिला, कन्धार प्रान्त अफगानिस्तान

2. अखुण्ड

3. उपलब्ध नहीं

4. उपलब्ध नहीं,

पदनाम: रक्षा मंत्री

जन्मस्थान: कन्धार, अफगानिस्तान

- 24, नाम: 1 अब्दुलघानी 2 बारादार 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मुल्लाह पदनाम: रक्षा मंत्री  
 जन्मतिथि: लगभग 1968 जन्मस्थान: उरुज़गान, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं, सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,
- 25, नाम: 1 अब्दुल रौफ 2 खादेम 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मुल्लाह पदनाम: सेन्ट्रल कार्पस के कमांडर  
 जन्मतिथि: 1958 से 1963 के बीच जन्मस्थान: उरुज़गान, कन्धार अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,
- 26, नाम: 1 अमीर खान 2 मोताकी 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मुल्लाह पदनाम: शिक्षा मंत्री (ख) संयुक्त राष्ट्र से वार्ता में तालिवान के  
 प्रतिनिधि जन्मस्थान: हेलमंड प्रान्त, अफगानिस्तान  
 जन्मतिथि: 1968 के लगभग  
 अच्छा नाम उर्फ: अमीर खान मुताकी  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,
- 27, नाम: 1 अब्दुल सलाम 2 हनाकी 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मुल्लाह पदनाम: शिक्षा उपमंत्री  
 जन्मतिथि: लगभग 1968 जन्मस्थान: दरजाब जिला, फरयाब जिला, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

- 28, नाम: 1 सईद अहमद 2 शहीद खेल 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: शिक्षा उप-मंत्री  
 जन्मतिथि: लगभग 1975, जन्मस्थान: मध्य गज़नी-प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को, (20 दिसम्बर, 2005 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: ये जुलाई, 2003 में अफगानिस्तान के काबुल में हिरासत में थे।
- 29, नाम: 1 अब्दुल वसय 2 आगाज़ान 3 मोतासेम, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मुल्लाह पदनाम: वित्त मंत्री  
 जन्मतिथि: लगभग 1968 जन्मस्थान: कन्धार शहर, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 31 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,
- 30, नाम: 1 आरिफुल्लाह 2 आरिफ 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: वित्त उप-मंत्री  
 जन्मतिथि: लगभग 1958 जन्मस्थान: जुरमत जिला, पकतिया प्रान्त  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 31 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,
- 31, नाम: 1 मोहम्मद 2 अहमदी 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मुल्लाह 2 हाजी पदनाम: द अफगानिस्तान बैंक के अध्यक्ष  
 जन्मतिथि: लगभग 1963 जन्मस्थान: दमन जिला कन्धार प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

32, नाम: 1 अब्दुल वकील  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्मतिथि: लगभग 1963  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

2 मुतावकील 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 पदनाम: विदेश मंत्री  
 जन्मस्थान: कन्धार, अफगानिस्तान

33, नाम: 1 अब्दुल रहमान  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्मतिथि: 1963 और 1968 के बीच  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

2 जाहिद 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 पदनाम: उप-विदेश मंत्री  
 जन्मस्थान: लोगार प्रान्त, खरवार जिला, अफगानिस्तान

34, नाम: 1 अब्दुल जलील  
 उपनाम: मौलवी  
 जन्मतिथि: लगभग 1963  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

2 उपलब्ध नहीं 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 पदनाम: उप-विदेश मंत्री  
 जन्मस्थान: शवालीकोट जिला कन्धार प्रान्त, अफगानिस्तान

35, नाम: 1 अब्दुल सतार  
 उपनाम: डॉ०  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

2 पाकतिन 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 पदनाम: प्रोटोकॉल विभाग, विदेश मंत्रालय  
 जन्मस्थान: पकतिया, अफगानिस्तान



36, नाम: 1 फैज 2 उपलब्ध नहीं 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: सूचना विभाग, विदेश मंत्रालय  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

37, नाम: 1 शम्स-अस-सफा 2 अमीनजयी 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: प्रेस सेन्टर, विदेश मंत्रालय  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं

38, नाम: 1 अब्दुल बकी 2 उपलब्ध नहीं, 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: कौंसल विभाग, विदेश मंत्रालय  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

39, नाम: 1 मोहम्मद जवाद 2 वजीरी 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: संयुक्त राष्ट्र विभाग, विदेश मंत्रालय  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

**40, नाम:** 1 जल्लालुद्दीन 2 हकानी 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
**उपनाम:** मौलवी **पदनाम:** सीमावर्ती मामलों से सम्बद्ध मंत्री  
**जन्मतिथि:** 1948 के लगभग, **जन्मस्थान:** खोस्त प्रान्त, जदरान जिला, अफगानिस्तान  
**अच्छा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं,  
**बुरा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं,  
**राष्ट्रीयता:** अफगान  
**पासपोर्ट संख्या:** उपलब्ध नहीं,  
**राष्ट्रीय पहचान संख्या:** उपलब्ध नहीं,  
**पता:** उपलब्ध नहीं,  
**सूचीबद्ध:** 31 जनवरी, 2001 को,  
**अन्य सूचना:** उपलब्ध नहीं,

**41, नाम:** 1 अब्दुल हकीम 2 मोनिब 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
**उपनाम:** मौलवी **पदनाम:** सीमावर्ती मामलों से सम्बद्ध उपमंत्री  
**जन्मतिथि:** 1973 और 1976 के बीच **जन्मस्थान:** जुर्मत जिला, पकतिया, प्रान्त, अफगानिस्तान  
**अच्छा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं,  
**बुरा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं,  
**राष्ट्रीयता:** अफगान  
**पासपोर्ट संख्या:** उपलब्ध नहीं,  
**राष्ट्रीय पहचान संख्या:** उपलब्ध नहीं,  
**पता:** उपलब्ध नहीं,  
**सूचीबद्ध:** 25 जनवरी, 2001 को,  
**अन्य सूचना:** उपलब्ध नहीं,

**42, नाम:** 1 मोहम्मद इब्राहीम 2 ओमारी 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
**उपनाम:** अल्हाज़ **पदनाम:** सीमावर्ती मामलों से सम्बद्ध उप-मंत्री  
**जन्मतिथि:** लगभग 1958 **जन्मस्थान:** जदरान घाटी खोस्त प्रान्त, अफगानिस्तान  
**अच्छा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं,  
**बुरा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं,  
**राष्ट्रीयता:** अफगान  
**पासपोर्ट संख्या:** उपलब्ध नहीं,  
**राष्ट्रीय पहचान संख्या:** उपलब्ध नहीं,  
**पता:** उपलब्ध नहीं,  
**सूचीबद्ध:** 23 फरवरी, 2001 को,  
**अन्य सूचना:** उपलब्ध नहीं,

**43, नाम:** 1 दिन मोहम्मद 2 हनीफ 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
**उपनाम:** कारी **पदनाम:** (क) योजना मंत्री (ख) उच्च शिक्षा मंत्री  
**जन्मतिथि:** 1968 और 1973 के बीच **जन्मस्थान:** बड़ा खशान प्रान्त, अफगानिस्तान  
**अच्छा नाम उर्फ:** कारी दिन मोहम्मद,  
**बुरा नाम उर्फ:** उपलब्ध नहीं,  
**राष्ट्रीयता:** अफगान  
**पासपोर्ट संख्या:** उपलब्ध नहीं,  
**राष्ट्रीय पहचान संख्या:** उपलब्ध नहीं,  
**पता:** उपलब्ध नहीं,  
**सूचीबद्ध:** 25 जनवरी, 2001 को,  
**अन्य सूचना:** उपलब्ध नहीं,

44, नाम: 1 हमदुल्लाह 2 नोमानी 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: उच्च शिक्षा मंत्रालय में उच्च स्तर के अधिकारी  
 जन्मतिथि: लगभग 1968 जन्मस्थान: गजनी प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

45, नाम: 1 जबीहुल्लाह 2 हमीदी 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उच्च शिक्षा उप-मंत्री  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

46, नाम: 1 अरसाला 2 रहमानी 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: उच्च शिक्षा उप-मंत्री  
 जन्मतिथि: लगभग 1948 जन्मस्थान: पकतिया, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

47, नाम: 1 कुदरतुल्लाह 2 जमाल 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: सूचना मंत्री  
 जन्मतिथि: लगभग 1963 जन्मस्थान: पकतिया, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

48, नाम: 1 अब्दुलवाकी 2 उपलब्ध नहीं, 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मुल्लाह पदनाम: सूचना एवं संस्कृति उप-मंत्री  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

49, नाम: 1 अब्दुल रहमान 2 अहमद 3 होताक, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: सूचना एवं संस्कृति उप(संस्कृति) मंत्री  
 जन्मतिथि: 1963 और 1968 के बीच जन्मस्थान: मैदान वारदाक प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

50, नाम: 1 रहीममुल्लाह 2 जुरमाती 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: सूचना एवं संस्कृति उप(प्रकाशन)मंत्री  
 जन्मतिथि: 1953 और 1958 के बीच जन्मस्थान: जुरमत जिला, पकतियां प्रान्त  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

51, नाम: 1 अब्दुल्हायी 2 मोतमें 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: निदेशक, सूचना एवं संस्कृति विभाग, कन्धार  
 जन्मतिथि: लगभग 1973 जन्मस्थान: जाबुल प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

52, नाम: 1 मोहम्मद याकूब 2 उपलब्ध नहीं 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: बीआईए के प्रमुख  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

53, नाम: 1 अब्दुल रज़ाक 2 उपलब्ध नहीं 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मुल्लाह पदनाम: आंतरिक मामलों से सम्बद्ध मंत्री  
 जन्मतिथि: लगभग 1963 जन्मस्थान: चमन जिला, क्वेटा पाकिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

54, नाम: 1 अब्दुल समद 2 खाकसार 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मुल्लाह पदनाम: आंतरिक मामलों के सम्बद्ध उप(सुरक्षा) मंत्री  
 जन्मतिथि: 1958 और 1963 के बीच जन्मस्थान: कन्धार, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

55, नाम: 1 मोहम्मद 2 शरीफ 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: आन्तरिक मामलों से सम्बद्ध उपमंत्री  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

56, नाम: 1 नूर 2 जलाल 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: आन्तरिक मामलों से सम्बद्ध उपमंत्री (प्रशासन)  
 जन्मतिथि: 1968 और 1973 के बीच जन्मस्थान: कुनार प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

57, नाम: 1 सईद, 2 मोहम्मद 3 अजीम, 4 आगा,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: पासपोर्ट एवं वीजा विभाग  
 जन्मतिथि: लगभग 1966 जन्मस्थान: कन्धार प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

58, नाम: 1 नूरुद्दीन 2 तुराबी 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मुल्लाह पदनाम: न्याय मंत्री  
 जन्मतिथि: लगभग 1963 जन्मस्थान: कन्धार, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

59, नाम: 1 जलालुद्दीन 2 शिन्वारी 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: न्याय उप-मंत्री  
 जन्मतिथि: लगभग 1968 जन्मस्थान: शिन्वार जिला, निन्नारहार प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 31 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

60, नाम: 1 मोहम्मद ऐस्सा 2 अखंड 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: अल्हाज़ 2. मुल्लाह पदनाम: जल सफाई एवं बिजली मंत्री  
 जन्मतिथि: लगभग 1958 जन्मस्थान: स्पिनबोल्दाक जिला कन्धार प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

61, नाम: 1 सईदुर रहमान 2 हकानी 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: खान एवं उद्योग उप-मंत्री  
 जन्मतिथि: लगभग 1948 जन्मस्थान: कुनार प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

62, नाम: 1 अब्दुल सलाम 2 जैफ 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मुल्लाह पदनाम: खान एवं उद्योग उप-मंत्री असाधारण राजदूत एवं पूर्णाधिकारी  
 तालीबान, " राजदूतावास, इस्लामाबाद, पाकिस्तान  
 जन्मतिथि: लगभग 1968 जन्मस्थान: कन्धार, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: अब्दुल सलाम जईफ,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

63, नाम: 1 मोहम्मद आजम 2 एल्मी 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: खान एवं उद्योग उप-मंत्री  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

64, नाम: 1 इज़ातुल्लाह 2 उपलब्ध नहीं 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: योजना उप-मंत्री  
 जन्मतिथि: 1968 और 1973 के बीच जन्मस्थान: लाघमन प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

65, नाम: 1 2 3 4  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: योजना मंत्री  
 जन्मतिथि: लगभग 1963 जन्मस्थान: मैदानवर्दक प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

66, नाम: 1 मोहम्मद अब्बास 2 अखुंद 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मुल्ला पदनाम: जनस्वास्थ्य मंत्री  
 जन्मतिथि: लगभग 1963 जन्मस्थान: कन्धार, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

67, नाम: 1 शेर मोहम्मद अब्बास 2 स्टानेकजई 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: जनस्वास्थ्य उप-मंत्री  
 जन्मतिथि: लगभग 1963 जन्मस्थान: लोगर प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,



अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

68, नाम: 1 मोहम्मदुल्लाह 2 मति 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: जनकार्य मंत्री  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं जन्मस्थान: अरघंदब जिला, कन्धार प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

69, नाम: 1 रूस्तम 2 नूरीस्तानी 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: जनकार्य उप-मंत्री  
 जन्मतिथि: लगभग 1963 जन्मस्थान: नूरीस्तान प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

70, नाम: 1 अतिकुल्लाह 2 उपलब्ध नहीं 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: (1) हदजी (2) मोला पदनाम: जनकार्य उप-मंत्री  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: उपलब्ध नहीं,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

71, नाम: 1 नजीबुल्लाह 2 हकानी 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: जनकार्य उप-मंत्री  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

72, नाम: 1 सयैद घईसुदीन 2 आगा 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
उपनाम: मौलवी पदनाम: हज एवं धार्मिक कार्य मंत्री  
जन्मतिथि: 1958 और 1963 के बीच जन्मस्थान: फरियाब प्रान्त, अफगानिस्तान  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 31 जनवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

73, नाम: 1 मौस्लिम 2 हक्कानी 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
उपनाम: मौलवी पदनाम: हज एवं धार्मिक कार्य उप-मंत्री  
जन्मतिथि: लगभग 1958 जन्मस्थान: कन्धार, अफगानिस्तान  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

74, नाम: 1 कलामुदीन 2 मुहमन्द 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
उपनाम: मौलवी पदनाम: (क) हज कार्य उपमंत्री (ख) ओलम्पिक समिति का प्रमुख  
जन्मतिथि: 1958 और 1963 के बीच जन्मस्थान: निंगर्हार प्रान्त, अफगानिस्तान  
अच्छा नाम उर्फ: कलामुदीन,  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

75, नाम: 1 अब्दुल रकीब 2 तकहारी 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
उपनाम: मौलवी पदनाम: देश प्रत्यावर्तन मंत्री  
जन्मतिथि: 1968 और 1973 के बीच जन्मस्थान: तकहार प्रान्त, अफगानिस्तान  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

76, नाम: 1 रमातुल्लाह 2 वाहीदयार 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: शहीद एवं देश-प्रत्यावर्तन मंत्री  
जन्मतिथि: लगभग 1958 जन्मस्थान: पकतिका प्रान्त, अफगानिस्तान  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 31 जनवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

77, नाम: 1 मोहम्मद सेदिक 2 अखुंदज़दा 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: शहीद एवं देश प्रत्यावर्तन उपमंत्री  
जन्मतिथि: 1953 और 1958 के बीच जन्मस्थान: काबुल प्रान्त, अफगानिस्तान  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

78, नाम: 1 मोहम्मद वाली 2 उपलब्ध नहीं 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
उपनाम: मौलवी पदनाम: प्रिवेटिंग वाइस एंड प्रोपागेंडिंग वरच्यु विभाग मंत्री  
जन्मतिथि: लगभग 1965 जन्मस्थान: कन्धार प्रान्त, अफगानिस्तान  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 31 जनवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

79, नाम: 1 मोहम्मद सलीम 2 हक्कानी 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
उपनाम: मौलवी पदनाम: प्रिवेटिंग वाइस एंड प्रोपागेंडिंग वरच्यु उपमंत्री  
जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 31 जनवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

80, नाम: 1 सयैद एस्मातुल्लाह 2 असेम 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
उपनाम: मौलवी पदनाम: (क) प्रिवेंटिंग वाइस एंड प्रोपगेंडिंग वरच्यू उपमंत्री  
(ख) अफगान रेड क्रैसैंट सोसायटी का एस जी (एआरसीएस)  
जन्मतिथि: लगभग 1973 जन्मस्थान: निगर्हार प्रान्त, अफगानिस्तान,  
अच्छा नाम उर्फ: एस्मातुल्लाह एसेम,  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

81, नाम: 1 कारी 2 अहमदुल्लाह 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: सुरक्षा(आसूचना) मंत्री  
जन्मतिथि: लगभग 1975 जन्मस्थान: काराबाग जिला, गजनी प्रान्त, अफगानिस्तान  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

82, नाम: 1 अब्दुल-हक 2 वासीक 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
उपनाम: मौलवी पदनाम: सुरक्षा (आसूचना) उपमंत्री  
जन्मतिथि: लगभग 1975 जन्मस्थान: मध्य गजनी प्रान्त, अफगानिस्तान  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 31 जनवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

83, नाम: 1 एहसानुल्लाह 2 सरफिदा 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
उपनाम: मौलवी पदनाम: सुरक्षा (आसूचना) उपमंत्री  
जन्मतिथि: लगभग 1963 जन्मस्थान: काराबाग जिला, गजनी प्रान्त, अफगानिस्तान  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

84, नाम: 1 हबीबुल्लाह 2 रेशाद 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
उपनाम: मुल्लाह पदनाम: जांच विभाग के प्रमुख  
जन्मतिथि: 1968 से 1973 के बीच जन्मस्थान: गजनी प्रान्त, अफगानिस्तान  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

85, नाम: 1 अहमद जन 2 अखुंद 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
उपनाम: मौलवी पदनाम: जल एवं विद्युत मंत्री  
जन्मतिथि: 1953 से 1958 के बीच जन्मस्थान: कन्धार प्रान्त, अफगानिस्तान  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

86, नाम: 1 मोहम्मद हुमायूँ 2 उपलब्ध नहीं 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
उपनाम: इन्जी पदनाम: जल एवं विद्युत उप मंत्री  
जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

87, नाम: 1 सदुद्दीन 2 सयैद 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
उपनाम: (1) मौलवी (2) अल्हज (मुल्लाह) पदनाम: (क) कार्य एवं सामाजिक कार्य उपमंत्री  
(ख) काबुल शहर का मेयर  
जन्मतिथि: लगभग 1968 जन्मस्थान: चमन जिला, पाकिस्तान  
अच्छा नाम उर्फ: (क) सदुद्दीन सयैद (ख) सदरुद्दीन  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

88, नाम: 1 अब्दुल जब्बार 2 ओमारी 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
उपनाम: मौलवी पदनाम: वघलान प्रान्त का गवर्नर  
जन्मतिथि: लगभग 1958 जन्मस्थान: जबुल, अफगानिस्तान  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

89, नाम: 1 नूरुल्लाह 2 नूरी 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
उपनाम: मौलवी पदनाम: (क) बाल्ख प्रान्त का गवर्नर (ख) उत्तरी क्षेत्र का प्रमुख  
जन्मतिथि: लगभग 1958 जन्मस्थान: शाहजो जिला, जबुल प्रान्त, अफगानिस्तान  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

90, नाम: 1 मुहम्मद इस्लाम 2 उपलब्ध नहीं 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
उपनाम: मौलवी पदनाम: बामियां प्रान्त का गवर्नर  
जन्मतिथि: 1953 और 1958 के बीच जन्मस्थान: सेरी-दू-अब जिला, समंगन प्रान्त,  
अफगानिस्तान  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

91, नाम: 1 जनन 2 आगा 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
उपनाम: मुल्ला पदनाम: फरियाब का गवर्नर  
जन्मतिथि: लगभग 1958 जन्मस्थान: मध्य उरुजगन प्रान्त, अफगानिस्तान  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

92, नाम: 1 दोस्त मोहम्मद 2 उपलब्ध नहीं 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मुल्ला पदनाम: गजनी प्रान्त का गवर्नर  
 जन्मतिथि: 1968 से 1973 के बीच जन्मस्थान: दमन जिला, कन्धार प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अछा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

93, नाम: 1 खैरुल्लाह मोहम्मद 2 खैरखाह 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: हेरात प्रान्त का गवर्नर  
 जन्मतिथि: लगभग 1963 जन्मस्थान: अरशीस्तान जिला, कन्धार प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अछा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

94, नाम: 1 अब्दुल बारी 2 उपलब्ध नहीं, 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: हेल्मंद प्रान्त गवर्नर  
 जन्मतिथि: लगभग 1953 जन्मस्थान: हेल्मंद प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अछा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

95, नाम: 1 वलीजान 2 उपलब्ध नहीं, 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: जावजान प्रान्त का गवर्नर  
 जन्मतिथि: लगभग 1968 जन्मस्थान: बवेता, पाकिस्तान  
 अछा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

96, नाम: 1 मोहम्मद हसन 2 रहमानी 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: कन्धार प्रान्त का गवर्नर  
 जन्मतिथि: लगभग 1963 जन्मस्थान: वंजवई जिला, प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

97, नाम: 1 अब्दुल मानन 2 नियाजी 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मुल्ला पदनाम: काबुल प्रान्त का गवर्नर  
 जन्मतिथि: लगभग 1968 जन्मस्थान: हार्ट प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

98, नाम: 1 अब्दुल वाहेद 2 शफीक 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: काबुल प्रान्त का उप-गवर्नर  
 जन्मतिथि: लगभग 1968 जन्मस्थान: निंगहार् प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

99, नाम: 1 मोहम्मद शफीक 2 मोहम्मदी 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: खोस्त प्रान्त का गवर्नर  
 जन्मतिथि: लगभग 1948 जन्मस्थान: उरुजगन प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,



बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

100, नाम: 1 नज़र 2 मोहम्मद 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
उपनाम: मौलवी पदनाम: कुन्दूज़ प्रान्त का गवर्नर  
जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

101, नाम: 1 मोहम्मद एशाक 2 अखुंज़दा 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
उपनाम: मौलवी पदनाम: लघमान प्रान्त का गवर्नर  
जन्मतिथि: 1963 से 1968 के बीच जन्मस्थान: करबज़ जिला, गजनी प्रान्त, अफगानिस्तान  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

102, नाम: 1 जिया-उर-रहमान 2 मदानी 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
उपनाम: मौलवी पदनाम: लोगर प्रान्त का गवर्नर  
जन्मतिथि: 1953 से 1958 के बीच जन्मस्थान: तालीकान, तखार प्रान्त, अफगानिस्तान  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

103, नाम: 1 शमसुद्दीन 2 उपलब्ध नहीं 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
उपनाम: मौलवी पदनाम: बरदाक(मैदान) प्रान्त का गवर्नर  
जन्मतिथि: लगभग 1968 जन्मस्थान: केशिम जिला, बरदख़शान प्रान्त, अफगानिस्तान  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

104, नाम: 1 मोहम्मद रसूल 2 उपलब्ध नहीं 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: निमरोज़ प्रान्त का गवर्नर  
 जन्मतिथि: 1958 से 1968 के बीच जन्मस्थान: स्पिन बोल्डाक जिला, कन्धार प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

105, नाम: 1 ताहा 2 उपलब्ध नहीं, 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: पकतीया प्रान्त का गवर्नर  
 जन्मतिथि: लगभग 1963 जन्मस्थान: निंगर्हार प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

106, नाम: 1 मोहम्मद शफ़ीक 2 अहमदी 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मुल्ला पदनाम: समनगढ़ प्रान्त का गवर्नर  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

107, नाम: 1 अमिनुल्लाह 2 अमीन 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: सारीपुल प्रान्त का गवर्नर

जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,

108, नाम: 1 अब्दुलहाई 2 सलेक 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: उरुजान प्रान्त का गवर्नर  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

109, नाम: 1 अहमद जन 2 अखुंजदा 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: जबोल प्रान्त का गवर्नर  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्मस्थान: उरजान प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

110, नाम: 1 नूर मोहम्मद 2 साकिब 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश  
 जन्मतिथि: लगभग 1958 जन्मस्थान: बगरामी जिला, काबुल प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

111, नाम: 1 सनानी 2 उपलब्ध नहीं 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: दस्-उस्-इप्ता का प्रमुख  
 जन्मतिथि: लगभग 1923 जन्मस्थान: जबुल प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अक्षर नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

112, नाम: 1 रफीउल्लाह 2 मुआज्ज 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: हाई कोर्ट का डप्यूटी  
 जन्मतिथि: 1943 जन्मस्थान: पकशिया प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अक्षर नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

113, नाम: 1 शहबुद्दीन 2 देलावर 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: हाई कोर्ट का डप्यूटी  
 जन्मतिथि: लगभग 1953 जन्मस्थान: लोगर प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अक्षर नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

114, नाम: 1 अब्दुल रहमान 2 आगा 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: मिलिटरी कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश  
 जन्मतिथि: लगभग 1958 जन्मस्थान: अरघंदब जिला, कन्धार प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अक्षर नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 फरवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

115, नाम: 1 मोहम्मद हसन 2 मस्तसईद 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मुल्ला पदनाम: एकादमी ऑफ सांडसेज का प्रमुख  
 जन्मतिथि: लगभग 1958 जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 23 फरवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

116, नाम: 1 अब्दुल हकीम 2 मुजाहिद 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: संयुक्त राष्ट्र में तालीबान का दूत  
 जन्मतिथि: लगभग 1963 जन्मस्थान: लोगर प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

117, नाम: 1 हमीदुल्लाह 2 उपलब्ध नहीं 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मुल्ला पदनाम: अरियाना अफगान एयरलाइन्स का प्रमुख  
 जन्मतिथि: लगभग 1968 जन्मस्थान: कन्धार प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

118, नाम: 1 जन मोहम्मद 2 मदानी 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मिस्टर पदनाम: चार्ज डी अफेयर्स, तालीबान दूत, आबूधाबी  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

119, नाम: 1 शम्सलाह 2 कमालज़दा 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मिस्टर पदनाम: द्वितीय सचिव, तालीबान दूतावास, आबूधाबी  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

120, नाम: 1 अजिजि रहमान 2 उपलब्ध नहीं 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मिस्टर पदनाम: तृतीय सचिव, तालीबान दूतावास, आबूधाबी  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

121, नाम: 1 अब्दुल मनान 2 उपलब्ध नहीं, 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: (1) मिस्टर(2) मावलावी पदनाम: वाणिज्यिक सहचारी, तालीबान दूतावास, आबूधाबी  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

122, नाम: 1 अब्दुल वाहब 2 उपलब्ध नहीं, 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मालवी पदनाम: रियाद में तालिबान चार्ज डी अफेयर्स  
 जन्मतिथि: लगभग 1973 जन्मस्थान: फरयाब प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

123, नाम: 1 हबीबुल्ला 2 फएजी 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: प्रथम सचिव/मिशन के उप-प्रमुख, तालिबान दूतावास,  
इस्लामाबाद  
जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

124, नाम: 1 मोहम्मद सोहैल 2 शाहीन 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: द्वितीय सचिव, तालिबान रु दूतावास- इस्लामाबाद  
जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

125, नाम: 1 मोहम्मदइ 2 सरवर 3 सिद्दीकमल 4 उपलब्ध नहीं,  
उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: तृतीय सचिव, तालिबान रु दूतावास- इस्लामाबाद  
जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

126, नाम: 1 मोहम्मद 2 जाहिद 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
उपनाम: मुल्लाह पदनाम: तृतीय सचिव, तालिबान रु दूतावास- इस्लामाबाद  
जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

127, नाम: 1 अब्दुल कादिर 2 उपलब्ध नहीं, 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
उपनाम: जनरल पदनाम: मिलिटरी सहचारी तालिबान रु दूतावास- इस्लामाबाद  
जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

128, नाम: 1 नाजिरुल्लाह 2 अनाफी 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
उपनाम: मौलवी पदनाम: वाणिज्यिक सहचारी, तालिबान रु दूतावास- इस्लामाबाद  
जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

128, नाम: 1 नाजिरुल्लाह 2 अनाफी 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
उपनाम: मौलवी पदनाम: वाणिज्यिक सहचारी, तालिबान रु दूतावास- इस्लामाबाद  
जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

129, नाम: 1 अब्दुल गफ्फार 2 कुरेशी 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
उपनाम: मौलवी पदनाम: प्रत्यावर्तन अताशे, दूतावास इस्लामाबाद  
जन्म तिथि: उपलब्ध नहीं, जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: अफगान



पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

130, नाम: 1 मोहम्मद दाउद 2 उपलब्ध नहीं, 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: प्रशासनिक अताशे, तालिबान रु दूतावास- इस्लामाबाद  
जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

131, नाम: 1 नजीबुल्लाह, 2 उपलब्ध नहीं, 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
उपनाम: मौलवी पदनाम: प्रधान कौंसल, तालिबान, प्रधान कौंसलावास, पेशावर  
जन्मतिथि: लगभग 1953 जन्मस्थान: कन्धार प्रान्त, अफगानिस्तान  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

132, नाम: 1 कारी 2 अब्दुल वली 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: प्रथम सचिव, तालिबान प्रधान कौंसलावास, पेशावर  
जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीयता: अफगान  
पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
पता: उपलब्ध नहीं,  
सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

133, नाम: 1 सैयद, 2 अल्लामुद्दीन 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: द्वितीय सचिव, तालिबान प्रधान कौंसलावास, पेशावर  
जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

134, नाम: 1 अख्तर 2 मोहम्मद 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: शिक्षा अताशे, तालीबान, कौंसलावान, पेशावर  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

135, नाम: 1 मोहम्मद 2 सादिक 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: 1. अल्हाज 2. मौलवी पदनाम: व्यापार प्रतिनिधि तालिबान प्रधान कौंसलावास, पेशावर  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

136, नाम: 1 रहमतुल्ला 2 काकाजदा 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: प्रधान कौंसल, तालिबान प्रधान कौंसलावास, करांची,  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

137, नाम: 1 मोहम्मद 2 अलीम 3 नूरानी 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मुफ्ती पदनाम: प्रथम सचिव, तालिबान प्रधान कौंसलावास, करांची  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

138, नाम: 1 अब्दुल गफ्फार 2 शेन्वारी 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: हाजी पदनाम: तृतीय सचिव, तालिबान प्रधान कौंसलावास, करांची,  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

139, नाम: 1 गुल अहमद 2 मुराद 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: वाणिज्यिक आताशे, तालिबान प्रधान कौंसलावास, करांची,  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

140, नाम: 1 अब्दुलाह 2 मुराद 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: प्रधान कौंसल, तालिबान प्रधान कौंसलावास, क्वेटा,  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

141, नाम: 1 अब्दुल हाय 2 आजिम 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: प्रथम सचिव, तालिबान प्रधान कौंसलावास, क्वेटा,

जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रियता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

142, नाम: 1 हमादुल्ला 2 उपलब्ध नहीं, 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: मौलवी पदनाम: प्रत्यावर्तन अताशे, तालिबान प्रधान कौंसलावास, क्वेटा,  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं, जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रियता: अफगान  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

(ख) तालिबान से सम्बद्ध अथवा संबंधित ईकाइयों की सूची

1, नाम: डे अफगानिस्तान मोमताज बैंक  
 उर्फ नाम : उपलब्ध नहीं, एफ के ए: उपलब्ध नहीं, पता: उपलब्ध नहीं, सूचीबद्ध: उपलब्ध नहीं  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

(ग) अल-कायदा संगठन से संबंधित अथवा सम्बद्ध व्यक्तियों की सूची

1, नाम: 1 मोहम्मद नासिर 2 अब्बास 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 6 मई, 1969 जन्मस्थान: सिंगापुर  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: (क) अबू हूसना (ख) अदी मुल्योनो (ग) मलिक (घ) खेरुदीन (ङ) सुलेमान  
 (च) मामन, (छ) हूसना,  
 राष्ट्रियता: मलेशियाई  
 पासपोर्ट संख्या: ए-8239388  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: 690506-71-5515,  
 पता: तमान राजा लाउत, सबाह, मलेशिया  
 सूचीबद्ध: 9 सितम्बर, 2003 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

2, नाम: 1 मुस्तफा 2 अब्बास 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 5 फरवरी, 1962 जन्मस्थान: ओसनीयर्स, अलजीरिया  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: वाया पडोवा, 82-मिलान, इटली (अधिवास)  
 सूचीबद्ध: 17 मार्च, 2004 (26 नवम्बर, 2004 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

3, नाम: 1 यूसेफ 2 अब्बास 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 5 जनवरी, 1965 जन्मस्थान: बाब अल औएद, अलजीरिया  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: जियुसेप्पे  
 राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: (क) वाया पडोवा, 82-मिलान, इटली (अधिवास)  
 (ख) वाया मंजोनी, 33-सिनीसेल्लो बालसामो (एमआई), इटली (अधिवास)  
 सूचीबद्ध: 17 मार्च, 2004 (26 नवम्बर, 2004 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

4, नाम: 1 अब्द अल वहाब 2 अब्द अल हाफिज 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 7 सितम्बर, 1967 जन्मस्थान: अलजीयर्स, अलजीरिया  
 अच्छा नाम उर्फ: (क) फर्दजनी मौउलोद (ख) राबा डी रोमा  
 बुरा नाम उर्फ: मौराद  
 राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: वाया लुंगोटेवरे दांते-रोम, इटली (अधिवास)  
 (ख) वाया मंजोनी, 33-सिनीसेल्लो बालसामो (एमआई), इटली (अधिवास)  
 सूचीबद्ध: 17 मार्च, 2004 (26 नवम्बर, 2004 तथा 9 सितम्बर, 2005 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

5, नाम: 1 अली 2 अब्बास 3 अब्दी 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध: 9 नवम्बर, 2001 को  
 अन्य सूचना: मोगाडिशू, सोमालिया

6, नाम: 1 यूसेफ 2 बेन-अब्दुल बकी 3 बेन यूसेफ, 4 अब्दाउड,  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: (क) 4 जून, 1966 (ख) 4 सितम्बर, 1966  
 जन्मस्थान: कैरुआं, ट्यूनीशिया,  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: (क) अब्दुल्लाह (ख) अब्देल्लाह (ग) अब्दुल्लाह  
 राष्ट्रीयता: ट्यूनीशियाई  
 पासपोर्ट संख्या: ट्यूनीशियाई  
 पासपोर्ट संख्या: जी 025057 जारी --23 जून, 1999  
 वैधता समाप्ति की तिथि: 5 फरवरी, 2004  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: (क) वाया रोमानोसी, नं० 6, वारेस, इटली  
 (ख) पिआज्जा जियोवेन इटालिया नं० 2, वारेसे, इटली  
 सूचीबद्ध: 25 जून, 2003 (23 जून, 2004 और 20 दिसम्बर, 2005 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: फिस्कल कोड : बीडीए वाईएसएफ 66 पी 04 जेड 352 एस

7, नाम: 1 मोहमेद 2 बेन मोहमेद 3 बेन खलीफा 4 अब्देलहेदी  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 10 अगस्त, 1965 जन्मस्थान: एसफैक्स, ट्यूनीशिया  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता: ट्यूनीशियाई  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: वाया काटालान, सं० 1, वोरसे, इटली  
 सूचीबद्ध: 23 जून, 2004 (20 दिसम्बर, 2005 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: फिस्कल कोड: बीडीएल एमएमडी 65एम10 जेड 352 एस

8, नाम: 1 अब्द अल्लाह 2 मोहमेद 3 रागाब, 4 अब्देल रहमान  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 30 नवम्बर, 1957 जन्मस्थान: कफ्र आय-शाख  
 अच्छा नाम उर्फ: (क) अबु अल-खैर (ख) अहमद हसन (ग) अबु जिहाद,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता: मिस्र  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 पता: पाकिस्तान, अफगानिस्तान या ईरान में रह सकते हैं।  
 सूचीबद्ध: 29 सितम्बर, 2005  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

9, नाम: 1 अली 2 अब्बास 3 अब्दी 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं,

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: उपलब्ध नहीं

सूचीबद्ध: 9 नवम्बर, 2001 को

अन्य सूचना: मोगाडिशू सोमालिया

10, नाम: 1 अता 2 अब्दुलाजीज राशिद 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,

उपनाम: उपलब्ध नहीं,

पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 1 दिसम्बर, 1973

जन्मस्थान: सुलैमानिया, इराक

अच्छा नाम उर्फ: (क) अता अब्दुल अजीज बार्जिगा (ख) अब्दुलाजीज अता राशिद, जन्म 1 दिसम्बर, 1973

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: इराकी

पासपोर्ट संख्या: जर्मन ट्रेवल डाक्यूमेंट (□रीसीयसविजुए 0020375

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: स्टटगार्ट प्रिजन, जर्मनी

सूचीबद्ध: 6 दिसम्बर, 2005

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

11, नाम: 1 घुमा 2 अब्द रब्बाह 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,

उपनाम: उपलब्ध नहीं,

पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 2 सितम्बर, 1957

जन्मस्थान: बेनघाजी, लीबिया

अच्छा नाम उर्फ: (क) घुनिया अब्दुरब्बा (ख) घोना अब्दरब्बा

(ग) अब्द रब्बाह (घ) अबु जमील

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: ब्रिटिश

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: बर्मिंघम, ब्रिटेन

सूचीबद्ध: 7 फरवरी, 2006

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

12, नाम: 1 माजीद 2 अब्दुल चौधरी 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,

उपनाम: उपलब्ध नहीं,

पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: (क) 15 अप्रैल, 1939 (ख) 1938

जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं

अच्छा नाम उर्फ: (क) मजीद अब्दुल (ख) मजीद चौधरी अब्दुल (ग) मजीद अब्दुल

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: पाकिस्तानी

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं,

पता: बर्मिंघम, ब्रिटेन

सूचीबद्ध: 24 दिसम्बर, 2001 को

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

13, नाम: 1 जुल्किफली 2 अब्दुल हिर 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,

उपनाम: उपलब्ध नहीं,

पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 5 जनवरी, 1966

जन्मस्थान: जोहर, मलेशिया,

अच्छा नाम उर्फ: मुसा अब्दुल हिर

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: मलेशियाई

पासपोर्ट संख्या: ए-11263265

राष्ट्रीय पहचान संख्या: 660105-01-5297

पता: सेक्सयेन, 17 शाह आलम, सेलांगोर, मलेशिया,

सूचीबद्ध: 9 सितम्बर, 2003

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

14, नाम: 1 दीमान 2 अब्दुल कादिर इज्जत 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,

उपनाम: उपलब्ध नहीं,

पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 4 जुलाई, 1965

जन्मस्थान: किरकुक, इराक

अच्छा नाम उर्फ: दीमान अल्होसेनबेन अली अलजब्बार, 4 जुलाई, 1965 का जन्म

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता: इराकी

पासपोर्ट संख्या: जर्मन ट्रेवल डाक्यूमेंट (रिज्यूविज), ए 0141062

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं

पता: न्यूरेमबर्ग प्रिजन, जर्मनी

सूचीबद्ध: 6 दिसम्बर, 2005

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

15, नाम: 1 मोहम्मद 2 इकबाल 3 अब्दुरहमान 4 उपलब्ध नहीं,

उपनाम: उपलब्ध नहीं,

पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 17 अगस्त, 1958

जन्मस्थान: सेलांग गांव, पूर्वी लोमबुक, इंडोनेशिया

अच्छा नाम उर्फ: (क) रहमान मोहमद इकबाल (ख) ए रहमान मोहम्मद इकबाल (ग) जिब्रिल अब्दुरहमान

(घ) फिकिरद्दीन मुक्ति (ङ) फिहिरुद्दीन

बुरा नाम उर्फ: (क) अबु जिब्रिल,

राष्ट्रीयता: इंडोनेशिया

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं

पता: उपलब्ध नहीं

सूचीबद्ध: 28 जनवरी, 2003 को (26 नवम्बर, 2004 को संशोधित)

अन्य सूचना: दिसम्बर, 2003 में मलेशिया में हिरासत में लिए जाने की सूचना मिली थी।

16, नाम: 1 सुलेमान 2 जसीम 3 सुलेमान 4 अबो गैथ,

उपनाम: उपलब्ध नहीं,

पदनाम: उपलब्ध नहीं,

जन्मतिथि: 4 दिसम्बर, 1965

जन्मस्थान: कुबैत

अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

बुरा नाम उर्फ: आबू गैथ

राष्ट्रीयता: कुवैती नागरिक वापिस

पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं

पता: उपलब्ध नहीं

सूचीबद्ध: 16 जनवरी, 2004

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

17, नाम: 1 इब्राहिम 2 अली 3 मुहम्मद 4 अबु बाकर

उपनाम: उपलब्ध नहीं,

पदनाम: उपलब्ध नहीं,



जन्मतिथि: उपलब्ध नहीं      जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं  
 अच्छा नाम उर्फ: अल लिबि अब्दल मुहसिन  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 11 जनवरी, 2002 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध अफगान समर्थन समिति और इस्लामी विरासत को पुर्नर्जिवित करने से संबंधित समिति से संबद्ध।

18, नाम: 1 मोहमद 2 अबु धेस 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 22 जनवरी, 1964 जन्मस्थान: इर्बिद, जोर्डन,  
 अच्छा नाम उर्फ: (क) यासर हसन, 1 फरवरी, 1966 को जास्मिजा में जन्मे (ख) अबु अली अबु मोहम्मद धेस, 1 फरवरी, 1966 को हास्मिजा में जन्मे (ग) मोहम्मद अबु धेस, 1 फरवरी, 1966 को हास्मिजा में जन्मे  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: जोर्डनियायी  
 पासपोर्ट संख्या: (क) जर्मन अंतर्राष्ट्रीय यात्रा दस्तावेज सं० 06955982, अवधि समाप्त हो गई,  
 (ख) जर्मन अंतर्राष्ट्रीय यात्रा दस्तावेज सं० 0785146, 8 अप्रैल, 2005 तक वैध  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: इस समय नजरबंद है और मुकदमा चलाए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है।  
 सूचीबद्ध: 23 सितम्बर, 2003 को,  
 अन्य सूचना: (क) पिता का नाम: मोमूहेमद सालेह हसन  
 (ख) माता का नाम: मारियस हसन, नी चालाबिया,  
 (ग) विशिष्ट विशेषताएं: बांयी तर्जनी अंगुली का ऐंठ जाना। विकृत हो जाना।

19, नाम: 1 यासर 2 मोहमद 3 इस्माइल 4 अबु शवीश  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 20 नवम्बर, 1973 जन्मस्थान: बेंधाजी, लीबिया  
 अच्छा नाम उर्फ: यासर मोहमद अबु शावीश  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं  
 पासपोर्ट संख्या: (क) मिस्र के यात्रा दस्तावेज 939254  
 (ख) मिस्र का पासपोर्ट 0003213  
 (ग) मिस्र का पासपोर्ट 981358  
 (घ) जर्मनी संघीय गणराज्य द्वारा जारी वैकल्पिक पासपोर्ट सी 00071659  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: बुप्परताल प्रिजमज जर्मनी  
 सूचीबद्ध: 6 दिसम्बर, 2005  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

20, नाम: 1 अमिन 2 मुहम्मद 3 अहक 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 1960 जन्मस्थान: नंगाहर प्रान्त, अफगानिस्तान  
 अच्छा नाम उर्फ: (क) अमिन अल हक (ख) मुहम्मद अमिन  
 बुरा नाम उर्फ: (क) डा. अमिन (ख) डा. अमिन अल हक

राष्ट्रीयता: अफगान राष्ट्रिक  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2001 को,  
 अन्य सूचना: यू बी एल का सुर्क्षा समन्वयक

21, नाम: 1 तारिक 2 अनवर 3 अहमद 4 साईद  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 15 मार्च, 1963 जन्मस्थान: अलेक्जेंड्रिया, मिस्र  
 अच्छा नाम उर्फ: (क) हमदी अहमद फराग (ख) अमर अल-फतेह फाती  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 6 अक्टूबर, 2001 (26 नवम्बर, 2004 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

22, नाम: 1 जकी 2 एजत 3 जकी 4 अहमद  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 21 अप्रैल, 1960 जन्मस्थान: शरकियाह  
 अच्छा नाम उर्फ: (क) रिफ आत सलीम (ख) अबु उसामा  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: मिस्री  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: पाकिस्तान अफगान सीमा के निकट हो सकता है।  
 सूचीबद्ध: 29 सितम्बर, 2005  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

23, नाम: 1 फरीद 2 ऐदर 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 5 मार्च, 1962 जन्मस्थान: अलजेरी, अलजीरिया  
 अच्छा नाम उर्फ: अचूर अली  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: वाया मिलानीज, 5-20099 सिस्टो सान, जियोवानी (एमआई) इटली  
 सूचीबद्ध: 17 मार्च, 2004 (26 नवम्बर, 2004 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: फिस्कल कोड: डीआरएफआरडी 64 आर 12 जेड 301सी

24, नाम: 1 मुस्तफा नासर 2 एत-अल हादी 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 5 मार्च, 1962 जन्मस्थान: ट्यूनीस  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: (क) अलजीरियाई (ख) जर्मन  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 11 नवम्बर, 2003 (20 दिसम्बर, 2005 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: अब्देलकादिर तथा अमीना ऐस्साडई का पुत्र

25, नाम: 1 मोहम्मद 2 अमीन 3 अक्ली, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 30 मार्च, 1972 जन्मस्थान: अबोईज किफानी (अल्जीरिया)  
 अच्छा नाम उर्फ: (क) अक्ली अमीन मोहम्मद (ख) किलेच शमीर (ग) काली समी  
 बुरा नाम उर्फ: एलियास  
 राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: इटली में कोई निश्चित ठिकाना नहीं  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2003 को,  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

26, नाम: 1 मोहम्मद 2 हम्दी 3 सादिक 4 अल-अहदल  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 30 मार्च, 1972 जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
 अच्छा नाम उर्फ: अल-हमाती मुहम्मद  
 बुरा नाम उर्फ: अल मक्की, अबु असिम  
 राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 17 अक्टूबर, 2001 को,  
 अन्य सूचना: यमन

27, नाम: 1 महरेज 2 बेन महमूद 3 बेन सस्सी 4 उल-अमदाहनी  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 18 दिसम्बर, 1969 जन्मस्थान: असीमा-ट्यूनिस्, ट्यूनीशिया  
 अच्छा नाम उर्फ: (क) फाबियो फस्का (ख) मोहमद हसन  
 बुरा नाम उर्फ: अबु ठाले  
 राष्ट्रीयता: (क) ट्यूनीशियाई (ख) बोस्निया एवं हर्जोगोविना  
 पासपोर्ट संख्या: (क) ट्यूनीशियाई पासपोर्ट सं० जी 737411-जारी 24 अक्टूबर, 1990  
 अवधि समाप्त - 20 सितम्बर, 1997  
 (ख) बोस्निया का पासपोर्ट सं० 0801888  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: इटली में कोई निश्चित ठिकाना नहीं  
 सूचीबद्ध: 25 जनवरी, 2003 को, (26 नवम्बर, 2004 तथा 20 दिसम्बर, 2005 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: टर्की के इस्तानबुल में गिरफ्तार कर इटली के लिए विवासित करने की सूचना है।

28, नाम: 1 अलओयूडी 2 मोहमद 3 बेन बेलगासेम 4 बेन अब्दल्लाह

उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 11.12.1974 जन्मस्थान: ट्यूनिस, ट्यूनिसिया  
 अच्छा नाम उर्फ: अलओयूडी, मोहमद बेन बेल्कासेम  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता: ट्यूनिस  
 पासपोर्ट संख्या: एल 191609, 29/2/2996 की जारी  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: 04643632, 18/6/1999 को जारी  
 पता: (क) वाया ए मसीना एन 7, मिलान, इटली (ख) वाया डोपिनी नं० 3, गालाराती-इटली  
 सूचीबद्ध: 24 अप्रैल, 2002  
 अन्य सूचना: कोडिरो फिसकेल, डाओम्मद 74टी 11 जेड 352 जेड, उसकी माता का नाम बेंत अहमद ओयूरिडा है।

29, नाम: 1 अकील 2 अब्दुलअजीज 3 अल-अकील, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 29 अप्रैल, 1949 जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं,  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 6 जुलाई, 2004  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

30, नाम: 1 अल-अयादी 2 शफीक 3 बेन मुहम्मद 4 बेन मुहम्मद  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 21 मार्च, 1963 जन्मस्थान: सफक्स तुनिसिया  
 अच्छा नाम उर्फ: (क) बिन मुहम्मद, अयादी शफीक (ख) अयादी शफीक, बेन मुहम्मद (क) अयादी मुहम्मद (घ) आइयादी बिन मुहम्मद (ङ) आयादी शफीक बेन मुहम्मद (च) बेन मुहम्मद, अयादी शफीक  
 बुरा नाम उर्फ: अबू अल बारा  
 राष्ट्रीयता: (क) टुनिसियाई (ख) बोस्नियाई (ग) आस्ट्रियाई  
 पासपोर्ट संख्या: ई-423362, 05.15.1988 को इस्लामाबाद से जारी  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: 1292531  
 पता: हेलन मेयर रिंग 10-15-80809, म्युनिख, जर्मनी (ख) 129, पार्क रोड, एन डब्ल्यू 8, इंग्लैंड (ग) 28 चौसी डी मोस्करोन, बेल्जियम (घ) दाराविगास्से 1/2/58-60, वियाना, आस्ट्रिया  
 सूचीबद्ध: 17 अक्टूबर, 2001  
 अन्य सूचना: टुनिसिया, वह आयरलैंड में है। उसकी मां का नाम मदीना अबिद है।

31, नाम: 1 छिहेब 2 बिन मोहमद 3 अल अयारी 4 बिन मुख्तार  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 19 दिसम्बर, 1965 जन्मस्थान: ट्यूनिस, (ट्यूनिसिया)  
 अच्छा नाम उर्फ: हिचेम अबु हचेम  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: वाया दि सालिसेतो एन 51/9 बोलोना, इटली  
 सूचीबद्ध: 25 जून, 2003

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

32, नाम: 1 मोनदेर 2 दिन मोहसिन 3 बिन अली 4 अल-बाजाओई  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 18 मार्च, 1967 जन्मस्थान: कैरोयूएन (ट्यूनिसिया)  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: हमजा  
 राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: वाया दि सालिसेता एन 51/9, बोलोग्ना, इटली  
 सूचीबद्ध: 25 जून, 2003 (20 दिसम्बर, 2005 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

33, नाम: 1 सुलीमान 2 अल-बुथी 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 8 दिसम्बर, 1961 जन्मस्थान: मिस्र  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता: सऊदी अरब  
 पासपोर्ट संख्या: बी 049614  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध: 28 सितम्बर, 2004  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

34, नाम: 1 चराबी 2 तारोक 3 बेनबेचीर 4 बेन अगारा  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 03.04.1968 जन्मस्थान: टुनिस, टुनिसिया  
 अच्छा नाम उर्फ: शराबी तारोक  
 बुरा नाम उर्फ: (क) हारोन (ख) फ्रैंक  
 राष्ट्रीयता: टुनिसियाई  
 पासपोर्ट संख्या: 19 नवम्बर, 1997 को मिलान में जारी पासपोर्ट सं० एल 579603  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: 007-99090  
 पता: वाया ले ब्लीग्नी एन, 42 मिलान, इटली  
 सूचीबद्ध: 24 अप्रैल, 2002 (20 दिसम्बर, 2005 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: कोडिस फ्रिस्कल, सीएचआरटीआर के 70 सी 31 जैड 352 यू उसकी मां का नाम चराबी  
 हेदिया है।

35, नाम: 1 अल चेरिफ 2 सईद 3 बेन अब्देलहाकिम 4 बेन उमर  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 25.01.1970 जन्मस्थान: मेनजेल टेमाइन, ट्यूनिसिया  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: (क) जलाल (ख) यूसेफ (ग) अबू सलेम  
 राष्ट्रीयता: ट्यूनीशियाई  
 पासपोर्ट संख्या: ट्यूनीशियाई पास पोर्ट सं० एम 307968, 8 सितम्बर, 2001 को जारी तथा वैधता अवधि  
 7 सितम्बर, 2006 को समाप्त

राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: कोरसो लोदी 59, मिलान, इटली  
 सूचीबद्ध: 12 नवम्बर, 2003 (20 दिसम्बर, 2005 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

36, नाम: 1 असचराफ 2 अल-डगमा 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 28 अप्रैल, 1969 जन्मस्थान: अबसान, गाजा पट्टी फिलीस्तीन क्षेत्र  
 अच्छा नाम उर्फ: (क) असचराफ अल-डगमा, 28 अप्रैल, 1969 को कन्नयूज, फिलीस्तीन क्षेत्र में जन्मा,  
 (ख) असचराफ अल-डगमा, 28 अप्रैल, 1969 को गाजा पट्टी फिलीस्तीन क्षेत्र में जन्मा  
 (ग) असचराफ अल-डगमा, 28 अप्रैल, 1969 को गाजा पट्टी फिलीस्तीन क्षेत्र में जन्मा  
 (घ) असचराफ अल-डगमा, 28 अप्रैल, 1969 को गाजा पट्टी फिलीस्तीन क्षेत्र में जन्मा  
 बुरा नाम उर्फ: नहीं, उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता: अनिर्णित। फिलिस्तीनी मूल  
 पासपोर्ट संख्या: लैंड्राटस्माट अत्तेनबर्गर लैंड (अल्ता नबुर्ग) कांट्री एडमिनेस्ट्रेशन कार्यालय, जर्मनी द्वारा 30  
 अप्रैल, 2000 को जारी शरणार्थी यात्रा दस्तावेज  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: इस समय नजरबंद मुकदमा चलाए जाने की प्रतीक्षा कर रहा है।  
 सूचीबद्ध: 23 सितम्बर, 2003  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

37, नाम: 1 अल-द्रिस्सी 2 अल-दरिस्सी 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 30.04.1964 जन्मस्थान: ट्यूनिश, ट्यूनीशिया  
 अच्छा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता: ट्यूनीशियाई  
 पासपोर्ट संख्या: 9 सितम्बर, 1998 को जारी ट्यूनीशियाई पासपोर्ट सं० एल 851940, अवधि समाप्त 8  
 सितम्बर, 203  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: वाया प्लेबिसिटी 3, सेरमोना, इटली  
 सूचीबद्ध: 12 नवम्बर, 2003 (20 दिसम्बर, 2005 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

38, नाम: 1 मुहसिन 2 अल-फादहली 3 उत्पन्न नहीं 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 24 अप्रैल, 1981 जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं  
 अच्छा नाम उर्फ: (क) मुहसिन फादिसन अईद अल फादहली (ख) मुहसिन फादील अईद अशुर अल  
 फाधली  
 (ग) अबु माजिद समियाह (घ) अबु सामिया  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं  
 पासपोर्ट संख्या: कुवैती 106261543  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: ब्लॉक चार, स्ट्रीट 13, मकान 179, कुवैत सिटी, अल-टीक्का क्षेत्र, कुवैत  
 सूचीबद्ध: 17 फरवरी, 2005  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

39, नाम: 1 अब्द 2 अल-रहमान 3 अल-फाकीह 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 15 दिसम्बर, 1959 जन्मस्थान: लीबिया  
 अच्छा नाम उर्फ: (क) मोहम्मद अलबशीर (ख) मुहम्मद अल-बशीर (ग) बशीर मोहम्मद इब्राहिम  
 (घ) अल-बशीर मोहम्मद (ङ) अबु मोहम्मद (च) मोहम्मद इस्माइल (ज) अबु अब्द अल  
 रहमान  
 (ज) अब्द अल रहमान अल-खताब (झ) मुस्तफा (ञ) महमूद (ट) अबु खालिद  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: बर्मिंघम, यू.के.  
 सूचीबद्ध: 7 फरवरी, 2006  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

40, नाम: 1 साद 2 राशिद 3 मोहम्मद 4 अल-फाकीह,  
 उपनाम: डाक्टर पदनाम: उपलब्ध नहीं,  
 जन्मतिथि: 1 फरवरी, 1957 जन्मस्थान: जुबैर, इराक  
 अच्छा नाम उर्फ: (क) अबु उठमान साद अल-फाकीह (ख) साद अल-फाकीह (ग) साद अल्फागीह  
 (घ) साद अल-फाकीह (ङ) साद अल-फाहीद (च) साद अल-फाकीह (छ) साद अल-  
 फागीह  
 (ज) साद अल-फाकीह  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता: सऊदी अरब  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: लंदन, यू.के.  
 सूचीबद्ध: 23 दिसम्बर, 2004  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

41. नाम: 1 खालिद 2 अल-फवाज 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 25 अगस्त, 1962 जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं,  
 अच्छा नाम उर्फ : (क) अल-फवाज खालेद (ख) अल-फवाज खालेद ए (ग) अल-फवाज खालिद  
 (घ) अल-फवाज खालेद (ङ.) अल-फवाज खालेद (च) अल-फवाज खालेद  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं,  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : 55-हावर्डैन हिल, ब्रूक रोड, लंदन एन डब्ल्यू 2 7 बीआर यू.के.  
 सूचीबद्ध : 24 अप्रैल, 2002 (26 नवंबर, 2004 को संशोधित)  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं,

42. नाम: 1 फतहुर 2 रोहमान 3 अल-घोजी 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 17 फरवरी, 1971 जन्मस्थान: मेडियम, पूर्वी जावा, इंडोनेशिया

अच्छा नाम उर्फ : (क) अल घोजी फादर (ख) अल घोजी फादर रहमान (ग) अल घोजी फादर रहमान (घ) अल घोजी फादर रहमान (ङ.) अल घोजी फादर रहमान (च) अल घोजी फादर रहमान (छ) अल घोजी फादर रहमान (ज) अल घोजी फादर रहमान (झ) राण्डी अलीह (ञ) राण्डी अली (ट) अलीह राण्डी (ठ) राण्डी एडम अलीह (ड) सम्मी सली जामिल (ढ) सम्मी सालिह जामिल (ण) रोनी आवाज (त) रोनी आजाद बिन अहाद (थ) रोनी आजाद बिन अहमद (द) रोनी आजाद बिन अहमद (ध) एर्डिम अनवर रोडिन

बुरा नाम उर्फ : (क) अबु साद (ख) अदु साद (ग) फ्रिडम फाइटर

राष्ट्रीयता : इन्डोनेशियाई

पासपोर्ट संख्या : फिलिपीन्स जी जी 672613

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,

पता : उपलब्ध नहीं

सूचीबद्ध : 9 सितम्बर, 2003 (26 नवंबर, 2004 को संशोधित)

अन्य सूचना : अक्टूबर, 2003 में फिलीपीन्स में मारे जाने की सूचना है।

43. नाम: 1 फेथी 2 बेन हसन 3 बेन सलेम 4 अल हद्दाद

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 28 जून, 1963

जन्मस्थान: ताताउने, ट्यूनीशिया

अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता : ट्यूनीशियाई

पासपोर्ट संख्या : ट्यूनीशियाई पासपोर्ट सं०-एल183017, जारी-14 फरवरी, 1996, अवधि समाप्त 13 फरवरी, 2001

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,

पता : (क) बाया फलवियो तेस्ती, 184-सिनीसेलो बलसामो (एमआई)-इटली (ख) बाया पोर्टे गियोवे, 1-मोर्टास (पीवी), इटली (अधिवास)

सूचीबद्ध : 17 मार्च, 2004 (26 नवंबर, 2004 और 20 दिसंबर, 2005 को संशोधित)

अन्य सूचना : फिस्कल कोड : एचडीडीएफटीएच 63 एच 28 जेड 352 वी

44. नाम: 1 इब्राहिम 2 बेन हेदिली 3 अल-हमामी 4 उओनो

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 20 नवम्बर, 1971

जन्मस्थान: कोबलेट (टुनिसिया)

अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता : ट्यूनीशिया

पासपोर्ट संख्या : ट्यूनीशियाई पासपोर्ट सं०-जेड 106861, जारी-18 फरवरी, 2004, अवधि समाप्त 17 फरवरी, 2009

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,

पता : बाया डी काराक्की एन, 15 कासालेचिओ डी रेनो (बोलोग्ना) इटली

सूचीबद्ध : जून, 2003 (20 दिसम्बर, 2005 को संशोधित)

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं,

45. नाम: 1 अलहमरोई 2 कमल 3 बेन मोल्डी 4 उओ नो

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 21.10.1977

जन्मस्थान: बेजा, ट्यूनीशिया

अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ : (क) कामेल (ख) किमो

राष्ट्रीयता : ट्यूनीशियाई

पासपोर्ट संख्या : ट्यूनीशियाई पासपोर्ट सं०-पी 229856, जारी-1 नवम्बर, 2002, अवधि समाप्त 31

अक्टूबर, 2007



राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,

पता : (क) वाया बस्टेसी 27, सेरमोना, इटली (ख) विया प्लेबिससीटो 3, करेमोना, इटली

सूचीबद्ध : 12.11.2003 (20 दिसम्बर, 2005 को संशोधित)

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं,

46. नाम: 1 अहमद 2 मोहम्मद 3 हामेद 4 अली

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 1965

जन्मस्थान: मिस्र

अच्छा नाम उर्फ : (क) अब्दुरमान अहमद मोहम्मद (ख) अहमद हामेद (ग) अली मोहम्मद (घ) अली हामेद (ङ) हामेद मोहम्मद (च) शौएब अहमद

बुरा नाम उर्फ : (क) अबुफातिमा (ख) अबु इस्लाम (ग) अबु खादिजाह (घ) अहमद दि इजेप्टियन (ङ) अहमद अहमद (च) अल-मास्नी अहमद (छ) अल-सूरिर (ज) शौएब

राष्ट्रीयता : मिस्री

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,

पता : उपलब्ध नहीं

सूचीबद्ध : 17 अक्टूबर, 2001

अन्य सूचना : अफगानिस्तान

47. नाम: 1 थिरवत 2 सलाह 3 शिहाटा • 4 अली

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 29.06.1960

जन्मस्थान: मिस्र,

अच्छा नाम उर्फ : (क) तरवत सलाह अब्दुल्ला (सलाह शिहाता थिरवत) (ग) शहाता थिरवत

बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं ।

राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं ।

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं ।

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,

पता : उपलब्ध नहीं ।

सूचीबद्ध : 06.10.2001 (26 नवम्बर, 2004 को संशोधित)

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं,

48. नाम: 1 माजेन 2 अली हुसैन 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 1 जनवरी, 1962

जन्मस्थान: बगदाद, इराक

अच्छा नाम उर्फ : इस्सा सलह मुहम्मद, जन्म 1 जनवरी, 1980

बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता : इराकी

पासपोर्ट संख्या : जर्मन यात्रा दस्तावेज (□ टैज्यूविजु) ए- 0144378

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,

पता : श्वाबिश्च हॉल प्रिजन, जर्मनी

सूचीबद्ध : 6 दिसम्बर, 2005

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं ।

49. नाम: 1 अब्द-अल-हादी 2 अल इराकी 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: उपलब्ध नहीं

जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं

अच्छा नाम उर्फ : अब्दल अल-हादी अल-इराकी

बुरा नाम उर्फ : अबु अब्दुल्लाह

राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं,  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : श्वाबिश्च हॉल प्रिजन, जर्मनी  
 सूचीबद्ध : 6 अक्टूबर 2001  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं।

50. नाम: 1 मोहम्मद 2 अहमद 3 शाकी 4 अल इस्लामबॉली  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 21 जून, 1952 जन्मस्थान: एल-मिन्या  
 अच्छा नाम उर्फ : (क) अबु खालिद (ख) अबु जाफर  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता : मिस्री  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : पाकिस्तान, अफगानिस्तान या ईरान में रह सकता है।  
 सूचीबद्ध : 29 सितम्बर, 2005  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं।

51. नाम: 1 साकार 2 अल-जदावी 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 1965 जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं  
 अच्छा नाम उर्फ : (क) अबु खालिद (ख) अबु जाफर  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता : यमनी तथा सऊदी राष्ट्रिक के रूप में माना जाता है  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध : 25 जनवरी, 2001 को  
 अन्य सूचना : यू0बी0एल के सहायक

52. नाम: 1 इमाद 2 बेन बेचीर 3 अल-जम्माली 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 25 जनवरी, 1968 जन्मस्थान: मँजेल तेमीने, ट्यूनीशिया  
 अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता : ट्यूनीशियाई  
 पासपोर्ट संख्या : ट्यूनीशियाई पासपोर्ट सं0 के 693812, जारी-23 अप्रैल, 1999 अवधि समाप्त-22 अप्रैल, 2004  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : वाया दुबिनी, सं0-3, गापाशते, वाटेसे, इटली  
 सूचीबद्ध : 23 जून, 2004 (20 दिसम्बर, 2005 को संशोधित  
 अन्य सूचना : फिक्सल कोड : जेएमएमएमडीआई 68 ए 25 जेड 352 डी

53. नाम: 1 अबु बकर 2 अल-जाजिरी 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: उपलब्ध नहीं जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं

अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता : अल्जीरियाई  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : पेशावर, पाकिस्तान  
 सूचीबद्ध : 11 जनवरी, 2002 को  
 अन्य सूचना : अफगान सहायता समिति से सम्बद्ध

54. नाम: 1 रियाद 2 अल-जेलास्सी 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 15.12.1970 जन्मस्थान: अल-मोहमेदिया, ट्यूनिशिया  
 अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता : ट्यूनिशियाई  
 पासपोर्ट संख्या : ट्यूनिशियाई पासपोर्ट सं०- ६ 276046, जारी 1 जुलाई, 1996, अवधि समाप्त 30  
 जून, 2001  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध : 03 सितम्बर, 2002 (20 दिसम्बर, 2005 को संशोधित)  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं,

55. नाम: 1 फौजी 2 अल-जेनदौबी 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 30.01.1966 जन्मस्थान: बेजा, ट्यूनिशिया  
 अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ : (क) सैद (ख) समीर  
 राष्ट्रीयता : ट्यूनिशिया  
 पासपोर्ट संख्या : ट्यूनिशियाई पासपोर्ट सं०- ६ 459698, जारी 6 मार्च, 1999, अवधि समाप्त 5 मार्च,  
 2004  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : (क) वाया अगूची एन 250, बोलोग्ना, इटली (ख) वाया डी सालीसेटो एन 51/9, बोलोग्ना, इटली  
 सूचीबद्ध : 25 जून, 2003 (20 दिसंबर, 2005 को संशोधित)  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं,

56. नाम: 1 अहमद 2 फादिल 3 नजल 4 अल-खयालेह  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 30 अक्टूबर, 1966 जन्मस्थान: अल-जर्का, जोर्डन  
 अच्छा नाम उर्फ : (क) अबु मुसब अल जर्कवी (ख) मुहान्द (ग) अल-मुहाजेर  
 (घ) गरीब  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं,  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : इस समय पते-ठिकाने की जानकारी नहीं है  
 सूचीबद्ध : 23 सितम्बर, 2003

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं,

57.नाम: 1 इब्न अल-शेख 2 अल-लिबि

3 उपलब्ध नहीं

4 उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: उपलब्ध नहीं

जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं

अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं

बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं,

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,

पता : उपलब्ध नहीं

सूचीबद्ध : 6 अक्टूबर, 2001

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं,

58.नाम: 1 हबीब

2 बेन

3 अहमद

4 अल-लुबिरी

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 17 नवम्बर, 1961

जन्मस्थान: मेंजेल तेमिमे, ट्यूनिशिया

अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं

बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता : ट्यूनिशियाई

पासपोर्ट संख्या : ट्यूनिशियाई पासपोर्ट सं०- एम 788439, जारी-20 अक्टूबर, 2001 समाप्तिकी अवधि- 19 अक्टूबर, 2006

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,

पता : वाया बुगिएरा, सं०-5, कास्ट्रोन्नो, वारेसे, इटली

सूचीबद्ध : 23 जून, 2004 (20 दिसम्बर, 2005 को संशोधित)

अन्य सूचना : फिस्कल कार्ड : एलआरबी एचबीबी 61 एस 17 जेड 352 एफ

59.नाम: 1 तारेक

2 बेन

हबीब

3 अलमारोफी

4 उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 23.11.1965

जन्मस्थान: धार एल-दीमा, ट्यूनिशिया

अच्छा नाम उर्फ : अबु इस्माइल

बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता : (क) ट्यूनिशियाई (ख) 8 नवंबर, 1993 से बेल्जियम राष्ट्रिक

पासपोर्ट संख्या : ट्यूनिशियाई पासपोर्ट सं०- ई 590976, जारी-19 जून, 1987 समाप्तिकी अवधि- 18 जून, 1992

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,

पता : गौवेरेट 193, 1030 शेखीक, ब्रुसेल्स, बेल्जियम

सूचीबद्ध : 3 सितम्बर, 2002 (26 नवम्बर, 2004 और 20 दिसम्बर, 2005 को संशोधित)

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं,

60.नाम: 1 यासीन

2 उपलब्ध नहीं

3 उपलब्ध नहीं

4 अल-कादी

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: उपलब्ध नहीं

जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं

अच्छा नाम उर्फ : (क) कादी, शेख यासीन अब्दुल्लाह (ख) कादी यासिन

बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं,

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,

पता : उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध : 17 अक्टूबर, 2001  
 अन्य सूचना : जेदा, सऊदी अरब

61. नाम: 1 नजीह 2 अब्दुल हमेद 3 अल-राघी 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: (क) 30 मार्च, 1964 (ख) 14 मई, 1964 जन्मस्थान: त्रिपोली, लीबिया  
 अछा नाम उर्फ : (क) अनास अल-लिबि (ख) अल-लिबि अनस (ग) अल-राघे नजीह (घ) अल-सबाई अनास

बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता : लीबियाई  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध : 17 अक्टूबर, 2001  
 अन्य सूचना : अफगानिस्तान

62. नाम: 1 अल-रिहानी 2 लोफती 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 01.07.1977 जन्मस्थान: टुनिसी, ट्यूनिशिया  
 अछा नाम ए के ए : उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम ए के ए : अब्देराहमाने  
 राष्ट्रीयता : ट्यूनिशियाई  
 पासपोर्ट संख्या : ट्यूनिशियाई पासपोर्ट सं०- एल 886177, जारी-14 दिसम्बर, 1998 समाप्ति की अवधि- 13 दिसम्बर, 2003  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : वाया बोलगेरी 4, बर्नी (कोमो), इटली  
 सूचीबद्ध : 12 नवम्बर, 2003 (9 सितम्बर, 2005 और 20 दिसम्बर, 2005 को संशोधित)  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं,

63. नाम: 1 फराज 2 फर्ज 3 हसन 4 अल-सादी  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 28.11.1980 जन्मस्थान: लीबिया  
 अछा नाम उर्फ : (क) मोहम्मद अब्दुल्ला इमाद, पीओबी, गाजा जन्म की तारीख 28.11.1980  
 (ख) मोहम्मद अब्दुल्ला इमाद, पीओबी, गिआदोनिया, जन्म की तारीख 28.11.1980

(ग) इमाद मोहम्मद अब्दुल्ला इमाद, पीओबी, किलिस्तीन, जन्म की तारीख 28.11.1980 मूल निवास विओले बिगनी 42, मिलान, इटली  
 बुरा नाम उर्फ : हसन ☐ चि लिबियनउ  
 राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध : 12 नवम्बर, 2003  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

64. नाम: 1 हानी 2 अल-सईद 3 अल-सेबइ 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: (क) 1 मार्च, 1961 (ख) 16 जून, 1961 जन्मस्थान: कायलुबियाह, मिस्र  
 अच्छा नाम उर्फ : (क) हाही यूसेफ अल-सेबई (ख) हानी यूसेफ (ग) हैनी यूसेफ (घ) हानी यूसेफ  
 (ङ.) हानी अल-सय्यीद अल-सेबई (च) हानी अल-सय्यीद अल-सेबई (छ) हानी अल-सय्यीद अल-सेबई  
 (ज) हानी अल-सय्यीद अल-सेबाए (झ) अल-सबाब (ञ) अबु दुसनीन (ट) अबु अकरम (ठ) हानी एल  
 सय्यीद एल्सेबाई यूसेफ (ड) अबु करीम  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : मिस्री  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं  
 पता : लंदन, यू0 के0  
 सूचीबद्ध : 29 सितंबर, 2005 (6 अक्टूबर, 2005 को संशोधित)  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

65. नाम: 1 सैद 2 अल-शरीफ 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 1969 जन्मस्थान: सऊदी अरब

अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं

बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं

पता : उपलब्ध नहीं

सूचीबद्ध : 25 जनवरी, 2001

अन्य सूचना : यूबीएल का बहनोई एवं निकट सहयोगी। यूबीएल के वित्तीय संगठन का तथाकथित प्रमुख

66. नाम: 1 अल-अजहर 2 बेन मोहम्मद 3 अल-तिली 4 उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 1 नवम्बर, 1971

जन्मस्थान: बेन ऑन, ट्यूनिशिया

अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं

बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता : ट्यूनिशियाई

पासपोर्ट संख्या : ट्यूनिशियाई पासपोर्ट सं0 जेड 417830 जारी- 4 अक्टूबर, 2004 समाप्ति की तिथि-3 मई, 2009

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं

पता : वाया कारलो पोर्टा एन, 97 लेगनानो, इटली

सूचीबद्ध : 03.9.2002 (20 दिसंबर, 2005 को संशोधित)

अन्य सूचना : इटालियन वित्तीय कोड : टी एल एल एल एच आर 69 सी 26 जेड 352 जी

67. नाम: 1 चाबाने 2 बेन मोहम्मद 3 बेन मोहम्मद 4 अल-तराबेल्सी

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 1 मई, 1966

जन्मस्थान: रायनीन, ट्यूनिशिया

अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं

बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता : ट्यूनिशियाई

पासपोर्ट संख्या : ट्यूनिशियाई पासपोर्ट सं० एल 945660 जारी- 4 दिसम्बर 1998 समाप्ति की तिथि- 3 दिसम्बर, 2001

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,

पता : वाया कुआसो, सं०2, पोर्टो सेटिसियो, वारेसे, इटली

सूचीबद्ध : 23 जून, 2004 (20 दिसम्बर, 2005 को संशोधित)

अन्य सूचना : फिक्सल कोड : टी आर बी सी बी एन 66 ई 01 जेड 352 ओ

68. नाम: 1 मुराद अल-स्ट्रेबेल्सी

3 बेन अल-बशीर

4 बेन अली

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 20.5.1969

जन्मस्थान: मेंजेल तेमिन, ट्यूनिशिया

अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं

बुरा नाम उर्फ : अबू जराह

राष्ट्रीयता : ट्यूनिशियाई

पासपोर्ट संख्या : ट्यूनिशियाई पासपोर्ट सं० जी 827238 जारी- 1 जून, 1996 समाप्ति की तिथि-31 मई, 2001

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,

पता : वाया जेरोमिनी, 15 क्रेमोना, इटली

सूचीबद्ध : 12.11., 2003 (20 दिसम्बर, 2005 को संशोधित)

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं,

69. नाम: 1 हसन

2 अब्दुल्लाह

3 हेटसी

4 अल-तुर्की

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: लगभग 1944

जन्मस्थान: रिजन ज इथियोपिया, जो पूर्वी इथियोपिया का

ओगाडेन रिजन है।

अच्छा नाम उर्फ : हसन तुर्की

बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं,

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,

पता : उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध : 6 जुलाई, 2004

अन्य सूचना : पारिवारिक पृष्ठभूमि : ओगाडेन वंश से, उप वंश-रीस-अब्दिले

70. नाम: 1 हबीब

2 अल-वदानी

3 उपलब्ध नहीं,

4 उपलब्ध नहीं,

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 1 जून, 1970

जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं

अच्छा नाम उर्फ : हसन तुर्की

बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता : ट्यूनिशियाई

पासपोर्ट संख्या : ट्यूनिशियाई पासपोर्ट सं० एल 550681 जारी- 23 सितंबर, 1997 समाप्ति की तिथि-22 सितंबर, 2002

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,

पता : वाया यूनिका बोर्घिरो एन 1, सन दानातो एम एस ई (एम आई) इटली ।

सूचीबद्ध : 03.09.2002 (20 दिसम्बर, 2005 को संशोधित)

अन्य सूचना : इटालियन मॉड्रिक कोड : डब्ल्यू डी डी एच बी वी 70 एच 10 जेड 3520

71.नाम: 1 महफूज 2 ओयूल्ड 3 अल-वालिद 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 1 जनवरी, 1975 जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं  
 अच्छा नाम उर्फ : (क) अबु हफ्स दि मारीशियेन (ख) खालिद अल-शान्वित (ग) महफूज बालेद अल-  
 वालिद (घ) महमेदू ओयूल्ड स्लाही  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं,  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध : 6 अक्टूबर 2001  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं,

72.नाम: 1 नजीब 2 बेन मोहम्मद 3 बेन सलेम 4 अल-वाज  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 12.04.1960 जन्मस्थान: हकीमा अल-मेहदिया (ट्यूनिशिया)  
 अच्छा नाम ए के ए : उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम ए के ए : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : ट्यूनिशियाई  
 पासपोर्ट संख्या : ट्यूनिशियाई पासपोर्ट सं0- ४ 815205, जारी-17 सितम्बर, 1994 समाप्ति की  
 अवधि- 16 सितम्बर, 1999  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : विकोले डेई प्राती एन/2/2, बोलोग्ना, इटली  
 सूचीबद्ध : 25 जून, 2003 ( 20 दिसम्बर, 2005 को संशोधित)  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं,

73.नाम: 1 अल-जरकाउई 2 इमेद 3 बेन अल-मेक्की 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 15.01.1973 जन्मस्थान: तुनिसी, तुनिसिया  
 अच्छा नाम ए के ए : उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम ए के ए : (क) जरगा, (ख) नादरा  
 राष्ट्रीयता : ट्यूनिशियाई  
 पासपोर्ट संख्या : ट्यूनिशियाई पासपोर्ट सं0- एम 174950, जारी-27 अप्रैल, 1999 समाप्ति की  
 अवधि- 26 अप्रैल, 2004  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : वाया कोल, अप्रोसिया 588, बल्लोक्रोसिया (आईएम) इटली (मूल निवासी)  
 सूचीबद्ध : 12 नवम्बर, 2003 ( 20 दिसम्बर, 2005 को संशोधित)  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं,

74.नाम: 1 आईमान 2 मुहम्मद 3 रबि 4 अल-जवाहिरी  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 19 जून, 1951 जन्मस्थान: गिजा, मिस्र  
 अच्छा नाम उर्फ : (क) आएमान-अल-जवाहिरी (ख) अहमद फौद सलीम  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता : मिस्री राष्ट्रिक माना जाता है  
 पासपोर्ट संख्या : (क) 1084010 (मिस्र) (ख) 19820215  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : उपलब्ध नहीं,



सूचीबद्ध : 25 जनवरी, 2001

अन्य सूचना : जेहाद गुट का प्रचालन और सैन्य प्रमुख, मिस्त्र इस्लामी जिहाद का भूतपूर्व नेता और अब यू बी एल का निकट सहयोगी

75. नाम: 1 शेख 2 अब्द-अल-माजिद 3 अल-जिदानी 4 उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: लगभग, 1950 जन्मस्थान: यमन

अच्छा नाम उर्फ : (क) अब्देलमाजिद अल-जिदानी (ख) शेख अब्द अल-माजिद अल-जिदानी

बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता : यमनी

पासपोर्ट संख्या : ए 005487 (यमन) जारी 13 अगस्त, 1995

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,

पता : उपलब्ध नहीं

सूचीबद्ध : 27 फरवरी, 2004

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

76. नाम: 1 हासेन 2 अल्लाने 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 17 जनवरी, 1941

जन्मस्थान: एल-मीना/अल्जीरिया

अच्छा नाम उर्फ : (क) हासन दी ओल्ड (ख) अल शेख अब्देलहे (ग) बुलाहिया (घ) अबु-अल-फुतुह (ङ) शिब अहसिन

बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता : संभवतः अल्जीरियाई

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,

पता : उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध : 3 मई, 2004

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

77. नाम: 1 सैफी 2 अमारी 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 1 जनवरी, 1968

जन्मस्थान: कैफरीह (अल्जीरिया)

अच्छा नाम उर्फ : (क) अल पारा (लगाई का नाम) (ख) अब्दीरजाक ली पारा (ग) ओबे हैदरा (घ)

अल कुरासी (ङ) अब्दीरजाक जैमिध (च) अब्दुल रजाक अमानी अबू हैदरा (छ) अब्दलराक

बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता : अल्जीरियन

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,

पता : उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध : 4 दिसंबर, 2004

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं,

78. नाम: 1 मुहसिन 2 मुसा 3 मतवाली 4 अटवाह देवेदार

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 19 जून, 1964

जन्मस्थान: दाकाहलिया, मिस्त्र

अच्छा नाम उर्फ : (क) अल-मुहाजिर अब्दुल रहमान (ख) अल-नामेर मोहम्मद के ए

बुरा नाम उर्फ : (क) अब्देल रहमान (ख) अब्दुल रहमान

राष्ट्रीयता : मिस्त्र

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध : 17 अक्टूबर, 2001 (26 नवम्बर, 2004 को संशोधित)  
 अन्य सूचना : अफगानिस्तान

79. नाम: 1 साजिद 2 मोहम्मद 3 बदत 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: (क) 28 मार्च, 1979 (ख) 8 मार्च, 1976 जन्मस्थान: ग्लोस्टर, यू0 के0  
 अच्छा नाम उर्फ : (क) अबु इस्सा (ख) साजिद बदत (ग) साजिद बदत (घ) मुहम्मद बदत  
 (ड.) साजिद मुहम्मद बदत (च) साजिद मोहम्मद बदत (छ) मोहम्मद बदत (ज) साजिद मुहम्मद बदत  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं,  
 पासपोर्ट संख्या : (क) यू.के. पासपोर्ट सं. 703114075 (ख) यू.के. पास सं. 02672501  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : यू0 के0  
 सूचीबद्ध : 15 दिसम्बर, 2005  
 अन्य सूचना : वर्तमान में यू0 के0 में गिरफ्तार है। पहले का पता ग्लोस्टर, यू0 के0 है।

80. नाम: 1 सैयद 2 बहाजी 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 15 जुलाई, 1975 जन्मस्थान: हासेलूने/लुअर साक्सोनी/जर्मनी  
 अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं।  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं।  
 राष्ट्रीयता : जर्मन एवं मोरक्को।  
 पासपोर्ट संख्या : अनन्तिम जर्मन पासपोर्ट सं0-28642163 (हेमबर्ग शहर द्वारा जारी)  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : बीपीए नं0-1336597587  
 पता : पूर्व में 23 बुनातवीएत, 21073 हेमबर्ग/ जर्मनी के निवासी  
 सूचीबद्ध : 30 सितम्बर, 2002 (26 नवम्बर, 2004 तथा 9 सितम्बर, 2005 को संशोधित)  
 अन्य सूचना : उनके पास मेकनोस, मोरक्को में 28 जून, 1995 को जारी

81. नाम: 1 शामिल 2 बासाएव 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 14.1. 1965 जन्मस्थान: घेघन गांव, देशनी-वदैनो  
 अच्छा नाम उर्फ : अब्दुल्लाख शामिल, अबु इर्दिस  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं  
 पासपोर्ट संख्या : जनवरी, 2002 को रूसी पासपोर्ट सं. 623334 था  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध : 12 अगस्त, 2003  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं।

82. नाम: 1 महमूद 2 सुल्तान 3 बसीरउद्दीन 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: (क) 1937 (ख) 1938 (ग) 1939 (घ) 1940 (ङ) 1941 (च) 1942 (छ) 1943 (ज) 1944  
 (झ) 1945

जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं

अच्छा नाम उर्फ : (क) महमूद सुल्तान बसीरुद्दीन (ख) महमूद डा0. बसीरुद्दीन (ग) मेकमुड सुल्तान बसीरुद्दीन

बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता : पाकिस्तानी

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,

पता : स्ट्रीट 13, वजीर अकबर खान, काबुल, अफगानिस्तान

सूचीबद्ध : 24 दिसम्बर, 2001

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं ।

83. नाम: 1 अब्देल 2 अब्दुल 3 जलील 4 बत्तरजी

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 1 जुलाई, 1946

जन्मस्थान: जद्दाह सऊदी अरब

अच्छा नाम उर्फ : (क) आदिल अल-बत्तरजी (ख) अदेल-बत्तरजी (ग) आदिल अब्द अल जलील-बत्तरजी

बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता : सऊदी अरब

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,

पता : 2 हेल्मी कुत्बी स्ट्रीट, जेद्दा, सऊदी अरब

सूचीबद्ध : 23 दिसम्बर, 2004

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं ।

84. नाम: 1 मुख्तार 2 बेल मुख्तार 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 1 जून, 1972

जन्मस्थान: घरडाइया

अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,

बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं,

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,

पता : उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध : 11 नवम्बर, 2003 को

अन्य सूचना : मोहम्मद और जोहरा चेमखा का पुत्र

85. नाम: 1 नाबिल 2 बेनातिया 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 11.5. 1966 जन्मस्थान: टुनिस, ट्यूनीशिया

अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं

बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता : ट्यूनीशियाई

पासपोर्ट संख्या : ट्यूनीशियाई पासपोर्ट सं0 ख 289032, जारी-22 अगस्त, 2001 अवधि समाप्त-21 अगस्त, 2006

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,

पता : उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध : 3 सितम्बर, 2002 (20 दिसम्बर, 2005 को संशोधित )

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं,

**86.नाम:** 1 एल हादी 2 बेनदेबका 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
**उपनाम:** उपलब्ध नहीं **पदनाम:** उपलब्ध नहीं  
**जन्म तिथि:** 17 नवम्बर, 1963 **जन्मस्थान:** अलजेरी, अल्जीरिया  
**अच्छा नाम उर्फ :** उपलब्ध नहीं  
**बुरा नाम उर्फ :** (क) अब्द अल हादी (ख) हादी  
**राष्ट्रीयता :** उपलब्ध नहीं,  
**पासपोर्ट संख्या :** उपलब्ध नहीं,  
**राष्ट्रीय पहचान संख्या :** उपलब्ध नहीं,  
**पता :** (क) वाया गैरीबाल्दी, 70-सान जिनोर अल पो (पीवी) इटली (17 दिसंबर, 2001 के अनुसार)  
 (ख) वाया मंजोनी, 33-सिनीसेलो बालसामो (एमआई), इटली (अधिवास)  
**सूचीबद्ध :** 17 मार्च, 2004 को (26 नवम्बर, 2004 को संशोधित)  
**अन्य सूचना :** उपलब्ध नहीं

**87.नाम:** 1 मोहम्मद 2 बेनहम्मेदी 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
**उपनाम:** उपलब्ध नहीं **पदनाम:** उपलब्ध नहीं  
**जन्म तिथि:** 22 सितंबर, 1966 **जन्मस्थान:** लीबिया  
**अच्छा नाम उर्फ :** (क) मोहम्मद हन्नादी (ख) मोहम्मद बेन हम्मेदी (ग) मोहम्मद मोहम्मद बिन हम्मीदी  
 (घ) बेन हम्मीदी (ङ) पान हम्मेदी (च) अबु हाजिर (छ) अबु हाजिर अल लिबि (ज) अबु अल कासम  
**बुरा नाम उर्फ :** उपलब्ध नहीं,  
**राष्ट्रीयता :** लीबियाई  
**पासपोर्ट संख्या :** उपलब्ध नहीं,  
**राष्ट्रीय पहचान संख्या :** उपलब्ध नहीं,  
**पता :** मिडलैंड्स, यू0के0  
**सूचीबद्ध :** 7 फरवरी, 2006 (22 फरवरी, 2006 को संशोधित)  
**अन्य सूचना :** उपलब्ध नहीं,

**88.नाम:** 1 लासेद 2 बेन हेनी 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
**उपनाम:** उपलब्ध नहीं **पदनाम:** उपलब्ध नहीं  
**जन्म तिथि:** 5.2.1969 **जन्मस्थान:** लीबिया  
**अच्छा नाम उर्फ :** उपलब्ध नहीं  
**बुरा नाम उर्फ :** (क) सैद (ख) समीर  
**राष्ट्रीयता :** उपलब्ध नहीं  
**पासपोर्ट संख्या :** उपलब्ध नहीं  
**राष्ट्रीय पहचान संख्या :** उपलब्ध नहीं,  
**पता :** उपलब्ध नहीं,  
**सूचीबद्ध :** 24 अप्रैल, 2002 (26 नवम्बर, 2004 और 9 सितम्बर, 2005 को संशोधित)  
**अन्य सूचना :** जर्मनी में मुकदमा खारिज कर दिया गया। 11 दिसंबर, 2002 को इटली में दोषी सिद्ध हुआ और छह वर्ष की सजा सुनायी गई।

**89.नाम:** 1 आदिल 2 बिन सुल्तान 3 बिन अल-अजहर 4 बिन युसूफ  
**उपनाम:** उपलब्ध नहीं **पदनाम:** उपलब्ध नहीं  
**जन्म तिथि:** 14.07.1970 **जन्मस्थान:** टुनिस, ट्यूनिशिया  
**अच्छा नाम उर्फ :** उपलब्ध नहीं,  
**बुरा नाम उर्फ :** उपलब्ध नहीं,  
**राष्ट्रीयता :** ट्यूनिशियाई  
**पासपोर्ट संख्या :** ट्यूनिशियाई पासपोर्ट सं0- 408665, जारी 4 अक्टूबर, 2000, वैधता 3 अक्टूबर, 2005

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : वाया लातिसाना एन 6, मिलान इटली  
 सूचीबद्ध : 03.09. 2002 (20 दिसंबर, 2005 को संशोधित)  
 अन्य सूचना : इतालवी फिस्कल कोड बी एन एस डी एल ए 70 एल 14 जेड 352 बी। वर्तमान में  
 ट्यूनिशिया के जेल में।

90. नाम: 1 ओसामा 2 मुहम्मद 3 अवाद 4 बिन लादेन  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: (क) 30.7.1957 (ख) 28.7.1957 जन्मस्थान: (क) जेद्दाह, सऊदी अरब (ख) यमन  
 अच्छा नाम उर्फ : (क) ओसामा बिन लादेन (ख) ओसामा बिन मुहम्मद बिन अवाद, ओसामा बिन  
 लादेन

बुरा नाम उर्फ : अबू अब्दाला अब्द अल-हाकिम  
 राष्ट्रीयता : सऊदी नागरिकता समाप्त, अब सरकारी तौर पर अफगान राष्ट्रिक  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध : 25.01. 2001  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं,

91. नाम: 1 बिलाल 2 बिन मारवान 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 1947 जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं  
 अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं,  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध : 25.01.2001  
 अन्य सूचना : यूबीएल का वरिष्ठ लेफ्टिनेंट

92. नाम: 1 जुलकिफली 2 बिन मरजुकी 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 3.7.1968 जन्मस्थान: सेलनगोर, मलेशिया  
 अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता : मलेशियाई  
 पासपोर्ट संख्या : ए-5983063  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : 680703-10-5821  
 पता : तमन पुचोंग पेस्दना, सेलनगोर, मलेशिया  
 सूचीबद्ध : 9 सितंबर 2003  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं,

93. नाम: 1 रमजी 2 मोहम्मद 3 अब्दुल्ला 4 बिन-अल-शिब  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: (क) 01.05.1972 (ख) 16.9.1973 जन्मस्थान: (क) हदरामावत/यमन  
 (ख) खारतूम, सूडान

अच्छा नाम उर्फ : (क) बिनालशेदा, रमजी मोहम्मद अब्दुल्ला (ख) बिन अल शिभ, रमजी (ग) ओमर, रमजी मोहम्मद अब्दुल्ला  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता : (क) यमन (ख) सूडान  
 पासपोर्ट संख्या : 00085243 (12.11.1997 को साना/यमन में जारी)  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध : 30.9.2002 (26 नवम्बर, 2004 को संशोधित)  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं,

94. नाम: 1 बोचोउचा 2 अल-मोख्तार 3 बिन मुहम्मद 4 बिन-अल-मुख्तार  
 उषनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 13 अक्टूबर, 1969 जन्मस्थान: टुनिस, ट्यूनिशिया  
 अच्छा नाम उर्फ : बुशुसा, मोख्तार  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता : ट्यूनिशियाई  
 पासपोर्ट संख्या : के 754050, 26 मई, 1999 को जारी, वैधता समाप्त 25 मई, 2004  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : 047569904, 14 सितम्बर, 1987 को जारी  
 पता : वाया मिलानोन 38, स्पिनाडेस्को (सीआर) इटली  
 सूचीबद्ध : 24 अप्रैल, 2002 (26 नवंबर, 2004 तथा 20 दिसंबर 2005 को संशोधित)  
 अन्य सूचना : कोडिस फिस्काले, बीसीएचएमएचटी 69 आर 13 जेड 352 टी। उसकी मां का नाम बनोर हेदिया है। 11 दिसंबर, 2002 को इटली को इटली में दोषसिद्ध हुए और साढ़े तीन वर्ष की सजा हुई।

95. नाम: 1 फयकाल 2, बोउघानेमी 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं

उषनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 28 अक्टूबर, 1966 जन्मस्थान: ट्यूनिश, ट्यूनिशिया

अच्छा नाम उर्फ : फैकाल बाउघानेमी

बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता : ट्यूनिशियाई  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : वायले कम्बोनीनो, 5/बी, क्रिमोना, इटली  
 सूचीबद्ध : 29 जुलाई, 2005  
 अन्य सूचना : फिस्कल कोड: BGHFCL66R28Z352G

96. नाम: 1 बोयाहिया 2 हमादी 3 बिन अली 4 उपलब्ध नहीं

उषनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 22.5.1966 जन्मस्थान: ट्यूनिशिया

अच्छा नाम उर्फ : गामेल मोहम्मद

बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता : ट्यूनिशियाई

पासपोर्ट संख्या : ट्यूनिशियाई पासपोर्ट सं- ७ 723315, जारी-5 मई, 1998 वैधता-4 मई, 2003

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : कोरेसो न्त मारजो 39, मिलान, इटली (मूल निवासी)  
 सूचीबद्ध : 12 नवम्बर, 2003 (20 दिसम्बर, 2005 को संशोधित)  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं,

97. नाम: 1 यासीन 2 चेकौरी 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 06.10.1966 जन्मस्थान: सफी, मोरक्को  
 अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध : 3.9. 2002  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

98. नाम: 1 मैक्सामेद 2 कबदुल्ला 3 सीआईआईएसई 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 8.10.1974 जन्मस्थान: सोमालिया  
 अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : मोस्क इन वाया क्वारांटा मिलान, इटली (मूल निवासी)  
 सूचीबद्ध : 12.11. 2003 (9 सितम्बर, 2005 को संशोधित)  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

99. नाम: 1 अवेस 2 हसन 3 दाहिर 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 1935 जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं  
 अच्छा नाम उर्फ : (क) अली, शेख हसन दाहिर अवेस (ख) अवेस शेख हसन दाहिर  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : सोमालिया  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध : 9.11. 2001  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं,

100. नाम: 1 मामौन 2 दरकाजाली 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 4.8. 1958 जन्मस्थान: दमिश्क, सीरिया  
 अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ : (क) अबू इलियास (ख) अबू इलियास अलसूरी (ग) अबूलूज  
 राष्ट्रीयता : सीरियाई और जर्मन  
 पासपोर्ट संख्या : 1310636262 (जर्मनी) समाप्ति की तारीख 29.10.2005

राष्ट्रीय पहचान संख्या : जर्मन पहचान पत्र सं०-1312072688, समाप्ति की तारीख 20.10.2005  
 पता : उहलेनहोर्स्टर वेग 34, हैम्बर्ग, 22085, जर्मनी  
 सूचीबद्ध : 17.10.2001 (26 नवंबर, 2004 को संशोधित)  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

101. नाम: 1 कमाल 2 बेन मोहम्मद 3 बिन अहमद 4 दर्जाजी  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 22 जुलाई, 1967 जन्मस्थान: मंजूल बूजेल्फा, ट्यूनिशिय  
 अक्षा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : ट्यूनिशियाई  
 पासपोर्ट संख्या : ट्यूनिशियाई पासपोर्ट सं० एल 029899 जारी- 14 अगस्त, 1995 वैध-13 अगस्त, 2000

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : वाया बेलोट्टी नं.16, बुस्तो अर्सिजियो, वारेसे, इटली  
 सूचीबद्ध : 23 जून, 2004 (20 दिसंबर, 2005 को संशोधित)  
 अन्य सूचना : फिस्कल कोड : (क) डीडी आर के एम एल 67 एल 22 जेड352 क्यू  
 (ख) डीआरआर केएलबी 67 एल 22 जेड 352 एस

102. नाम: 1 सुलेमान 2 खालिद 3 दरविश 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: (क)1976 (ख)लगभग 1974 जन्मस्थान: दमिश्क, सीरिया के आस-पास  
 अक्षा नाम उर्फ : अबू अल-गादिया  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता : सीरियाई  
 पासपोर्ट संख्या : (क) सीरियाई 3936712 (ख) सीरियाई 11012  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : सीरिया  
 सूचीबद्ध : 28 जनवरी, 2005  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं,

103. नाम: 1 उठमान 2 डेरामची 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 7 जून, 1954 जन्मस्थान: तिघेन्नीफ, अल्जीरिया  
 अक्षा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,  
 बुरा नाम उर्फ : अबू यूसेफ  
 राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं,  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : (क)वाया मिलानीय, 5-20099 सिस्टोसान गियोवानी (एमआई),  
 (ख) पिआज्जा त्रिस्ते, 11-मोर्टा-इटली (अक्टूबर 2002 के अनुसार इटली अधिवास)  
 सूचीबद्ध : 17 मार्च, 2004 (26 नवंबर, 2004 को संशोधित)  
 अन्य सूचना : फिस्कल कोड : डीआरएम टीएमएन 54 एच 07 जेड 301टी

104. नाम: 1 कामेल 2 डी जरमेन 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 1965 जन्मस्थान: ओउम एल बुआगी/अल्जीरिया  
 अक्षा नाम उर्फ : (क)बिलाल (ख)अदेल् (ग)फोदीस



बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता : संभवतः अल्जीरियाई  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध : 03 मई, 2004  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

105. नाम: 1 लियोनेल 2 डूमोन्ट 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: (क) 21.1.1971 (ख) 29.1.1975 जन्मस्थान: रोबेक्स, फ्रांस  
 अच्छा नाम उर्फ : (क) जैक्स ब्रोगेरे (ख) अबू हमजा (ग) डी कार्लो एंटोनिओ (घ) मर्लिन ओलीवर  
 क्रिस्टियन रेने (ङ) अरफाउनी इमद बिन यूसेफ हमजा (च) इमाम बिन यूसुफ अरफाज  
 बुरा नाम उर्फ : (क) बिलाल (ख) हमजा  
 राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं,  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : इटली में कोई निर्धारित ठिकाना नहीं है।  
 सूचीबद्ध : 25.06.2003 (22 नवंबर, 2004 तथा 26 नवंबर, 2004 को संशोधित)  
 अन्य सूचना : इंटरपोल द्वारा इसके लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। 13 दिसंबर, 2003 को  
 जर्मनी में गिरफ्तार कर 18 मई, 2004 को फ्रांस भेज दिया गया। 18 अक्टूबर, 2004 की स्थिति के  
 अनुसार वह हिरासत में है।

106. नाम: 1 सफेत 2 दुर्गुती 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 10 मई, 1967 जन्मस्थान: ओराहोवाक, कोसावो  
 अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध : 26 दिसंबर, 2003  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं,

107. नाम: 1 आगस 2 द्विकरणा 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 11.8.1964 जन्मस्थान: मकास्सार, दक्षिणी सुलोबेसी, इंडोनेशिया  
 अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : इंडोनेशियाई  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध : 9.9.2003 ( 26 नवम्बर, 2004 को संशोधित)  
 अन्य सूचना : 13 मार्च, 2002 को गिरफ्तार किया गया। 12 जुलाई, 2002 को फिलीपींस में सजा हुई।

108. नाम: 1 नादा 2 युसुफा 3 युसुफा 4 इबादा  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 17.5.1931 जन्मस्थान: अलेक्जेंड्रिया, मिस्र  
 अक्षा नाम उर्फ: (क) नादा युसुफ (ख) नादा युसुफ (ग) युसुफ युसुफा नादा  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: इटालियन पासपोर्ट नं. 1111288,  
 समाप्ति की तिथि: 21.3.2005  
 पता: नादा नं. 32, 6911 कॉम्प्लेक्स, इटालिया, इटली।  
 (ग) नादा पर ओरफो 32, नं. 6911 कॉम्प्लेक्स डी इटालिया, इटली।  
 (ना) नादा रियास्क, सी एच 9, कॉम्प्लेक्स डी इटालिया 1, इटली।  
 सूचीबद्ध: 9 नवम्बर, 2001 (23 नवम्बर, 2004 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

109. नाम: 1 मोह 2 एल एल 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 5 अगस्त, 1964 जन्मस्थान: देबिला/अल्जीरिया  
 अक्षा नाम उर्फ: अब्देल हाक  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता: निमनवत: अल्जीरियाई  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध: 13 नई 2004  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं,

110. नाम: 1 अब्दुल्लाह 2 अहमद 3 अब्दुल्लाह 4 एल अल्फी  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 6.6.1963 जन्मस्थान: गाबिया, मिस्र  
 अक्षा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: (क) अबु मेरियम (ख) अल-मसरी, अबु मोहमद (ग) सालेह  
 राष्ट्रीयता: मिस्री  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं  
 पता: उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध: 17 अक्टूबर, 2001 (23 नवम्बर, 2004 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: पदनाम निम्नलिखित

111. नाम: 1 अली 2 अबु अल याजिद 3 अबु अल याजिद 4 अल अयाशी  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 1.1.1972 जन्मस्थान: अल घरबिया, मिस्र  
 अक्षा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: मेसाल  
 राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं  
 पासपोर्ट संख्या: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या: उपलब्ध नहीं

पता : वाया सीलिया 40, मिलान, इटली (अधिवास)  
 सूचीबद्ध : 12 नवम्बर, 2003 ( 9 सितम्बर, 2005 को संशोधित)  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं,

112. नाम: 1 अहमद 2 एल बोउहाली 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 31 मई, 1963 जन्मस्थान: सिडी कासेम, मोरक्को  
 अच्छा नाम उर्फ : अबु कटाडा  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : मोरक्कन  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं  
 पता : विकोलो एस0 टोक्को, एन.10- कासाबुट्टानो, क्रिमोना, इटली।  
 सूचीबद्ध : 29 जुलाई, 2005  
 अन्य सूचना : फिस्कल कोड: एलबीएच एचएमडी 63 ई 31 जेड 330 एम

113. नाम: 1 सोभी 2 अब्द अल-अजीज 3 मोहम्मद 4 एल गोहाटी अबु रिना  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 17.1.1958 जन्मस्थान: एल-बेहिरा, मिस्र  
 अच्छा नाम उर्फ : (क) मोहम्मद आतिफ (ख) शीक तौसीर अब्दुल्लाह  
 बुरा नाम उर्फ : (क) अबू हफ्स अल मसरी (ख) अबू हफ्स अल मसरी एल खबीर (ग) तौसीर  
 राष्ट्रीयता : मिस्र का राष्ट्रिक माना जाता है  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध : 25 जनवरी, 2001 (26 नवंबर, 2004 को संशोधित)  
 अन्य सूचना : यू बी एल का वरिष्ठ लेफ्टिनेंट

114. नाम: 1 अली 2 एलहीत 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 20.3.1970 जन्मस्थान: रुबा, अल्जीरिया  
 अच्छा नाम उर्फ : (क) कामेल मोहम्मद, (ख) अली डी रोमा  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं  
 पता : (क) वाया डी फ्रीन्जेलो, 20-रोम, इटली (ख) मिलान (अधिवास)  
 सूचीबद्ध : 17.3. 2004 ( 26 नवम्बर, 2004 को संशोधित)  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

115. नाम: 1 मोहम्मद 2 एल महफाउदी 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 24.9.1964 जन्मस्थान: अगादीर, मोरक्को  
 अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं

पता : वाया पुगलिया, नं.22, गालाराते, वारेस, इटली

सूचीबद्ध : 3.06. 2004

अन्य सूचना : फिस्कल कोड: एल एम एच एम एम डी 64 पी 24 जेड 330

116.नाम: 1 मुनीर 2 अल मुतासादिक 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 03.4.1974 जन्मस्थान: मराकेस/मोरक्को  
 अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता : मोरक्कन  
 पासपोर्ट संख्या : एच-236483  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : 21073, हमबर्ग, गोसेनसट्रेसे 13  
 सूचीबद्ध : 30.9.2002, ( 26 नवम्बर, 2004 को संशोधित)  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं,

117.नाम: 1 अब्देलकादिर 2 महमूद 3 एलसईद 4 मोहम्मद  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 26.12.1962 जन्मस्थान: मिस्र  
 अच्छा नाम उर्फ : एस सईद कादिर  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं  
 पता : वाया डेल फोस्सो डी सेंटोसेले एन 66, रोम, इटली ।  
 सूचीबद्ध : 24.4. 2002 (26 नवंबर, 2004 को संशोधित)  
 अन्य सूचना : कोडिस फिस्काले एस एस वाई बी एल के 62 टी 26 जेड 336 एल

118.नाम: 1 एल इस्सीद 2 सामी 3 बिन खामिस 4 बिन सालेह  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 10.2.1968 जन्मस्थान: मंजोल जेमिल बिजरटे, ट्यूनिशिया  
 अच्छा नाम उर्फ : उमर अल मुहाजिर  
 बुरा नाम उर्फ : साबिर  
 राष्ट्रीयता : ट्यूनिशियाई  
 पासपोर्ट संख्या : ट्यूनिशियाई पासपोर्ट सं० रु 929139 जारी- 14 फरवरी, 1995 को जारी  
 वैध-13 फरवरी, 2000  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : 00319547, 08.12.1994 को जारी  
 पता : वाया दुबिनी एन, 3 गालाराते (वीए), इटली  
 सूचीबद्ध : 24.04. 2002 ( 26 नवम्बर, 2004 9.9.2005 और 20.12.2005 को संशोधित)  
 अन्य सूचना : कोडिस फिस्काले एस एस डी एस बी एन 68 बी 10 जेड 352। उसकी मां का नाम  
 अल-सैदानी बेया है। उसे इटली में हिरासत में लिया गया था।

119.नाम: 1 मुस्सा 2 बेन उमर 3 इस्सादी 4 बेन अली  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 04.12.1964 जन्मस्थान: ताबारका (ट्यूनिशिया)  
 अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ : (क)दाह-दाह (ख) अब्दलरहमान ( ग) बेचीर  
 राष्ट्रीयता : ट्यूनिशियाई

पासपोर्ट संख्या : टयूनिशियाई पासपोर्ट सं.- एल- 335915, जारी 8 नवंबर, 1966, वैधता 7 नवंबर, 2001

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
पता : वाया मिलानो एन, 108, ब्रेसिया, इटली  
सूचीबद्ध : 25.06. 2003 (20 दिसंबर 2005 को संशोधित)  
अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं,

120. नाम: 1 जकारिया 2 एस्साबार 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
जन्म तिथि: 13.4.1977 जन्मस्थान: एस्साओरिया/मोरक्को  
अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
राष्ट्रीयता : मोरक्को  
पासपोर्ट संख्या : एल-271351 (बर्लिन में मोरक्को दूतावास द्वारा 24.10.2000 को जारी)  
राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं  
पता : पंजीकृत अंतिम पता डोरटमुदर स्ट्रासे 38, 22419 हमबर्ग/जर्मनी  
सूचीबद्ध : 30.9. 2002 ( 26 नवम्बर, 2004 को संशोधित)  
अन्य सूचना : ई. 189935

121. नाम: 1 मुस्तफा 2 मोहम्मद 3 फाहदिल 4 उपलब्ध नहीं  
उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
जन्म तिथि: 23.6.1976 जन्मस्थान: काहिरा, मिस्र  
अच्छा नाम उर्फ : (क)अल मसरी अब्द अल वकील (ख) अली हसन (ग)अनिस अबू (घ) अलबिशी  
मुस्तफा अली (ङ) फादिल मुस्तफा मुहम्मद (च)फजूल, मुस्तफा (छ)मुहम्मद मुस्तफा  
बुरा नाम उर्फ : (क)अल नुबी, अबू (ख) हुसैन (ग)जिहाद अबू (घ) खालिद (ङ) मन नू (च)यूस अबू  
राष्ट्रीयता : (क) मिस्र (ख) किनियाई  
पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
राष्ट्रीय पहचान संख्या : किनियाई पहचान सं0-12773669, क्रम सं0-201735161  
पता : उपलब्ध नहीं  
सूचीबद्ध : 17.10.2001  
अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

122. नाम: 1 राशिद 2 फेत्तर 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
जन्म तिथि: 16.4.1969 जन्मस्थान: बोलोजिन (अल्जिरिया)

अच्छा नाम उर्फ : अमीन डेल बेल्जओ  
बुरा नाम उर्फ : जाफिर  
राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं,  
पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं,  
राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
पता : वाया डेगली एन 5 मिलान, इटली  
सूचीबद्ध : 25.6.2003  
अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं,

123. नाम: 1 अहमद 2 खालफान 3 धौलानी 4 उपलब्ध नहीं  
उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
जन्म तिथि: (क) 14.3.1974 (ख) 13.04.1974 (ग) 14.4.1974 (घ) 01.08.1970

जन्मस्थान: जंजीबार, तंजानिया

अच्छा नाम उर्फ : (क)अहमद अबू बक्र (ख) अहमद अबू बाकर (ग)अहमद अबूबकर के० (घ) अहमद अबूकर खलफान (ङ) अहमद बाबूबाकरी के० (च) अहमद, अहमद खलफान (छ)अली मुहम्मद खलफान (ज) घौलानी अबूबाकरी खलफान अहमद (झ) घौलानी अहमद (ण)घिलानी अहमद खलाफान (ट) हुसैन महाफुद अबूबाकर अहमद अब्दुल्ला (ठ)खलफान अहमद (ड)मोहम्मद शरीफ ओमर

बुरा नाम उर्फ : (क)अहमद द तंजानिया (ख) फूपी (ग)फूपी (घ) अहमद ए (ङ) अल तंजानी अहमद (च) बक्र अबू (छ) खाबर अबू

राष्ट्रीयता : तंजानिया

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं

पता : उपलब्ध नहीं

सूचीबद्ध : 17 अक्तूबर, 2001

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

124. नाम: 1 हूदा 2 बिन अब्दुल 3 हक 4 उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 9 फरवरी 1960 (ख) 2 फरवरी, 1960 जन्मस्थान: लामोंगन जिले में उपजिला सोलोकुरो, पूर्वी जावा प्रांत इंडोनेशिया

अच्छा नाम उर्फ : (क) अली गुफरोन (ख) अली घुफरोन (ग) अली गुफरोन अल मुखलस

बुरा नाम उर्फ : (क)मुखलस (ख) मुकलस (ग)मुचलस (घ) सोफवान

राष्ट्रीयता : इंडोनेशियाई

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,

पता : उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध : 9 सितम्बर, 2003

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं,

125. नाम: 1 कावा 2 हमावांडी 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 01.7.1971 जन्मस्थान: अर्बिल, इराक

अच्छा नाम उर्फ : काउआ उमर अचमेद

बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता : इराकी

पासपोर्ट संख्या : जर्मन यात्रा दस्तावेज (रेज्यूविज) ए 0139243

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं

पता : कैपटेन प्रिजन, जर्मनी

सूचीबद्ध : 6 दिसंबर, 2005

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

126. नाम: 1 मोहम्मद 2 ताहिर 3 हमीद 4 उपलब्ध नहीं

उपनाम: इमाम पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 1.11.1975 जन्मस्थान: पोसोक, इराक

अच्छा नाम उर्फ : अब्देल हमीद अल कुर्दी

बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं

पता : वाया डेला मार्टीनेला 132, परमा, इटली

सूचीबद्ध : 12 नवम्बर, 2003 (9 सितम्बर, 2005 को संशोधित)

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

127. नाम: 1 इस्नीलोन 2 तोतोनी 3 हापीलोन 4 उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: (क) 18 मार्च, 1966 (ख) 10 मार्च, 1967

जन्मस्थान: बुलांजा, लांतावान, बसिलान, फिलीपीन्स

अच्छा नाम उर्फ : (क) इस्नीलोन हापिलुन (ख) इस्नीलुन हापिलुन (ग) अबू मुसाब (घ) सलाउद्दीन (ङ) तुआन इस्नीलोन

बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता : फिलीपीनो

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,

पता : उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध : 6.12.2005,

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं,

128. नाम: 1 नस्र 2 फहमी 3 नस्र 4 हासनायन

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 30.10.1962

जन्मस्थान: काहिरा, मिस्र

अच्छा नाम उर्फ : मोहम्मद सालह

बुरा नाम उर्फ : नासर फाहमी नासर हुसैन

राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं

पता : उपलब्ध नहीं

सूचीबद्ध : 06 अक्टूबर, 2001 (26 नवंबर, 2004 को संशोधित)

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

129. नाम: 1 गुलबुद्दीन 2 हेकमत्यार 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 1.08.1949

जन्मस्थान: कोन्दूज प्रांत, अफगानिस्तान

अच्छा नाम उर्फ : (क) गुलाबुद्दीन हेकमत्यार (ख) गोलेबेद्दीन हेकमत्यार (ग) गुलाबुद्दीन हेकमत्यार (घ)

गुलबुद्दीन हेकमत्यार (ङ) गुलबुद्दीन हेकमत्यार (च) गुलबुद्दीन हेकमत्यार

बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं

पता : उपलब्ध नहीं

सूचीबद्ध : 20 फरवरी, 2003

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

130. नाम: 1 री आद (रायद) 2 मुहम्मद हसन 3 मुहम्मद 4 हिजाजी

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 30.12.1968

जन्मस्थान: कैलिफोर्निया (अमरीका)

अच्छा नाम उर्फ : (क) हिजाजी रायद (ख) अल हवेन, अबू-अहमद (ग) अल-शाहिद, अबू अहमद

बुरा नाम उर्फ : (क)अल-मधरीबी, रशीद (द मोराक्कन) (ख) अल-अम्रीकी, अबू अहमद (द अमरीकन)  
 राष्ट्रीयता : जोर्डनियाई राष्ट्रिक  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : (क) एस एस एन 548-91-5411 (ख) राष्ट्रीय न० 9681029476  
 पता : उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध : 17 अक्टूबर, 2001  
 अन्य सूचना : जोर्डन, मूल रूप से रामल्ला से, जोर्डन में रहते समय आवास, ट्रेड यूनियन काम्पलेक्स के पीछे अल-शुमायसानी (सियसानी) (अम्मान का क्षेत्र)

131. नाम: 1 अली 2 गालिब 3 हिम्मत 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 16.6.1938 जन्मस्थान: दमिश्क, सीरिया  
 अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : इटालियन, 1990 से  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं  
 पता : (क) वाया पोसेरो 2, च-6911, कैम्पियोन डी इटालिया, इटली  
 (ख) इटली और सीरिया में वास  
 सूचीबद्ध : 09 नवम्बर, 2001 ( 26 नवम्बर, 2004 को संशोधित)  
 अन्य सूचना : स्विस् प्राधिकारियों का कहना है क इस व्यक्ति को जारी किए गए किसी स्विस् पासपोर्ट के आंकड़े उनके पास नहीं है और इस व्यक्ति के पास स्विस् नागरिकता नहीं है।

132. नाम: 1 आरंमड 2 अलबर्ट 3 फ्रैंडरिक 4 ह्यूबेटर  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 1927 जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं  
 अच्छा नाम उर्फ : ह्यूबेटर, अहमद  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : स्विटजरलैंड  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं  
 पता : रोसीमट्टस्ट्रासी 33, 3074 मूरी बी बर्न, स्विटजरलैंड  
 सूचीबद्ध : 9 नवम्बर, 2001 (26 नवंबर, 2004 को संशोधित)  
 अन्य सूचना : इस नाम से किसी व्यक्ति को स्विस् पासपोर्ट जारी नहीं किया गया है।

133. नाम: 1 जायन 2 अल-अबीदीन 3 मुहम्मद 4 हुसायन  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 12.3.1971 जन्मस्थान: रियाद, सऊदी अरब  
 अच्छा नाम उर्फ : (क)अबू जुबैदा (ख) अब्द अल-हादी अल-वहाब (ग) जैन अल-अबीदीन मुहाहद हुसैन (घ) जैन अल-अबीदीन मुहाहद हुसैन  
 बुरा नाम उर्फ : (क)अबू जुबायदाह (ख) तारिक  
 राष्ट्रीयता : समझा जाता है कि सऊदी और फिलीस्तीनी राष्ट्रिक है।  
 पासपोर्ट संख्या : रियाद में मित्र के दूतावास द्वारा 18 जनवरी, 1984 को जारी मित्र का पासपोर्ट सं०-484824  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : उपलब्ध नहीं,



सूचीबद्ध : 25 जनवरी, 2001

अन्य सूचना : यूबीएल का निकट सहयोगी और आतंकवादियों की यात्रा का मध्यस्थ ।

134. नाम: 1 अजाहरी 2 हुसिन 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: डाक्टर पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 14.9.1957 जन्मस्थान: नेगेरी सेंबिलान, मलेशिया  
 अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : मलेशियाई  
 पासपोर्ट संख्या : 11512285  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : 570914-05-5411  
 पता : तमन श्री पुलाई, जोहोर, मलेशिया  
 सूचीबद्ध : 09 सितंबर, 2003  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

135. नाम: 1 अल सईद 2 अहमद 3 फातही 4 हुसैन एलीवाह  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: (क) 30.7.1964 (ख) 30.1.1964 जन्मस्थान: (क) स्वेजं (ख) एलेक्जेंड्रिया, मिस्र  
 अच्छा नाम उर्फ : (क) अल सईद अहमद फातही हुसैन एलिवा (ख) अल सईद अहमद फातही हुसैन एहैवाह (ग) अल सईद अहमद फातही हुसैन एलैवा (घ) अल सईद अहमद फातही हुसैन एलेवाह (ङ) अल सईद अहमद फातही हुसैन एलेवाह (च) अल सईद अहमद फातही हुसैन एलैवा (छ) हातिम (ज) हिशाम (झ) अबू उमर  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता : मिस्र  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : यू0के0  
 सूचीबद्ध : 29.9.2005 (6.10.2005 को संशोधित)  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं,

136. नाम: 1 दाऊद 2 इब्राहिम 3 उपलब्ध नहीं, 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 1955 जन्मस्थान: रत्नगिरि, भारत  
 अच्छा नाम उर्फ : (क) दाऊद इब्राहिम (ख) शेख दाऊद हसन  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : भारतीय  
 पासपोर्ट संख्या : ए 33602, 6 अप्रैल, 1985 को बम्बई, भारत में जारी ।  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं  
 पता : उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध : 03 नवम्बर, 2003  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं,

137. नाम: 1 मोस्तफा 2 कमेल 3 मोस्तफा 4 इब्राहिम  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 15.4.1958 जन्मस्थान: एलेक्जेंड्रिया, मिस्र  
 अच्छा नाम उर्फ : (क) मुस्तफा कमेल मुस्तफा (ख) एडम रामसे इयामन (ग) कमेल मुस्तफा मुस्तफा (घ) मुस्तफा कमेल मुस्तफा (ङ.) अबु हमजा  
 बुरा नाम उर्फ : (क) अबु हमजा अल मसरी (ख) अल मसरी, अबु हमजा (ग) अल मसरी, अबु हमजा

राष्ट्रीयता : ब्रिटिश  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं  
 पता : (क) 9 अल्बुर्न रोड, शेफर्ड बुश, लंदन डब्ल्यू 12 ओ एल डब्ल्यू यू0के0  
 (ख) 8 एडी रोड, हैमरस्मिथ, लंदन डब्ल्यू 6 ओ पी डब्ल्यू यू0के0  
 सूचीबद्ध : 24.4. 2002 (26 नवंबर, 2004 को संशोधित)  
 अन्य सूचना : यू0 के0 में अन्वेषणाधीन

138 .नाम: 1 नूरजामन 2 रिदुआन 3 इसामुद्दीन 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 4.4.1964 जन्मस्थान: सिआनजूर, पश्चिमी जावा, इंडोनेशिया  
 अच्छा नाम उर्फ : (क)हम्बाली (ख) नूरजामन (ग) इसामुद्दीन नूरजामन रिदुआन  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता : इंडोनेशियाई  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध : 28 जनवरी, 2003  
 अन्य सूचना : पिता -नूरजामन

139.नाम: 1 खदाफी 2 अबु बकर 3 जनजलानी 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं, पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 3 मार्च, 1975 जन्मस्थान: इसाबेला, बसिसान, फिलीपींस  
 अच्छा नाम उर्फ : (क)खदाफी जनजलानी (ख) खदाफी अबुबुकर जनजलानी (ग) अबु मुक्तार  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : फिलीपाइन  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं  
 पता : उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध : 22 दिसम्बर, 2004  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

140.नाम: 1 खलील 2 बेन अहमद 3 बेन मोहम्मद 4 जर्रया  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 08.02.1969 जन्मस्थान: स्फेक्स (ट्यूनिशिया)  
 अच्छा नाम उर्फ : (क) खलील यरया (ख) बेन नरवान अब्देल अजीज  
 बुरा नाम उर्फ : (क) अमरो (ख) ओमर (ग) अमरोऊ (घ) अग्र  
 राष्ट्रीयता : (क) ट्यूनिशियाई (ख) बोसनिया एण्ड हरजेगोविना  
 पासपोर्ट संख्या : ट्यूनिशिया के -989895, 26 जुलाई, 1995 को जारी, 25 जुलाई, 2000 को समाप्त  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं  
 पता : (क) वाया बेलारिया एन 10, बोलोग्ना, इटली (ख) वाया लाजियो एन 3, बोलोग्ना, इटली  
 (ग) डा10 फतह बेसिरबेगोविक सेंट 1, सेराजेवो, बोस्निया एण्ड हरजेगोविना  
 सूचीबद्ध : 25 जून, 2003 (26 नवंबर, 2004 और 20 दिसम्बर, 2005 को संशोधित)  
 अन्य सूचना : उसकी पहचान सेरेका (पूर्व में यूगोस्लाविया) में 15 अगस्त 1970 को जनमे अब्देल अजीज बेन नरवान के रूप में भी होती है।

141 .नाम: 1 मौनीर 2 बेन हबीब 3 जर्रया 4 बेन -अल-ताहिर  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 25.10.1963

जन्मस्थान: स्फैक्स (ट्यूनिशिया)

अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं

बुरा नाम उर्फ : यारारा

राष्ट्रीयता : ट्यूनिशियाई

पासपोर्ट संख्या : ट्यूनिशियाई पासपोर्ट सं०- एल 065947 जारी-28.10.1995 वैध-27.10.2000

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,

पता : (क) वाया मिरासोल एन 11, बोलोग्ना, इटली (ख) वाया अरिओस्टो एन 8, कासालोचिओ डी रेनो (बोलोग्ना) इटली

सूचीबद्ध : 25 जून, 2003 (20 दिसम्बर, 2005 को संशोधित)

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं,

142.नाम: 1 जिमाले

2 अहमद

3 नूर

4 अली

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: उपलब्ध नहीं

जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं

अच्छा नाम उर्फ : (क) जिमाले अहमद अली (ख) जिमाले अहमद नूर (ग) जूमाले अहमद नूर (घ)

जूमाली अहमद अली

बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,

पता : पीओ0 बाक्स 3312, दुबई, सं०अरब अमीरात

सूचीबद्ध : 9 नवम्बर, 2001 (26 नवम्बर, 2005 को संशोधित)

अन्य सूचना : मोगादिशु, सोमालिया

143.नाम: 1 वा-एल

2 हमजा

3 जुलैदान

4 उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 22.01.1958

जन्मस्थान: अल-मदीना, सऊदी अरब

अच्छा नाम उर्फ : (क) वै-उल हमजा जुलैदान (ख) वा-एल हमजा जलारुदान (ग) वा-इल हमजा

जलारुदान (घ) वा-एल हमजा जलानीन (ड.) वा-इल हमजा जलानीन

बुरा नाम उर्फ : अबू अल-हसन अल मदानी

राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं

पासपोर्ट संख्या : सऊदी पासपोर्ट सं०-ए-992535

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,

पता : उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध : 11 सितम्बर, 2002

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं,

144.नाम: 1 सलीम सलामुद्दीन

2 जुलकिपली

3 उपलब्ध नहीं,

4 उपलब्ध नहीं,

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 20.6.1968

जन्मस्थान: तुले, जोलो, सुलू फिलीपीन्स

अच्छा नाम उर्फ : (क) किपली साली (ख) जुलाकिपली सलीम

बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं,

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं,

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,

पता : उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध : 9.11.2003

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं,

145. नाम: 1 अब्दुल्लाही 2 हुसैन 3 काही 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: जन्मस्थान:  
 अक्षर नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं,  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध : 2 नवम्बर, 2001  
 अन्य सूचना : फकरा मार्केट, दार सलाम बिल्डिंग, भोगाडिशू, सोमालिया

146. नाम: 1 मेहदी 2 कम्मोन 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 03.04.1968 जन्मस्थान: टुनिस, टुनिसिया  
 अक्षर नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं,  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : वाया मसीना एन 7 मिलान, इटली  
 सूचीबद्ध : 3 सितम्बर, 2002 (20 दिसम्बर, 2005 को संशोधित)  
 अन्य सूचना : इटली फिस्कल कोड के रूप एमएम एम एच डी 68 डी ओ 3 जैड 252 एन

147. नाम: 1 अब्दुल्ला मनफ 2 कसमूरी 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं,  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 18.05.1955 जन्मस्थान: सेलनगोर, मलेशिया  
 अक्षर नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ : मुहम्मद अल फिलीपीनी (ख) इनतान  
 राष्ट्रीयता : मलेशियाई  
 पासपोर्ट संख्या : ए-9226483  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : 557528-10-5991  
 पता : क्लांग सेलनगोर, मलेशिया  
 सूचीबद्ध : 9 सितम्बर, 2003  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

148. नाम: 1 अब्दुल बाकी 2 मोहम्मद 3 खालेद 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 18 अगस्त, 1957 जन्मस्थान: त्रिपोली, लिबिया  
 अक्षर नाम उर्फ : अब्दुल बाकी मोहम्मद (क) खालेद (ख) अब्दुल बाकी मोहम्मद (ग) अबुल बाकी  
 खालेद (घ) अबु खवाला  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : ब्रिटिश  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : बर्मिंघम, यू0के0

सूचीबद्ध : 7 फरवरी, 2006

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं,

149. नाम: 1 अहमद 2 सैद

3 जाकी 4 खेतर

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 1 मार्च, 1948

जन्मस्थान: काहिरा, मिस्र

अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं

बुरा नाम उर्फ : अल-कनाली, अबु अब्द-रहमान

राष्ट्रीयता : कनाडा राष्ट्रिक है।

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,

पता : उपलब्ध नहीं

सूचीबद्ध : 25 जनवरी, 2001 को

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं,

150. नाम: 1 अब्दरहमान 2 किरफाने

3 उपलब्ध नहीं

4 उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 7 मार्च, 1963

जन्मस्थान: कासाब्लांका, मोरक्को

अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं

बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,

पता : वाया एस बिभाजिओ, 32 अथवा 35 -सेंट अनास्तासिया (उ न), इटली

सूचीबद्ध : 17 मार्च, 2004 को (26 नवम्बर, 2004 और 9 सितम्बर, 2005 को संशोधित)

अन्य सूचना : सशस्त्र इस्लामी गुटों को समर्थन देने के लिए 22 जुलाई, 1995 को इटली में 20 माह की सजा दी गयी।

151. नाम: 1 समीर 2 किशक 3 अब्द एल लतीफ

4 अल सएद

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 14.5.1955

जन्मस्थान: धराबिया, मिस्र

अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं

बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,

पता : उपलब्ध नहीं,

सूचीबद्ध : 3 सितम्बर, 2002 (26 नवम्बर, 2005 को संशोधित)

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं,

152. नाम: 1 अब्देलकादेर 2 लागोब 3 उपलब्ध नहीं

4 उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 23 अप्रैल, 1966

जन्मस्थान: कासाब्लांका, मोरक्को

अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं

बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता : मोरक्कन

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,

पता : वाया-यूरोप 4-पर्डेनो पोंचेली, क्रेमोना, इटली ।

सूचीबद्ध : 29 जुलाई, 2005

अन्य सूचना : फिस्कल कोड : एल जी बी बी एल के 66 डी 23 जेड 330 यू

153. नाम: 1 मुफ्ती 2 रशीद 3 अहमद 4 लादेहयानोय  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: उपलब्ध नहीं जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं  
 अच्छा नाम उर्फ : (क) लुधियानवी, मुफ्ती रशीद अहमद (ख) अरमाद मुफ्ती राशीद (ग) वादेहयानोस, मुफ्ती रशीद अहमद  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध : 17 अक्टूबर, 2001  
 अन्य सूचना : करांची, पाकिस्तान

154. नाम: 1 जमेल 2 लानेसी 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 1 फरवरी, 1962 जन्मस्थान: अल्जीयर्स  
 अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध : 16 जनवरी, 2004  
 अन्य सूचना : अब्देलकादर और जोहरा बिरोह के पुत्र

155. नाम: 1 अब्दुलकादिर 2 हुसैन 3 महमूद 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: (क) 12 अक्टूबर, 1966 (ख) 11 नवंबर, 1966 जन्मस्थान: सोमालिया  
 अच्छा नाम उर्फ : अब्दुलकादिर हुसैन महमूद  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध : 9 नवम्बर, 2001 (26 नवम्बर, 2004 को संशोधित)  
 अन्य सूचना : फ्लोरेंस, इटली

156. नाम: 1 उधमन 2 ओमर 3 महमूद 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: (क) 30.12.1960 (ख) 13.12.1960 जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं  
 अच्छा नाम उर्फ : (क) उधमन, अल-सम्मन (ख) उधमन, उमर  
 बुरा नाम उर्फ : (क) अल-फिलस्तीनी, अबू-कदादा (ख) तकफिरी, अबू उम्र (ग) अबू उमर (अबू ओमर (घ) उमर अबू उमर (ड.) अबू इस्माइल  
 राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं,  
 पता : उपलब्ध नहीं,  
 सूचीबद्ध : 17 अक्टूबर, 2001  
 अन्य सूचना : लंदन, इंग्लैंड

157. नाम: 1 अमरान 2 मंसूर 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 25.05.1964 जन्मस्थान: जोहोर, मलेशिया  
 अक्षर नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ : हेनरी  
 राष्ट्रीयता : मलेशियाई  
 पासपोर्ट संख्या : ए-10326821  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : 640525-01-5885  
 पता : केजी, एसजी, तिराम, जोहोर, मलेशिया  
 सूचीबद्ध : 9 सितम्बर, 2003  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

158. नाम: 1 फेथी 2 बेन रेबाई 3 मनासरी 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 06.03.1969 जन्मस्थान: नेफजा (ट्यूनिशिया)  
 अक्षर नाम उर्फ : फेथी अलिक  
 बुरा नाम उर्फ : (क) अमोर (ख) अमेर अबू  
 राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं  
 पता : (क) वाया टोसकाना एन, 46, बोलोग्ना, इटली  
 (ख) वाया डी सालीसेटो एन, 51/9, बोलोग्ना, इटली  
 सूचीबद्ध : 25 जून, 2003  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

159. नाम: 1 रफीक 2 मोहम्मद युसेफ 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 27 अगस्त, 1974 जन्मस्थान: बगदाद (इराक)  
 अक्षर नाम उर्फ : मो0 रफीक कैरादिन  
 बुरा नाम उर्फ : (क) अमोर (ख) अमेर अबू  
 राष्ट्रीयता : इराकी  
 पासपोर्ट संख्या : जर्मन यात्रा दस्तावेज (रिज्यूविक) ए 0092301  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं  
 पता : मनहेम जेल, जर्मनी  
 सूचीबद्ध : 6 दिसम्बर, 2005  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

160. नाम: 1 इब्राहिम 2 मोहम्मद खलील 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 2 जुलाई, 1975 जन्मस्थान: मोसुल (इराक)  
 अक्षर नाम उर्फ : (क) खलील इब्राहिम जासम, जन्म- 2 मई, 1972 को बगदाद इराक में  
 (ख) खलील इब्राहिम मोहम्मद, जन्म 3 जुलाई, 1975 का मोसुल बराक में

## (ग) खलील इब्राहिम अल जाफिरी, जन्म 1972 (घ) खलील जन्म 2 मई, 1975

बुरा नाम उर्फ : (क) अमोर (ख) अमेर अबू  
 राष्ट्रीयता : इराकी  
 पासपोर्ट संख्या : जर्मन यात्रा दस्तावेज (रिज्यूविक) ए 0092301  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं  
 पता : फैंकैथल जर्मनी  
 सूचीबद्ध : 6 दिसम्बर, 2005  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

161. नाम: 1 लोकमान 2 अमीन 3 मोहम्मद 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 1 फरवरी, 1974 जन्मस्थान: किरकुक, इराक  
 अच्छा नाम उर्फ : (क) लोकमान अली मोहम्मद, जन्म 1 फरवरी, 1974  
 (ख) लुकमान अमी माहम्मद जन्म 1 फरवरी, 1974

बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : इराकी  
 पासपोर्ट संख्या : जर्मन यात्रा दस्तावेज (रिज्यूविक) ए 006999  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं  
 पता : स्टेडेलहेम जेल, म्युनिख, जर्मनी  
 सूचीबद्ध : 6 दिसम्बर, 2005  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

162. नाम: 1 जिया 2 मोहम्मद 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: उपलब्ध नहीं जन्मस्थान: किरकुक, इराक  
 अच्छा नाम उर्फ : जिया अहमद  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं  
 पता : (क) मार्फत अहमद शाह मार्फत पायंदा मोहम्मद अल-करीम सेत, पेशावर, पाकिस्तान  
 (ख) अलम जनरल स्टोर, दुकान नं०-17, अवामी मार्किट पेशावर, पाकिस्तान  
 (ग) मार्फत जहीरशाह  
 सूचीबद्ध : 17 अक्टूबर, 2001  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

163. नाम: 1 दाकी 2 मोहम्मद 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 29.03.1965 जन्मस्थान: मोरक्को  
 अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं  
 पता : वाया मेलाटो 11, रेगिओ इमिलिया, इटली (मूल निवासी)  
 सूचीबद्ध : 12 नवम्बर, 2003  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं



164. नाम: 1 फजुल 2 अब्दुल्ला 3 मोहम्मद 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: (क) 25.08.1972 (ख) 25.12.1972 (ग) 25.2.1974  
 जन्मस्थान: मरोनी, कोमोरोस द्वीप  
 अच्छा नाम उर्फ : (क) अब्दुल्ला, फजुल (ख) फदेल अब्दुल्ला मोहम्मद अली (ग) फजुल अब्दुल्ला  
 (घ) फजुल अब्दुल्ला (ड.) फजुल अब्दुल्ला मोहम्मद (च) फजुल अब्दुल्ला मोहम्मद (छ) फजुल हारून  
 (ज) फजुल हारून (झ) हारोन फदिल (ञ) मोहम्मद फजुल (ट) मोहम्मद फजुल अब्दिलाही (ठ)  
 मोहम्मद फोआद (ड) मुहम्मद कादिल अब्दुल्ला  
 बुरा नाम उर्फ: (क) एयसा अबु (ख) अल सुडानी अबु सैफ (ग) हारून (घ) हारून (ङ) लुकमान अबु  
 राष्ट्रीयता : (क) कोमोरोस (ख) केन्या  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं  
 पता : उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध : 17.10. 2001  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

165. नाम: 1 नोरदिन 2 मो0 तोप 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 11.8.1969 जन्मस्थान: जोहोर, मलेशिया  
 अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : मलेशियाई  
 पासपोर्ट संख्या : ए 9775183  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : 690811-10-5873  
 पता : के जी एस जी तिराम, जोहोर, मलेशिया  
 सूचीबद्ध : 9 सितम्बर, 2003  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

166. नाम: 1 मोहम्मद 2 अमीन 3 मोस्तफा 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 11.10.1975 जन्मस्थान: कारकुक, ईराक  
 अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं  
 पता : वाया डेला मारटीनेला, 132, परमा इटली (मूल स्थान)  
 सूचीबद्ध : 12.11.2003  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

167. नाम: 1 डजामेल 2 मुस्तफा 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 28.09.1973 जन्मस्थान: कारकुक, ईराक  
 अच्छा नाम उर्फ : (क) अल बरकानी, 22.8.1973 को मोरक्को में जन्म (ख) कलाद बेलकसम  
 31.12.1979 में जन्म (ग) मोस्तफा डजामेल, 31 दिसंबर, 1979 को मस्करा, अल्जीरिया में जन्म (घ)  
 मोस्तेफा डजामेल, 26 सितम्बर, 1973 को महदिया, अल्जीरिया में जन्म (ड.) मुस्तफा डजामेल 31

दिसम्बर, 1979 को मस्कारा, अल्जीरिया में जन्म (च) बेलकम कलाद, 26 अगस्त, 1973 को अल्जीयर्स अल्जीरिया में जन्म (छ) बेकसेम कलाद, 26 अगस्त, 1973 को अल्जीयर्स, अल्जीरिया में जन्म (ज) बेलकसेम कलाद 26 अगस्त, 1973 को अल्जीयर्स, अल्जीरिया में जन्म (झ) डेमेल मोस्तफा 31.12.1979 को अल्जीयर्स, अल्जीरिया में जन्म बेकसेम कलाद, 26 अगस्त, 1973 को अल्जीयर्स, अल्जीरिया में जन्म (ञ) डिजामेल मोस्तफा 31.12.1979 को अल्जीयर्स, अल्जीरिया में जन्म बेकसेम कलाद, 26 अगस्त, 1973 को अल्जीयर्स, अल्जीरिया में जन्म (ट) डीजामेल मोस्तफा 10 जून, 1982 को जन्म (ठ) डिजामेल मोस्तफा 31 दिसम्बर.1979 को अल्जीयर्स, अल्जीरिया में जन्म (ड) डिजामेल मोस्तफा 31 दिसम्बर.1979 को मस्कारा अल्जीयर्स, अल्जीरिया में जन्म (ढ) फजामेल मोस्तफा, 28 सितम्बर, 1973 को तियारेत अल्जीरिया में जन्म (ण) डीजामेल मुस्तफा, 31 दिसम्बर, 1979 को जन्म (त) डिजामेल मोस्तफा 31 दिसम्बर.1979 को अल्जीयर्स, मस्कारा अल्जीरिया में जन्म

बुरा नाम उर्फ: मुस्तफा

राष्ट्रीयता : अल्जीरियाई

पासपोर्ट संख्या : नकली डेनिश ड्रायविंग लाइसेंस नं०-20645897 (क) अली बकरानी, 22 अगस्त, 1973 मोस्को में (ख) अल्जीरियाई जन्म प्रमाण पत्र, 25 सितम्बर, 1973 को मेहदिया, तियारेत प्रांत अल्जीरिया में जन्में डिजामेल मोस्तफा के नाम से जारी ।

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं

पता : अभी कैद में, मुकदमा चलाया जाना है।

सूचीबद्ध : 23 सितम्बर, 2003

अन्य सूचना : (क) पिता का नाम डिजेलाली मोस्तफा (ख) माता का नाम: कदेजा मंसोर

168. नाम: 1 फहीद 2 मोहम्मद 3 अली 4 सलाम

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 19 फरवरी.1976

जन्मस्थान: मोम्बासा, केन्या

अब्ज नाम उर्फ : अली फहीद मोहम्मद (ख) मसालम, फहद अली (ग) मसालम फहीद मोहम्मद अली (घ) मसालम मोहम्मद अली (ड.)सल्लम फहीद मोहम्मद अली (च)सलेम, फहीद मोहम्मद अली

बुरा नाम उर्फ: अल-किनि, ओसामा ।

राष्ट्रीयता : केन्याई

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं

पता : उपलब्ध नहीं

सूचीबद्ध : 9 सितम्बर, 2003

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

169. नाम: 1 अरीस 2 मुनान्दर 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 1962-68 के बीच

जन्मस्थान: साम्बी, बोयोलाली, जावा,

इंडोनेशिया

अब्ज नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं

पता : उपलब्ध नहीं

सूचीबद्ध : 9 सितम्बर, 2003 (9 सितम्बर, 2005 को संशोधित)

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

170 . नाम: 1 अब्दुल हकीम 2 मुराद 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 4.1.1968

जन्मस्थान: साम्बी, मोम्दासा

अच्छा नाम उर्फ : (क) मुराद, अब्दुल हकीम हाशिम (ख) मुराद अब्दुल हकीम अली हाशिम (ग) मुराद अब्दुल हकीम अली हाशिम (घ) सईद अकरम (ङ) सईद अहमद

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता : पाकिस्तानी

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं

पता : उपलब्ध नहीं

सूचीबद्ध : 9 सितम्बर, 2003

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

171 .नाम: 1 अली

2 सैयिद

3 मुहामेद

4 मुस्तफा बाकरी

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 18 अप्रैल, 1966

जन्मस्थान: बेनी-सुएफ

अच्छा नाम उर्फ : (क) अली सलीम (ख) अब्द-अल अजीज (ग) अल मासरी

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता : मिस्री

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं

पता : ईरान में हो सकता है

सूचीबद्ध : 29 सितम्बर, 2005

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

172 .नाम: 1 अब्देलगनी

2 मजौदी

3 उपलब्ध नहीं

4 उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 6.12. 1972

जन्मस्थान: मराकेश, मोरक्को

अच्छा नाम उर्फ : (क) अब्देलगनी भजवती (ख) अब्देलगनी मजौती

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता : मोरक्कन

पासपोर्ट संख्या : (क) मोरक्कन पासपोर्ट सं.-एफ 87967, मराकेश, मोरक्को में जारी, 28 अप्रैल, 1997 तक वैध, 28-29 अप्रैल, 1992 फरवरी, 2002 तक नवीकृत (ख) मोरक्कन पासपोर्ट सं0-एम 271392, 4 दिसम्बर, 2002 को बर्लिन स्थित मोरक्कन कौंसलवास द्वारा जारी ।

राष्ट्रीय पहचान संख्या : मोरक्कन व्यक्तिगत पहचान पत्र सं.-ई 427689, डुसेलडोर्फ, जर्मनी में मोरक्कन कौंसलवास द्वारा 20 मार्च, 2001 को जारी ।

पता : (क) अभी ( जून, 2003) जर्मनी में कैद (ख) अंतिम पंजीकृत ओप डी विश्व 15, 21149 हैम्बर्ग, जर्मनी ।

सूचीबद्ध : 10 जून, 2003 (26 नवंबर, 2004 को संशोधित)

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं ।

173 .नाम: 1 यासिन

2 अहमद

3 नासेर

4 उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 2 दिसम्बर, 1967

जन्मस्थान: अन्नाबा, अल्जीरिया

अच्छा नाम उर्फ : यासीन डी अन्नाबा

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं

पता : (क) रूई मोहमेद खेमिस्ती, 6 -अन्नाबा (डी जेड जेड) इटली (ख) विकोलो डुवेसा, 16 और

वाया जेनेवा, 121-नेपल्स, इटली (अधिवास)

सूचीबद्ध : 17 मार्च, 2004 (26 नवम्बर, 2004 को संशोधित)

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं।

174 .नाम: 1 नसरेदीन 2 अहमद 3 इदरिस 4 उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 22.11. 1929

जन्मस्थान: अदी उगरी इथोपिया (अब एरीट्रिया)

अच्छा नाम उर्फ : (क) नसरेदीन अहमद आई (ख) नसरेदीन हद्ज अहमद (ग) नसरेदाइन, अहमद इदरिस (घ) अहमद इदरिसन सरेदीन

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता : इतालवी

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या : (क) इतालवी पहचान पत्र सं० ए जी 2028062, समाप्ति की तारीख

07.09.2005 (ख) विदेशी पहचान पत्र सं०-5249

पता : (क) कोरसो सेम्पिओन 69, 20149 मिलाना, इटली (ख) पियाजले बयानकामानों, मिलान, इटली

(ग) रूथ डी कैप स्पार्टल, टैग्सिय, मोरोक्को (घ) सं० 10, रमीलात, विला नसरेदीन इन टैग्निस, मोराक्को

सूचीबद्ध : 24 अप्रैल, 2002 (26 नवंबर, 2004 को संशोधित)

अन्य सूचना : इतालवी फिस्कल कोड एनएसआरडी आर एस 29 एस 22 जैड 315 वाई। श्री नसरेदीन ने 1994 में स्विटजरलैंड में अपना आवास। वाया डेल्ले क्वूओल 6900 ल्यूगानो छोड़ दिया और मोराक्को चला गया।

175 .नाम: 1 सादी 2 नसीम 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 30.11.1974 जन्मस्थान: हैदरा अल कसरीन, ट्यूनिशिया

अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं

बुरा नाम उर्फ: अबू अनीस

राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं

पता : (क) वाया मोंटे ग्रप्पा 15, अरलुनो (मिलान), इटली

(ख) वाया सेफालोनिया 11, मिलान, इटली (मूल स्थान)

सूचीबद्ध : 12 नवम्बर, 2003 (संशोधित 20 दिसंबर, 05)

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं।

176 .नाम: 1 ताहिर 2 नासुफ 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: (क) 4 नवम्बर, 1961 (ख) 11 अप्रैल, 1961 जन्मस्थान: त्रिपोली, लिबिया

अच्छा नाम उर्फ : (क) ताहिर मुस्तफा नासुफ (ख) ताहर नसूफ (ग) ताहर नसूफ (घ) अल कादा

(ङ) अबु सालिमा अल लिबि (च) अबु रिदा

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं

पता : मैनेचेस्टर, यू०के०

सूचीबद्ध : 7 फरवरी, 2006

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं।

177 .नाम: 1 मुस्तफा 2 मुहम्मद 3 अहमद 4 ओस्मान अबू अल अजीद

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 27 फरवरी, 1955 जन्मस्थान: मिस्र (अल सर्किया)  
 अच्छा नाम उर्फ : (क) शाख सईद (ख) मुस्तफा, मोहम्मद अहमद  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं  
 पता : उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध : 6 अक्टूबर, 2001 को (26 नवंबर, 2004 को संशोधित)  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं ।

178 .नाम: 1 जोको 2 पिटोनो 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: (क) 16 जून, 1970 (ख) 6 जून, 1970 जन्मस्थान: पेटारूकान गांव, पेमालांग,  
 केन्द्र जावा इंडोनेशिया  
 अच्छा नाम उर्फ : (क) पिटोयो, जोको (ख) पिन्टोनो, जोको (ग) दुलमातिन (घ) दुलमतिन (ड.) अब्दुल  
 मार्टिन (च) अब्दुल मतीन (छ) अमर उमर (ज) अमर उस्मान (झ) अनार उस्मान (ञ) डो सुप्रियान्टो  
 (ट) जाक इमरोन (ठ) मुक्तामा (ड) नोवारियान्तो (ढ) टोपेल  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : इंडोनेशियाई  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं  
 पता : उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध : 16 मई, 2005  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं ।

179 .नाम: 1 अहमद 2 होसनी 3 शरबो 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 12.9.1974 जन्मस्थान: बोलाघाइन (अल्जीरिया)  
 अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: अब्दुल्ला ओ अब्दुल्ला  
 राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं  
 पता : इटली में कोई निर्धारित ठिकाना नहीं ।  
 सूचीबद्ध : 25.06.2003  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं ।

180 .नाम: 1 अब्देल हलीम 2 रिमान्दा 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 2.4.1966 जन्मस्थान: बिस्त्रा, अल्जीरिया  
 अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं  
 पता : उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध : 03.9.2002  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं ।

181 .नाम: 1 अल-अजहर 2 बेनखलीफा 3 बेन अहमद 4 रोइन  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 20.11.1975 जन्मस्थान: सफेक्स, ट्यूनिशिया  
 अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: (क)सलमाने (ख) लजहर  
 राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं  
 पता : विकोलो एस जिओवानी, रिमिनी, इटली (मूल स्थान)  
 सूचीबद्ध : 12 नवम्बर, 2003  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं ।

182 .नाम: 1 अबु 2 रूसदान 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 16 अगस्त, 1960 जन्मस्थान: कुदुस, मध्य जावा, इंडोनेशिया  
 अच्छा नाम उर्फ : (क) अबु थोरिक (ख) रूसदजान (ग) रूसजान (घ)रूसिदान (ङ) थोरीकुद्दीन (च) थोरीकुद्दीन (छ) थोरीकुद्दीन (ज) थोरीकुद्दीन  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं  
 पता : उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध : 16 मई, 2005  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं ।

183 .नाम: 1 रुदुलान 2 शहिरोन 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: (क)1955 (ख) 1952 के आसपास जन्मस्थान: कौनायन, पाटिकुल, जोलो द्वीप, फिलीपींस  
 अच्छा नाम उर्फ : (क) रादुल्लान साहिरोन (ख) रादुलान साहिरुन (ग) रादुलान साहिरुन (घ)  
 कमांडर पुतोल  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : फिलिपिनो  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं  
 पता : उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध : 6 दिसम्बर, 2005  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं ।

184 .नाम: 1 अब्दुल 2 लातिफ 3 सालेह 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: डाक्टर पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 5 मार्च, 1957 जन्मस्थान: बगदाद, इराक  
 अच्छा नाम उर्फ : (क) अब्दुल लतिफ ए.ए. सलेह (ख) अब्देल लतिफ सलेह (ग) अब्देल लतिफ सलेह  
 (घ) अब्दुल लतिफ ए.ए. सलेह अबु हुसैन (ङ) अब्द-अल-लतिफ सालिह (च) अबु आमिर  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : (क) जोर्डनियन (ख) अल्बानियन  
 पासपोर्ट संख्या : जोर्डनियन पासपोर्ट डी-366871  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं  
 पता : अंतिम ज्ञात आवास: यू ए ई

सूचीबद्ध : 16 सितम्बर, 2005

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं।

185 .नाम: 1 नादेल 2 सलेह 3 महमोद 4 उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 1.3.1970

जन्मस्थान: तैज (यमन)

अच्छा नाम उर्फ : नेदाल महमोद एन सलेह

बुरा नाम उर्फ: हितेम

राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं

पता : (क) वाया मिलानो सं०-105, कासल डी प्रिसिपी (कसेट्रा), इटली।

(ख) वाया डि सलिसेटो सं. 51/9, बोलोंगा, इटली

सूचीबद्ध : 25.6.2003 (26 नवंबर, 04 को संशोधित)

अन्य सूचना : 19-8-2003 को इटली में गिरफ्तार

186 .नाम: 1 जैनल 2 एंटेल 3 साली जूनियर 4 उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 1 जून, 1965 जन्मस्थान: बारान्गो लानोते, ब्लिस, इसाबेला बसिलान, फिलीपींस

अच्छा नाम उर्फ : (क)अबु सोलेमान (ख) अबु सोलायमान (ग)अर्पोंग सोलायमान (घ)अपुंग

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता : फिलिपिनो

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं

पता : उपलब्ध नहीं

सूचीबद्ध : 6 दिसम्बर 2005

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं।

187 .नाम: 1 इमाम 2 समुद्रा 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 14.1.1970 जन्मस्थान: सेरांग, बान्तेन, इण्डोनेशिया

अच्छा नाम उर्फ : (क)अब्दुल अजीस (ख) अब्दुल अजीज बेन सिहाबुद्दीन (ग)फैज युंशर

बुरा नाम उर्फ: (क)कुदामा (ख) हेन्ट्री (ग)हेरी (घ) फतीह (ड.)अबु ओमर

राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं

पता : उपलब्ध नहीं

सूचीबद्ध : 9.9.2003

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं।

188 .नाम: 1 नबील 2 अब्दुल 3 सलाम 4 सैयदी

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 1.1.1966

जन्मस्थान: ई आई हदीद, त्रिपोली, लेबनान

अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं

बुरा नाम उर्फ: अबु जेनब

राष्ट्रीयता : बेल्जियम 18.9.01 से

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं

पता : उपलब्ध नहीं

सूचीबद्ध : 22.1.2003 (26 नवंबर, 04 को संशोधित)

अन्य सूचना : पैट्रिसिया विक के पति/पत्नी, 29/5/92 को पेशावर, पाकिस्तान में शादी हुई

189 .नाम: 1 सयफ अल अदल 2 उपलब्ध नहीं 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 1963

जन्मस्थान: मिस्र

अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं

पता : उपलब्ध नहीं

सूचीबद्ध : 25.1.2001

अन्य सूचना : यू बी एल सुरक्षा के लिए उत्तरदायी

190 .नाम: 1 इसमाइल 2 अबदल्ला 3 सबैतन 4 शलाबी

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 30.4.1973

जन्मस्थान: बेकम, जर्मनी

अच्छा नाम उर्फ : (क) इसमाइल शलाबी, बेकम में 30.4.1973 को जन्म

(ख) इसमाइल अबदल्ला सबितन शलाबी 30 अप्रैल, 1973 को बेकम में जन्म

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता : फिलिस्तीनी मूल के जोर्डानी

पासपोर्ट संख्या : (क) हाशमी राज्य जोर्डन का पासपोर्ट सं.-778675, 23 जून, 1996 को रूसैफा में जारी, 23 जून, 2001 तक वैध (ख) हाशमी राज्य जोर्डन का पासपोर्ट सं- एच 401056 जे ओ आर-9731050433, 11 अप्रैल, 2001 को जारी, 10 अप्रैल, 2006 तक वैध

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं

पता : मुकदमे की प्रतीक्षा में कैद

सूचीबद्ध : 23.9.2003

अन्य सूचना : पिता का नाम: अब्दुल्ला शलाबी (ख) माँ का नाम: अमनीह शलाबी

191 .नाम: 1 परलिङ्गन 2 सिरैगर 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: (क) 25.4.1957

जन्मस्थान: इण्डोनेशिया

(ख) 25.4.1967

अच्छा नाम उर्फ : (क) सिरैगर, पारलिन (ख) सिरैगर सलेह परलिङ्गन

(ख) इसमाइल अबदल्ला सबितन शलाबी 30 अप्रैल, 1973 को बेकम में जन्म

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता : इंडोनेशियाई

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं

पता : उपलब्ध नहीं

सूचीबद्ध : 09.09.2003

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

192 .नाम: 1 अहमद 2 सलीम

3 स्वीडन

4 शेख

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं



जन्म तिथि: (क) 9.4.1969 जन्मस्थान: मोम्बासा, केन्या  
 (ख) 9.4.1960  
 अच्छा नाम उर्फ : (क) अली अहमद (ख) सुबीदान, शेख अहमद सलेम  
 (ग) स्वीडन, शेख (घ) स्वीडन, शेख अहमद सलेम  
 बुरा नाम उर्फ: (क) अहमद दी टाल (ख) बहामद (ग) बहामद, शेख (घ) बहामदी शेख  
 राष्ट्रीयता : केन्याई  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं  
 पता : उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध : 17.10.2001  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

193 .नाम: 1 याजल्द 2 सुफात 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 20.1.1964 जन्मस्थान: जोहोर, मलेशिया  
 अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: (क) जो (ख) अबु जुफर  
 राष्ट्रीयता : मलेशियाई  
 पासपोर्ट संख्या : ए-10472263  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : 640120-01-5529  
 पता : तमन बुकित अंपांग, सेलांगोर, मलेशिया  
 सूचीबद्ध : 9 सितम्बर, 2003  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

194 .नाम: 1 यासीन 2 स्यवल 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 1972 के आस-पास जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं  
 अच्छा नाम उर्फ : (क) सलीम यासिन (ख) मोघतार यासिन महमुद  
 (ग) अब्दुल हादी यासिन (घ) मुहम्मद मुबारक (ड.) मुहम्मद स्यावल  
 बुरा नाम उर्फ: (क) अबु सैता (ख) महमुद (ग) अबु मुआमर  
 राष्ट्रीयता : इण्डोनेशियाई  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं  
 पता : उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध : 9.9. 2003  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

195 .नाम: 1 मनसोर 2 थाएर 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 21.3.1974 जन्मस्थान: बगदाद, इराक  
 अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं  
 पता : उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध : 03.9.2002  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

196 .नाम: 1 युल्डासेव 2 तोहिर 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: उपलब्ध नहीं जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं  
 अक्षा नाम उर्फ : युल्डासेन, तखीर  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं  
 पता : उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध : 17.10.2001  
 अन्य सूचना : उजबेकिस्तान

197 .नाम: 1 मोहम्मद 2 तुफैल 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: उपलब्ध नहीं जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं  
 अक्षा नाम उर्फ : (क)तुफैल, एस एम (ख)तुफैल, शेख मोहम्मद  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : पाकिस्तानी  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं  
 पता : वाया  
 सूचीबद्ध : 24.12.2001  
 अन्य सूचना : उजबेकिस्तान

198 .नाम: 1 अवेश 2 दाहिर 3 उबेदुल्ला 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: उपलब्ध नहीं जन्मस्थान: उपलब्ध नहीं  
 अक्षा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं  
 पता : वाया सिपरियानो फछीनेती 84, रोम, इटली ।  
 सूचीबद्ध : 9.11.2001  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

199 .नाम: 1 महधात 2 मुरसी 3 अल-सैयिद 4 उमर  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 19 अक्टूबर 1953 जन्मस्थान: अलेक्जेंड्रिया  
 अक्षा नाम उर्फ : (क)अबु हसन (ख)अबु ख्वाब (ग)अबु ख्वाब  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : मिस्री  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं  
 पता : पाकिस्तान-अफगानिस्तान सीमा पर हो सकता है।  
 सूचीबद्ध : 29 सितम्बर, 2005  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

200 .नाम: 1 पेद्रीसिया 2 रोसा 3 विक 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 4.1.1965 जन्मस्थान: बरचेम, अंतवर्ष  
 अच्छा नाम उर्फ : सोराया पी विक  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : बेल्जियम  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं  
 पता : उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध : 22.01.2003 (26 नवम्बर, 2004 और 9.9.2005 को संशोधित)  
 अन्य सूचना : नबील सयादी की पत्नी

201 .नाम: 1 वान मिन 2 वान मेत 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 23.9.1960 जन्मस्थान: केलान्तन, मलेशिया  
 अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: (क)अबु हफीस (ख) वान हलीम (ग) अबु हिदाया  
 राष्ट्रीयता : मलेशियाई  
 पासपोर्ट संख्या : ए- 9703399  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : 600923-03-5527  
 पता : उलू तिराम, जोहोर, मलेशिया  
 सूचीबद्ध : 09.9.2003  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

202 .नाम: 1 जेलिमखान 2 अहमदोविच 3 यान्दरेव 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 12.9.1952 जन्मस्थान: सोवियत संघ, पूर्वी कजाकिस्तान क्षेत्र, व्यद्रिहा गांव  
 अच्छा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: अब्दुल मुस्लिमोविच  
 राष्ट्रीयता : रूसी परिसंघ  
 पासपोर्ट संख्या : रूसी पासपोर्ट 43 सं० - 1600453  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं  
 पता : भूतपूर्व रूसी परिसंघ, चेचन गणराज्य, ग्रोंजी, देरझाविना गली-281-59  
 सूचीबद्ध : 25.6. 2003  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

203 .नाम: 1 अब्दुल रहमान 2 यासिन 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 10.4.1960 जन्मस्थान: ब्लूमिंगटन, इंडियाना अमरीका

अच्छा नाम उर्फ : (क)ताहा अब्दुल रहमान एस (ख) ताहेर अब्दुल रहमान एस  
 (ग) यासिन अब्दुल रहमान सईद (घ) यासिन अबाउद  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : अमरीकी  
 पासपोर्ट संख्या : (क) 27082171 (अमरीका, अम्मान, जोर्डन में 21 जून, 1992 को जारी) (ख) एम ओ 887925 (इराक)  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : एस एस एन 156-92-9858 (अमरीका)

पता : उपलब्ध नहीं

सूचीबद्ध : 17.10.2001

अन्य सूचना : अब्दुल रहमान यासिन इराक में है।

204 .नाम: 1 मुखलिस 2 युनुस 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 7 जुलाई, 1966 अथवा इसके आसपास जन्मस्थान: लानाओ डेल सुर फिलीपींस में  
 समझा जाता है।  
 अक्षा नाम उर्फ : (क) युनुस मुखलिस (ख) सैफुल्ला मुखलिस युनुस  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : उपलब्ध नहीं  
 पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं  
 पता : उपलब्ध नहीं  
 सूचीबद्ध : 09.9.2003 (9.9.2005 को संशोधित)  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

205 .नाम: 1 अली 2 अहमद 3 युसुफ 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 20.11.1974 जन्मस्थान: गहबहारे, सोमालिया  
 अक्षा नाम उर्फ : अली गलोड  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : स्वीडिश  
 पासपोर्ट संख्या : स्वीडिश पासपोर्ट-1041635  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : 741120-1093  
 पता : कालिनगेगरांड 33 एस-16362 स्पांगा  
 सूचीबद्ध : 9.11.2001  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

206 .नाम: 1 जायनी 2 जकारिया 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 16.5.1967 जन्मस्थान: केलांतन, मलेशिया  
 अक्षा नाम उर्फ : उपलब्ध नहीं  
 बुरा नाम उर्फ: अहमद  
 राष्ट्रीयता : मलेशियाई  
 पासपोर्ट संख्या : ए 1145 7974  
 राष्ट्रीय पहचान संख्या : 670516-03-5283  
 पता : कोटा भारु, केलांतन, मलेशिया  
 सूचीबद्ध : 09.9.2003  
 अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

207 .नाम: 1 अहमद 2 जेरफोदी 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं  
 उपनाम: उपलब्ध नहीं पदनाम: उपलब्ध नहीं  
 जन्म तिथि: 15 जुलाई, 1963 जन्मस्थान: चरेया/अल्जीरिया  
 अक्षा नाम उर्फ : (क) अब्दुल्ला (ख) अब्दुल्ला  
 (ग) स्माइल (घ) अबु खओला (ङ) अबु चोल्डर (च) नूर  
 बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं  
 राष्ट्रीयता : अहमद अल्जीरियाई

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं

पता : उपलब्ध नहीं

सूचीबद्ध : 3 मई, 2004

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

208 .नाम: 1 जुत्कारनाएंग 2 उपलब्ध नहीं 3 उपलब्ध नहीं 4 उपलब्ध नहीं

उपनाम: उपलब्ध नहीं

पदनाम: उपलब्ध नहीं

जन्म तिथि: 1963

जन्मस्थान: गोबांग गांव, मसारन, झाजेन, मध्य जावा,

इंडोनेशिया

अच्छा नाम उर्फ : (क) जुत्कारनान (ख) जुत्कारनैन (ग) जुत्कारनिन (घ) आरिफ सुनारसो (ङ.) आरिस सुमारसोनो (च) आरिस सुनारसो (छ) उस्ताद दाउद जुत्कारनान (ज) मुर्सिद

बुरा नाम उर्फ: उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीयता : इंडोनेशियाई

पासपोर्ट संख्या : उपलब्ध नहीं

राष्ट्रीय पहचान संख्या : उपलब्ध नहीं

पता : उपलब्ध नहीं

सूचीबद्ध : 16 मई, 2005

अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं

#### घ. अल कायदा संगठन के अथवा इससे जुड़ी इकाइयों की सूची ।

1. नाम: अबु सयाफ गुट

उर्फ: अल हरकत अल इस्लामिया

पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।

सूचीबद्ध: 6.10.2001

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।

2. नाम: अफगान सपोर्ट कमेटी (ए एस सी)

उर्फ: (क) लजनत उल मासा इदातुल अफगानियब (ख) जमायत अयात उर रहस अल इसलामिक (ग) जमायत इहया उल तुराथ अल इस्लामिया (घ) अहया उल तुरास

पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।

पता: (क) मुख्यालय जी टी रोड (शायद ग्रांड ट्रंक रोड) पुस्तुन गढ़ी पब्ली के निकट, पेशावर पाकिस्तान (ख) वेपराहार हड़्डा, मियाँ ओमर सबकाह स्कूल, जलालाबाद, अफगानिस्तान

सूचीबद्ध: 11.1.2002

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।

3. दी ऐड आरगेनाइजेशन ऑफ दी उलेमा, पाकिस्तान

उर्फ: (क) अल रसीद ट्रस्ट (ख) अल रशिद ट्रस्ट (ग) अल रशीद ट्रस्ट (घ) अल रसीद ट्रस्ट

पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।

पता: (क) किताब-घर, दारुल इफ्ता वाल इरशाद, नजीमाबाद न.4, कराची, पाकिस्तान फोन 6683301, फोन 0300 - 8209199, फैक्स 6623814 (ख) 302बी-40, गुड अर्थ कोर्ट,

पिया तारामण्डल के सामने ब्लाक 13 ए, गुलशन-1, इकबाल, कराची, फोन 4979263 (ग) 617 क्लिफ्टोन सेंटर ब्लाक 5, छठी मंजिल, क्लिफ्टोन, कराची, फोन 587-2545 (घ) 605

लैंडमार्क प्लाजा, 11, चुंदरीनगर रोड, जांग भवन के सामने, कराची, पाकिस्तान, फोन 2623818-19 (ङ.) जामिया मस्जिद, सुलेमान पार्क, बेगम पुरा, लाहौर, पाकिस्तान, फोन 042-6812081

सूचीबद्ध: 24.4.2002

अन्य सूचना: पाकिस्तान ।

4. नाम: अकिदा बैंक प्रायवेट लि०  
 उर्फ: उपलब्ध नहीं ।  
 पूर्व में नाम: (क) अकिदा इस्लामिक बैंक इन्टरनेशनल लि० (ख) इकसिर इन्टरनेशनल बैंक लि०  
 पता: (क) द्वारा आर्थर डी हाना एण्ड कं० (ख) 10 डीभीक्स स्ट्रीट, नसाउ, बहामस (ग) पीओ बाक्स नं.-4877, नसाउ बहामस  
 सूचीबद्ध: 3.9.2002  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
5. नाम: अकिदा इन्वेस्टमेंट कं० लि०  
 उर्फ: अकिदा इन्वेस्टमेंट कं० लि०  
 पूर्व में नाम: अकिदा बैंक प्रा० लि०  
 पता: (क) द्वारा आर्थर डी हाना एण्ड कं० (ख) 10 डीभीक्स स्ट्रीट, नसाउ, बहामस (ग) पी ओ बाक्स नं.-4877, नसाउ, बहामस  
 सूचीबद्ध: 3.9.2002  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
6. नाम: अल अख्तर ट्रस्ट इन्टरनेशनल  
 उर्फ: (क) अल अख्तर ट्रस्ट, (ख) अल अख्तर मेडिकल सेंटर (ग) अख्तराबाद मेडिकल कैम्प  
 पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।  
 पता: (क) एस टी-1/ए, गुलशन-ए-इकबाल, ब्लॉक 2 करांची, 25300, पाकिस्तान, (ख) गुलशन-ए-जौहर, ब्लॉक 12, करांची, पाकिस्तान  
 सूचीबद्ध: 17 अगस्त, 2005  
 अन्य सूचना: पाकिस्तान में क्षेत्रीय कार्यालय: बहावलपुर, बावलनगर, गिलगिट, इस्लामाबाद, मीरपुर खास, टांडो-जान-मोहम्मद, अख्तराबाद मेडिकल कैम्प स्पिन बोलदक, बगदाद में हैं ।
7. नाम: अल बराका एक्सचेंज, एल एल सी  
 उर्फ: उपलब्ध नहीं ।  
 पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।  
 पता: (क) पी ओ बॉक्स, 3313 देयरा दुबई, यू ए ई (ख) पी ओ बॉक्स 20066, दुबई यू ए ई  
 सूचीबद्ध: 9.11.2001  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
8. नाम: अल बरककत  
 उर्फ: उपलब्ध नहीं ।  
 पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।  
 पता: (क) मोगादिशु, सोमालिया (ख) दुबई, यू ए ई  
 सूचीबद्ध: 9.11.2001  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
9. नाम: अल बरककत बैंक  
 उर्फ: उपलब्ध नहीं ।  
 पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।  
 पता: मोगादिशु, सोमालिया  
 सूचीबद्ध: 9.11.2001  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
10. नाम: अल बरककत वायरिंग सेवा  
 उर्फ: उपलब्ध नहीं ।  
 पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।  
 पता: 2940 पिल्सबरी एवेन्यू, सूट सु 4, मीनियापोलिस, मिनेसोटा 55408  
 सूचीबद्ध: 9.11.2001  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।

11. नाम: अल बरकत बैंक ऑफ सोमालिया (बी एस एस)  
उर्फ: उपलब्ध नहीं।  
पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं।  
पता: (क) मोगादिशु, सोमालिया (ख) बोसासो, सोमालिया  
सूचीबद्ध: 9.11.2001  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।
12. नाम: अल बरकत फायनांस ग्रुप  
उर्फ: उपलब्ध नहीं।  
पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं।  
पता: (क) दुबई, यू ए ई (ख) मोगादिशु, सोमालिया  
सूचीबद्ध: 9.11.2001  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।
13. नाम: अल बरकत फायनांसियल होल्डिंग कं०  
उर्फ: उपलब्ध नहीं।  
पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं।  
पता: (क) दुबई, यू ए ई (ख) मोगादिशु, सोमालिया  
सूचीबद्ध: 9.11.2001  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।
14. नाम: अल बरकत ग्लोबल टेलीकम्युनिकेशन्स  
उर्फ: बरकत ग्लोबटेल कंपनी  
पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं।  
पता: (क) पी ओ बॉक्स 3313, दुबई, यू ए ई (ख) मोगादिशु, सोमालिया (ग) हारगेसा, सोमालिया।  
सूचीबद्ध: 9.11.2001  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।
15. नाम: अल बरकत ग्रुप ऑफ कंपनीज सोमालिया लि०  
उर्फ: अल बरकत फायनांसियल कं०  
पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं।  
पता: (क) पी ओ बॉक्स 3313, दुबई, यू ए ई (ख) मोगादिशु, सोमालिया  
सूचीबद्ध: 9.11.2001  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।
16. नाम: अल बरकत इन्टरनेशनल  
उर्फ: बराको कं०  
पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं।  
पता: बॉक्स 2923, दुबई, यू ए ई  
सूचीबद्ध: 9.11.2001  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।
17. नाम: अल बरकत इन्वेस्टमेंट्स  
उर्फ: उपलब्ध नहीं।  
पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं।  
पता: पी ओ बॉक्स 3313, दीयरा, दुबई, यू ए ई  
सूचीबद्ध: 9.11.2001  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।
18. नाम: अल फुरकान  
उर्फ: (क) जेमिलिजाती फुरकान, (ख) जेमिलिजेतुल फुरकान (ग) एसोसिएशन फॉर सिटिजेंस राइट्स एण्ड रेसिस्टेंस टू लाइज (घ) जेमितिजुल फुरकान (ङ.) सत्य के समर्थन और असत्य के दमन के लिए नागरिकों का संघ (च) सिरात (छ) शिक्षा, संस्कृति और निर्माण समाज संघ,

- सिरात (ज) शिक्षा, संस्कृति और समाज निर्माण संघ-सिरात (झ) इस्तिकामेत (ज) इन सिराटेल  
 पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।  
 पता: (क) पुत म्लादिह मुस्लिमाना 30 ए, 71000 सेराजेवो, बिह (ख) उल स्ट्रोसमाजेरोवा 72, जेनिका, बिह (ग) मुहमेदा हादजीजाहिका ः 42, सेराजेवो, बिह  
 सूचीबद्ध: 11 मई, 2004 (26 नवम्बर, 2004 को संशोधित)
19. नाम: अल हमाती स्वीट्स बेकरीज  
 उर्फ: उपलब्ध नहीं ।  
 पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।  
 पता: अल मुकल्ला, हदरामावत गवनौरट, यमन  
 सूचीबद्ध: 17.10.2001  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
20. नाम: अल हरामेन एण्ड अल मास्जेद अल अक्सा चैरिटी फाउन्डेशन  
 उर्फ: (क) अल हरामेन अल मास्जेद अल अक्सा (ख) अल हरामेन अल मस्जिद अल अक्सा (ग) अल हरामायेन एण्ड अल मास्जेद अल अक्सा चैरिटेबल फाउन्डेशन  
 पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।  
 पता: (क) शाखा पता: हासिबा ब्रान्कोबिका सं. 2 ए, सेराजेवो बिह (ख) बिहाका सेंट 14, सेराजेवो (ग) त्रावनिक, पोतुर महाला सेंट 64  
 सूचीबद्ध: 28 जून, 2004 (26 नवम्बर, 2004 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: बोसनियन प्राधिकारियों के पास सुरक्षित
21. नाम: अल हरामेन और अल मास्जेद अल-अक्सा चैरिटी फाउन्डेशन  
 उर्फ: उपलब्ध नहीं ।  
 पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।  
 पता: अफगानिस्तान  
 सूचीबद्ध: 6 जुलाई, 2004  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
22. नाम: अल हरामेन: अफगानिस्तान शाखा  
 उर्फ: उपलब्ध नहीं ।  
 पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।  
 पता: इरफान तोमिनी गली, ः 58, तिराना अल्बानियाँ  
 सूचीबद्ध: 6 जुलाई, 2004  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
23. नाम: अल हरामेन: बंगलादेश शाखा  
 उर्फ: उपलब्ध नहीं ।  
 पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।  
 पता: 'हाउस' 1, सड़क 1, एस 6, उत्तर ढाका, बंगलादेश  
 सूचीबद्ध: 6 जुलाई, 2004  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
24. नाम: अल हरामेन: इथोपिया शाखा  
 उर्फ: उपलब्ध नहीं ।  
 पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।  
 पता: वोरेडा जिला 24 केबेले सेक्सन 13, आदिस अबाबा, इथोपिया  
 सूचीबद्ध: 6 जुलाई, 2004  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
25. नाम: अल हरामेन फाउन्डेशन, इंडोनेशिया  
 उर्फ: ययासन अल मनाहिल - इंडोनेशिया  
 पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।



- पता: जालान लाउत सुलावेसी ब्लॉक डी रुम्ह /4, कवलिंग अंगकातन लाउत डुरेन सावित,  
जकार्ता तिमूर 13440 इन्डोनेशिया; टेलीफोन: 021-86611265 और 021-86611266  
फैक्स: 021-8620174  
सूचीबद्ध: 26 जनवरी, 2004  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।
26. नाम: अल हरामेन फाउन्डेशन, पाकिस्तान  
उर्फ: उपलब्ध नहीं।  
पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं।  
पता: हाउस ६ 279, निजामुद्दीन रोड, एफ-10/1, इस्लामाबाद, पाकिस्तान  
सूचीबद्ध: 26 जनवरी, 2004  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।
27. नाम: अल हरामेन फाउन्डेशन (कोमेरोस संघ)  
उर्फ: उपलब्ध नहीं।  
पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं।  
पता: बी/पी: 1652 मोरोनी, कोमेरोस संघ  
सूचीबद्ध: 28 सितम्बर, 2004  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।
28. नाम: अल हरामेन फाउन्डेशन (अमरीका)  
उर्फ: उपलब्ध नहीं।  
पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं।  
पता: (क) 1257 सिसकियू बल्ड, आश्लैंड, ओ आर 97520  
(ख) 3800 हाइवे 99 एस, आश्लैंड, ओ आर, 97520  
(ग) 2151 ई प्रभाग, सेंट स्प्रिंगफील्ड, एम ओ 65803  
सूचीबद्ध: 28 सितम्बर, 2004  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।
29. नाम: अल हरामेन इस्लामिक फाउन्डेशन  
उर्फ: (क) वजीर (ख) वेजीर  
पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं।  
पता: 64 पोतुरमहल, त्रावनिक, बोस्निया एण्ड हरजेगोविना  
सूचीबद्ध: 13 मार्च, 2002 (26 दिसम्बर, 2003 को संशोधित)  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।
30. नाम: अल हरामेन इस्लामिक फाउन्डेशन  
उर्फ: उपलब्ध नहीं।  
पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं।  
पता: सोमालिया  
सूचीबद्ध: 13 मार्च, 2002  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।
31. नाम: अल हरामेन: दी नीदरलैंड शाखा  
उर्फ: स्टिचटिंग अल हरामेन मानवीय सहायता  
पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं।  
पता: जान हांजेनस्ट्रार 114, 1053 एस वी, एम्सटर्डम, नीदरलैंड  
सूचीबद्ध: 6 जुलाई, 2004  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।
32. नाम: अल हरामेन फाउन्डेशन (केन्या)  
उर्फ: उपलब्ध नहीं।  
पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं।  
पता: (क) नैरोबी, केन्या, (ख) गरिस्सा, केन्या (ग) दादाब, केन्या

- सूचीबद्ध:** 26 जनवरी, 2004  
**अन्य सूचना:** उपलब्ध नहीं ।
33. **नाम:** अल हरामेन फाउन्डेशन (तंजानियाँ)  
**उर्फ:** उपलब्ध नहीं ।  
**पूर्व में नाम:** उपलब्ध नहीं ।  
**पता:** (क) पी ओ बॉक्स 3616, दास-एस-सलाम, तंजानियाँ  
 (ख) टांगा (ग) सिंगिडा  
**सूचीबद्ध:** 26 जनवरी, 2004  
**अन्य सूचना:** उपलब्ध नहीं ।
34. **नाम:** अल इत्तिहाद अल इस्लामियाँ / आई आई ए आई  
**उर्फ:** उपलब्ध नहीं ।  
**पूर्व में नाम:** उपलब्ध नहीं ।  
**पता:** उपलब्ध नहीं  
**सूचीबद्ध:** 6.10.2001  
**अन्य सूचना:** उपलब्ध नहीं ।
35. **नाम:** अल जिहाद / मिस्त्र इस्लामिक मूवमेंट  
**उर्फ:** (क) मिस्त्र अल जिहाद (ख) मिस्त्र इस्लामी जिहाद (ग) जिहाद ग्रुप (घ) न्यू जिहाद  
**पूर्व में नाम:** उपलब्ध नहीं ।  
**पता:** उपलब्ध नहीं  
**सूचीबद्ध:** 6.10.2001  
**अन्य सूचना:** उपलब्ध नहीं ।
36. **नाम:** अल नूर हनी प्रेस शोप्स  
**उर्फ:** अल नूर हनी सेंटर  
**पूर्व में नाम:** उपलब्ध नहीं ।  
**पता:** साना, यमन  
**सूचीबद्ध:** 17.10.2001  
**अन्य सूचना:** उपलब्ध नहीं ।
37. **नाम:** अल कायदा/इस्लामी आर्मी  
**अन्य नाम:** (क) "द बेस" (ख) अल कायदा (ग) इस्लामिक सैल्वेशन फाउन्डेशन (घ) द ग्रुप फार द प्रिजर्वेशन ऑफ द होली साइट्स (ड.) द इस्लामिक आर्मी फार द लिबरेशन ऑफ होली प्लेसिज (च) द वर्ल्ड इस्लामिक फ्रण्ट फार जिहाद अगेन्स्ट ज्यूज एण्ड क्रूसेडर्स (छ) ओसामा बिन लादेन नेटवर्क (ज) ओसामा बिन लादेन आर्गेनईजेशन ।  
**पूर्व नाम:** उपलब्ध नहीं ।  
**पता:** उपलब्ध नहीं । दिनांक 6 अक्टूबर 2001 को सूचीगत ।  
**अन्य सूचना:** उपलब्ध नहीं ।
38. **नाम:** अल रशीद ट्रस्ट  
**अन्य नाम:** अल रशीद ट्रस्ट ।  
**पूर्व नाम:** उपलब्ध नहीं ।  
**पता:** (क) किताब घर, नजीमाबाद 4, दहगेल-इफ्ताह, कराची, पाकिस्तान (ख) जामिया माजिद, सुलालमान पार्क, मेलजियम पुरा, लाहौर, पाकिस्तान (ग) कार्यालय धरबी मुनीन, खबैर बैंक के सामने, अबोटाबाद रोड मनसेहरा, पाकिस्तान (घ) कार्यालय धरबी मुनीन जेउ आर ब्रदर्स, कछेरी रोड, चौक यादगार, पेशावर, पाकिस्तान (ड.) कार्यालय धरबी मुनीन, कमरा सं0 3, मोती प्लाजा, लियाकत बाग के निकट, मुरी रोड, रावलपिण्डी, पाकिस्तान (च) कार्यालय धरबी मुनीन, सबसे ऊपर का तल, डा0 दवा खान डेन्टल क्लीनिक सर्जन, मुख्य बक्सा, मिंगोरा, स्वात, पाकिस्तान । दिनांक 6 अक्टूबर, 2001 को सूचीगत  
**अन्य सूचना:** अफगानिस्तान, हरित, जलालाबाद, काबुल, कंधार, मजार-ए-शरीफ में गतिविधियाँ ।

- कोसोवो, चेचन्या में भी सक्रिय ।
39. नाम: अल शीफा, हनी प्रेस फार इण्डस्ट्री एवं कामर्स  
अन्य नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पूर्व नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पता: (क) पो0 बॉ0 सं0 8089, अल-हसाबाह, साना, यन (ख) गैस स्टेशन के साथ वाले पूजास्थल के निकट, जमाल स्ट्रीट, तय्यज, यमन (ग) अल-अरुध स्वैर, खूर मकसर, अदन, यमन (घ) अल-नस्त्र स्ट्रीट, दोहा कतर, दिनांक 17 अक्टूबर 2001 को सूचीगत ।  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
40. नाम: अंसार अल इस्लाम  
अन्य नाम: (क) डिवोटीज ऑफ इस्लाम, (ख) जुन्द अल इस्लाम (ग) सोल्जर्स ऑफ इस्लाम (घ) कुर्दिस्तान सर्पोर्टर्स ऑफ इस्लाम, (ङ.) सपोर्टर्स ऑफ इस्लाम इन कुर्दिस्तान (च) फालोअर्स आफ इस्लाम इन कुर्दिस्तान (ज) कुर्दिस्तान तालिबान (झ) सोल्जर्स ऑफ गॉड  
पूर्व नाम: उपलब्ध नहीं  
पता: उपलब्ध नहीं । 24 फरवरी 2003 को सूचीगत ।  
अन्य सूचना: अवस्थिति उत्तरपूर्वी ईराक का कुर्द नियंत्रित क्षेत्र
41. नाम: आर्म्ड इस्लामिक ग्रुप  
दूसरा नाम: अल जम्माह अल इस्लामिया अल मुसल्लाह (ख) जी.आई.ए. (ग) ग्रुपमेण्ट इस्लामिक आर्मी  
पूर्व नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पता: उपलब्ध नहीं । दिनांक 6 अक्टूबर 2001 को सूचीगत ।  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
42. नाम: असत ट्रस्ट रजिस्टर्ड  
दूसरा नाम: उपलब्ध नहीं  
पूर्व नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पता: आल्तेनबाख 8, 9490 वादूज एफ । लीखेनरटाइन । 9 नवम्बर 2001 को सूचीगत  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
43. नाम: अस्बल अल अंसार  
दूसरा नाम: उपलब्ध नहीं  
पूर्व नाम: उपलब्ध नहीं । दिनांक 6 अक्टूबर 2001 को सूचीगत  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
44. नाम: बॉ तकवा फार कामर्स एण्ड रियल ईस्टेट कंपनी लिमिटेड  
दूसरा नाम: उपलब्ध नहीं  
पूर्व नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पता: (क) वादूज, लीखेनशहाइन (ख) पूर्व नाम मार्फत आश्टाट ट्रस्ट रजिस्टर्ड ।  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
45. नाम: बैंक अल तकवा लिमिटेड  
दूसरा नाम: (क) अल तकवा बैंक (ख) बैंक अल तकवा ।  
पूर्व नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पता: (क) पो0बॉ0 नं. 4877, नसाऊ, बहामास (ख) मार्फत आर्थर डी0 हना एण्ड कंपनी (ग) 10 देविया स्ट्रीट, नसाऊ बहामास । दिनांक 9 नवम्बर 2001 को सूचीगत ।  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
46. नाम: बाराकात बोस्टन  
दूसरा नाम: उपलब्ध नहीं  
पूर्व नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पता: 266 निपोनसेट एवेन्यू, एपार्टमेंट 43, डारचेस्टर, मैसाचुसैट्स 02122-3224, 9 नवम्बर 2001 को सूचीगत ।  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।

47. नाम: बाराकात कंस्ट्रक्शन कंपनी  
दूसरा नाम: उपलब्ध नहीं  
पूर्व नाम: उपलब्ध नहीं।  
पता: पी0बा0 3313, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात (ख) मोगादीशु सोमालिया, 9 नवम्बर 2001 को सूचीगत।  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।
48. नाम: बाराकात ग्रुप ऑफ कंपनीज  
दूसरा नाम: उपलब्ध नहीं  
पूर्व नाम: उपलब्ध नहीं।  
पता: पी0बा0 3313, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात (ख) मोगादीशु सोमालिया, 9 नवम्बर 2001 को सूचीगत।  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।
49. नाम : बाराकात इण्टरनैशनल  
दूसरा नाम : उपलब्ध नहीं।  
पूर्व नाम : उपलब्ध नहीं।  
पता : हल्लाबीबाकन 15,70 स्पांगा, 9 नवम्बर, 2001 को सूचीगत।  
अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं।
50. नाम : बाराकात इण्टरनैशनल फाउन्डेशन  
दूसरा नाम : उपलब्ध नहीं।  
पूर्व नाम : उपलब्ध नहीं।  
पता : (क) बॉक्स 4036, स्पांगा, स्टाकहोम, स्वीडन (ख) रिंकीबीटॉरगेट 1,04 स्पांगा, स्वीडन 9 नवम्बर, 2001 को सूचीगत।  
अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं।
51. नाम : बाराकात इण्टरनैशनल इंक0  
दूसरा नाम : उपलब्ध नहीं।  
पूर्व नाम : उपलब्ध नहीं।  
पता : 1929 साउथ 5वीं स्ट्रीट, स्वीट 205 मिलियापोल्सि, मिनसोटा, दिनांक 9 नवम्बर, 2001 को सूचीगत।  
अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं।
52. नाम : बाराकात नार्थ अमेरिका इंक0  
दूसरा नाम : उपलब्ध नहीं।  
पूर्व नाम : उपलब्ध नहीं।  
पता : (क) 925 वाशिंगटन स्ट्रीट डारवेस्टर, मैसाचुसैट्स (ख) 2019 बैंक स्ट्रीट, ओटावा, ओंटारियो, कनाडा, 9 नवम्बर, 2001 को सूचीगत।  
अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं।
53. नाम : बाराकात रेड सी कम्यूनिकेशन्स  
दूसरा नाम : उपलब्ध नहीं।  
पूर्व नाम : उपलब्ध नहीं। (क) बोसासो, सोमालिया। (ख) नाखिल, सोमालिया, (ग) हूर्युले, सोमालिया (घ) रैक्समो, सोमालिया (ङ) टाइसिस, सोमालिया (च) कोडार सोमालिया (छ) नूकुर, सोमालिया (ज) बूबारग, सोमालिया (झ) गूफूरे, सोमालिया, (ञ) क्जुक्यूले, सोमालिया, (ट) आला आमीन, सोमालिया, (ठ) ग्यूरिये, सोमालिया (ड) नाजक्स, सोमालिया, (ढ) कराफात, सोमालिया, 9 नवम्बर, 2001 को सूचीगत।  
अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं।
54. नाम : बाराकात टेलीकम्यूनिकेशन्स कं0 सोमालिया लि0  
दूसरा नाम : उपलब्ध नहीं।  
पूर्व में नाम : उपलब्ध नहीं।  
पता : पी0ओ0 बॉक्स 3313, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, दिनांक 9 नवम्बर,

2001 को सूचीगत ।

- अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं ।
55. नाम : बारोम वायर ट्रांसफर कंपनी  
दूसरा नाम : उपलब्ध नहीं ।  
पूर्व में नाम : उपलब्ध नहीं ।  
पता : 4419 साउथ ब्रैडन स्ट्रीट, सिएटल, वाशिंगटन, दिनांक 9 नवम्बर, 2001 को सूचीगत ।  
अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं ।
56. नाम : बाराकात बैंक्स एण्ड रेमिटैसिस  
दूसरा नाम : (क) बराकात बैंक ऑफ सोमोलिया (ख) बराका बैंक ऑफ सोमालिया  
पूर्व में नाम : उपलब्ध नहीं ।  
पता : (क)मोगादीशू, सोमालिया (ख)दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, दिनांक 9 नवम्बर 2001 को सूचीगत । (26 नवम्बर, 2004 को संशोधित)  
अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं ।
57. नाम : बाराकात कंप्यूटर कंसल्टिंग ( बी. सी. सी.)  
दूसरा नाम : उपलब्ध नहीं ।  
पूर्व में नाम : उपलब्ध नहीं ।  
पता : मोगादीशू ।  
अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं ।
58. नाम : बाराकात कंसल्टिंग ग्रुप (बी. सी. जी.)  
दूसरा नाम : उपलब्ध नहीं  
पूर्व नाम : उपलब्ध नहीं  
पता : मोगादिशू, सोमालिया, दिनांक 9 नवम्बर, 2001 को सूचीगत ।  
अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं ।
59. नाम : बाराकात ग्लोबल टेलीफोन कंपनी  
दूसरा नाम : उपलब्ध नहीं  
पूर्व में नाम : उपलब्ध नहीं  
पता : (क) मोगादिशू, सोमालिया (ख)दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, दिनांक 9 नवम्बर, 2001 को सूचीगत ।  
अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं ।
60. नाम : बाराकात इंटरनेशनल कंपनीज (बीको)  
दूसरा नाम : उपलब्ध नहीं ।  
पूर्व में नाम : उपलब्ध नहीं ।  
पता : (क) मोगादिशू, सोमालिया (ख)दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, दिनांक 9 नवम्बर, 2001 को सूचीगत ।  
अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं ।
61. नाम : बाराकात पोस्टाट एक्सप्रेस ( बी. सी. सी.)  
दूसरा नाम : उपलब्ध नहीं ।  
पूर्व में नाम : उपलब्ध नहीं ।  
पता : मोगादीशू, सोमालिया, 9 नवम्बर, 2001 को सूचीगत ।  
अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं ।
62. नाम : बाराकात रिफ्रेशमेंट कंपनी  
दूसरा नाम : उपलब्ध नहीं ।  
पूर्व नाम : उपलब्ध नहीं ।  
पता : (क) मोगादिशू, सोमालिया (ख)दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, दिनांक 9 नवम्बर, 2001 को सूचीगत ।  
अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं ।

63. नाम : बाराकात टेलीकम्यूनिकेशन्स कंपनी लि०  
दूसरा नाम : बीटेलको ।  
पूर्व में नाम : उपलब्ध नहीं  
पता : (क) बकरा मार्केट, दूर सलाम बिल्डिंग मोगादिशू, सोमालिया (ख) आखिरी बार ज्ञात पता द नीदरलैण्ड, दिनांक 9 नवम्बर, 2001 को सूचीगत ।  
अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं ।
64. नाम : बाराकात ट्रेडिंग कंपनी  
दूसरा नाम : उपलब्ध नहीं ।  
पूर्व में नाम : उपलब्ध नहीं ।  
पता : पो०बा० सं० 3313, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, दिनांक 9 नवम्बर, 2001 को सूचीगत ।  
अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं ।
65. नाम : बाराको ट्रेडिंग कंपनी (एलएलसी)  
दूसरा नाम : उपलब्ध नहीं ।  
पूर्व में नाम : उपलब्ध नहीं ।  
पता : पो०बा० सं० 3313, दुबई, संयुक्त अरब अमीरात, दिनांक 9 नवम्बर, 2001 को सूचीगत ।  
अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं ।
66. नाम : बेनीवोलेन्स इंटरनेशनल फाउन्डेशन  
दूसरा नाम : (क) अलबीर ऊल दवालिचा (ख) बी.आई.एफ. (ग) बी आई एफ यूएसए (घ) मजदूनारोडनिज ब्लागोटवोरीटेलनिल फांड ।  
पूर्व नाम : उपलब्ध नहीं ।  
पता : क) 8820 मोबाइल एवेन्यू, आईए, ओक लॉन, इलिनॉय, 60453, संयुक्त राज्य अमेरिका (ख) पो०बा० 548, वर्थ इलिनॉय, 60482, संयुक्त राज्य अमेरिका (ग) पूर्व अवस्थिति 9838, साउथ एवेन्यू, राबर्ट्स रोड, स्वीट 1 डब्ल्यू पलोस हिल्स, इलिनॉय, 60465, संयुक्त राज्य अमेरिका (घ) पूर्व अवस्थिति 20-24 ब्रैनफोर्ड प्लेस, स्वीट 705 नेवार्क, न्यू जर्सी, 07102, संयुक्त राज्य अमेरिका (ड.) बशीर सफरोम्ल स्ट्रीट वाकू, अजरबैजान (च) सारायीवो (ज) बोस्निया हर्जगोविना (झ) जेनिका बोस्निया हर्जगोविना) ज्ञात अंतिम पता 3 किंग स्ट्रीट, साउथ वाटरलू, आंटारियो एन 2 जे 3 जेड 6 कनाडा (ट) ज्ञात अंतिम पता पी ओ बाक्स 1508 स्टेशन, मिस्सीसिगा, आंटारियो, एल 4 वाय 4 जी जेड कनाडा (ठ) ज्ञात अंतिम पता 2462 कॉथा रोड 203 मिस्सी सडगा आंटारियो एल 5 ए 3 पी जेड कनाडा (ड) ओटावा, कनाडा (ढ) ग्राजनी, चेचन्या (न) 91 पाइहोंगोऊ, लेनजोऊ गन्सू, चीन 730000, (प) हराटोव 30,41000 जगरेब, क्रोएशिया (फ) मकच्छला, दाघेस्तान (ब) डूइसी, जार्जिया (भ) ट्बीलिसी, जार्जिया (म) नजरान, इंगूशेटिया (य) बुर्गेमीस्टर केसेनसिंगल 40, मासट्रिक्ट नीदरलैण्ड (र) स्टिचिंग बेपीबोर्लेस इंटरनेशनल नीदरलैण्ड (दूसरा नाम बेनीवोलेन्स इंटरनेशनल नीदरलैण्ड, दूसरा नाम बिन राडेबोर्गे 14 बी, 6228 सी बी मासट्रिक्ट, नीदरलैण्ड चैम्बर ऑफ कार्मस, पंजीकरण 14063277 मकान 111, प्रथम तल, स्ट्रीट 64, एफ 1013, इस्लामाबाद, पाकिस्तान) पो०बा० 1055, पेशावर, पाकिस्तान अजोवस्काया 6 किमी० 3 कार्यालय, 401 मास्को रूप 113149, उलित्सा ओक्त्याबरिस्काया, डॉम० 89 मास्को, रूस 127521 य पो०ओ० 1937 खारतूम, सूडान पीओ 7600, जद्दाह 211472, सऊदी अरब पीओ 10845, रियाद 11442, सऊदी अरब दुशानबे ताजिकिस्तान यूनाइटेड किंगडम अफगानिस्तान, बंगलादेश, गाजापट्टी, बोस्निया हर्जगोविना, यमन, 21 नवम्बर, 2002 को सूचीगत 9 नवम्बर, 2001 को सूचीगत ।  
अन्य सूचना : कर्मचारी पहचान सं० (संयुक्त राष्ट्र) 363823186 ।
67. नाम : बेनेवोलेन्स इंटरनेशनल फण्ड  
दूसरा नाम : बेनेवोलेन्स इंटरनेशनल फण्ड ।  
पूर्व में नाम : उपलब्ध नहीं  
पता : (ज्ञात पिछला पता) 2465 कॉथा रोड, यूनिट 203, मिस्सीसुआगा, ओन्टारियो,

- एल 5 ए 3 पी 2 कनाडा (ख) ज्ञात पिछला पता पीओ बॉक्स 1508, स्टेशन बी, मिस्सीसुआगा, ओन्टारियो, एल 4 वाई 4 जी 2 कनाडा (ग) ज्ञात पिछला पता पी ओ बॉक्स 40015,75 किंग स्ट्रीट साउथ, वरटीलू, ओन्टारियो, एन 2 जे 4 वी 1 कनाडा (घ) ज्ञात पिछला पता 92 किंग स्ट्रीट, 201 वाटरलू, ओन्टारियो एन 2 जे 1 पी 5 कनाडा 21 नवंबर, 2002 को सूचीगत  
अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं ।
68. नाम : बोसाका आईडीयलना फ्यूचुरा  
दूसरा नाम : (क) बीआईएफ बेस्निया (ख) बोस्नियन आईडीएल फ्यूचर  
पूर्व में नाम : उपलब्ध नहीं ।  
पता : (क) साल्के लैगमडिज्जे 12,71000 साराथिवो, बोस्निया हर्जगोविना (ग) सेहिदस्का स्ट्रीट ब्रेजा बोस्निया हर्जगोविना (घ) कनाल, 1,7200 जेनिका, बोस्निया हर्जगोविना हमजे सिलेंके 35, लिडत्जा लिडत्जा साराथिवो, बोस्निया हर्जगोविना 21 नवंबर, 2002 को सूचीगत ।  
अन्य सूचना : बी ई सी एफ चैरिटेबल एजुकेशन सेंटर के तौर पर व्यापार रत वेनेवोलेंस एजुकेशनल सेंटर ।
69. नाम : जमात हुमात दावा सलफिया (डी एच डी एस)  
दूसरा नाम : अल अहौल ।  
पूर्व में नाम : उपलब्ध नहीं ।  
पता : उपलब्ध नहीं । 11 नवम्बर, 2003 को सूचीगत । (26 नवंबर, 2004 को संशोधित)  
अन्य सूचना : 1996 में जब अफगानिस्तानी नायक कहा बेंचिखा लारबी ने जीआईए के प्रमुख का विरोध करने का निर्णय लिया तब टूट के बाद जीआईए की एक शाखा बनी ।
70. नाम : द ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक मूवमेंट (क) द ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी (ख) द ईस्टर्न तुर्किस्तान इस्लामिक पार्टी ऑफ अल्लाह  
दूसरा नाम : अल अहौल ।  
पूर्व नाम : उपलब्ध नहीं ।  
पता : उपलब्ध नहीं । 11 सितम्बर, 2002 को सूचीगत ।  
अन्य सूचना : उपलब्ध नहीं ।
71. नाम : ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन  
दूसरा नाम : (क) फाउंडेशन सिक्वोर्स मॉडियटल (एफएसएम) (ख) सिक्वोर्स मॉडियल डि फ्रांस (सिमॉडे) (ग) फाउंडेशन सिक्वोर मॉडियन बेलिगिक ए एस बी आई (घ) फाउंडेशन मॉडियनल बी जेड डब्ल्यू (ड.) एफ एस एम (च) स्टिपिंग वेरेलधुल्य बेल्जी, वी जेड डब्ल्यू (छ) फाउंडेशन सिक्वोर्स मॉडियल कोसोवा (ज) फाउंडेशन सिक्वोर्स मॉडियल “ वल्ड रिलीफडु  
पूर्व में नाम : उपलब्ध नहीं ।  
पता : (क) 9935 साउथ 76 वी एवेन्यू यूनिट 1, ब्रिजव्यू, इलिनॉयल 60455, यू एस ए (ख) पी ओ बाक्स 1406, ब्रिजव्यू इलिनॉयल 6055 यू एस ए (ग) 49 यू डु लजारेट, 67100 स्टेसबोर्ग फ्रांस (घ) वातजेस्सट्राट 29, 2580 पुट्टे बेलजियम (ड.) रयू देस बातावेस 69, 1040 ऐटअबीक 2 ब्रूसेल्स, बेल्जियम (च) पी ओ बाक्स 6,1040 ऐटटबीक 2, ब्रूसेल्स, बेल्जियम (छ) मुला मुस्तफे बसेसकिजे स्ट्रीट नं० 72, साराथिवो बोस्निया (ज) पुट मुलदिह मुसलिमाना स्अट 30 ए साराथिवो, बोस्निया (झ) आरआर स्केन्द्रर ब्यू 76 लग्जा सेफा, उजाकेवा, कोसोवो (ट) रुगा ए कावाजेस बिल्डिंग नं० 3 अपार्टमेंट नं० 61 पी ओ बाक्स 2892 तिराना, अलबानिया (ठ) हाउस 367 स्ट्रीट नं० 54 सेक्टर एफ 11/4 इस्लामाबाद, पाकिस्तान (ड.) सराय कैंड नं० 37 बी ब्लॉक, येसिलयुर्त अपार्टमेंट 2/4, सिरीनेवलेर टर्की, 22 अक्टूबर, 2002 को सूचीगत । (26 नवम्बर, 2004 और 20 दिसंबर, 2005 को संशोधित)  
अन्य सूचना : अन्य विदेशी अफगानिस्तान, अजरबैजान, बंगलादेश, चेचन्या रूस, चीन, ऐरिट्री, इथियोपिया, ज्योर्जिया भारत, इंगुशेतिया रूस, ईराक जोर्डन, कश्मीर, लेबनान, वेस्ट बैंक एवं गाजा, सिएरालियोन सोमालिया एवं सीरिया । संयुक्त राज्य कर्मचारी पहचान संख्या

- 36-3804626 वी ए टी नं० बी ई 454, 419, 759 बेल्जियम का पता गलत : ये 1998 से लुकरातिफ को छोड़कर पुत्ते एट ब्रूसेल्स डी आई एसोसिएशन के पते हैं ।
72. नाम : गल्फ सेंटर एस आर एल  
दूसरा नाम : उपलब्ध नहीं ।  
पूर्व में नाम : उपलब्ध नहीं ।  
पता : कोरेसो सेमपियोन 69, 20149 मिलान इटली, 3 सितंबर 2002 को सूचीगत ।  
अन्य सूचना: फिस्कल कोड 07341170152 वी टी नं. आई टी 07341170152
73. नाम: हरकत उल मुजाहिदीन / एच यू एम  
दूसरा नाम: क) अल फरान, ख) अल हदीद, ग) अल हदीथ, (घ) हरकत उल अंसार, (ङ.) एच यू ए 1 च हरकत उल मुजाहिदीन अल अहौल  
पूर्व नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पता: उपलब्ध नहीं । 6 अक्टूबर, 2001 को सूचीगत ।  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
74. नाम: हयात उत्त्या  
दूसरा नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पूर्व नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पता: मोगादिशु, सोमालिया । 9 नवंबर, 2001 को सूचीगत ।  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
75. नाम: होटल नास्को  
उर्फ: नास्को वाणिज्य आवास केन्द्र एस ए एस डी नसरेदीन अहमतव इदरिस ई सी  
पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पता: कोरसो सेम्पिओन 69, 20149 मिलान, इटली  
सूचीबद्ध: 3 सितम्बर, 2002 (25 जुलाई, 2005 को संशोधित)  
अन्य सूचना: फिस्कल कोड: 01406430155, बी ए टी सं-आई टी-01406430155
76. नाम: इस्लामिक आर्मी ऑफ अदन  
दूसरा नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पता: उपलब्ध नहीं । 6 अक्टूबर, 2001 को सूचीगत ।  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
77. नाम: इस्लामिक सेंटर ब्रिगेड (आई आई बी)  
दूसरा नाम: क) द इस्लामिक पीसकीपिंग ब्रिगेड, ख) द इस्लामिक पीस कीपिंग आर्मी, ग) द स्पेशल ब्रिगेड, घ) इस्लामिक पीस कीपिंग बटालियन, (ङ.) इंटरनेशनल बटालियन, च) इस्लामिक पीस कीपिंग स्पेशल ब्रिगेड  
पूर्व नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पता: उपलब्ध नहीं । 4 मार्च, 2003 को सूचीगत ।  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
78. नाम: इस्लामिक जिहाद ग्रुप  
उर्फ: (क) जमात-अल-जिहाद (ख) लीबियाई सोसायटी (ग) कजाक जमात (घ) जमात मोजाहिदीन (ङ.) जमियत (च) जमियत अल जिहाद अल इस्लामी (छ) जहामत मोदझाखेदोव (ज) उजबेकिस्तान इस्लामिक जिहाद गुट (झ) अल-जिहाद अल-इस्लामी  
पूर्व नाम: उपलब्ध नहीं  
पता: उपलब्ध नहीं ।  
सूचीबद्ध: 1 जून, 2005  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
79. नाम: इस्लामिक मूवमेंट ऑफ उजबेकिस्तान  
दूसरा नाम: आई एम यू उपलब्ध नहीं ।  
पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।



- पता: उपलब्ध नहीं। 6 अक्टूबर, 2001 को सूचीगत।  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।
80. नाम: जैश ए मोहम्मद  
 दूसरा नाम: आर्मी ऑफ मोहम्मद  
 पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं।  
 पता: पाकिस्तान 17 अक्टूबर, 2001 को सूचीगत।  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।
81. नाम: जमात अल-तावहिद वाल जिहाद (जे टी जे)  
 उर्फ: (क) अल जरकावी नेटवर्क (ख) अल तायहिद (ग) मोनोथीज्म एण्ड जिहाद ग्रुप (घ) दो नदियों के देश में जिहाद कायदा (ड.) दो नदियों के देश में जिहाद अल कायदा (च) दो नदियों के देश में जिहाद के आधार का संगठन (छ) जिहाद का संगठन/आधार दो नदियों का देश (ज) जिहाद का संगठन आधार/मेसोपोटामिया (झ) तंजीम कायदात अल जिहाद फि बिलाद अल रफीदयन (ञ) तंजीम कायदात अल जिहाद/बिलाद अल रफीदनी  
 पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं।  
 पता: उपलब्ध नहीं।  
 सूचीबद्ध: 18 अक्टूबर, 2004 (2 दिसम्बर, 2004 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।
82. नाम: जामिया तावुन अल इस्लामिया  
 दूसरा नाम: (क) 'सोसायटी आफ इस्लामिक कोआपरेशन।  
 (ख) जमाएते अल तावुन अल इस्लामिया (ग) जिट।  
 पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं।  
 पता: कंधार सिटी, अफगानिस्तान 17 अक्टूबर, 2001 को सूचीगत।  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।
83. नाम: जमाह इस्लामिया  
 दूसरा नाम: (क) जमाह इस्लामिया (ख) जमाह इस्लामिया (ग) जगाह इस्लामियाह (घ) जमाह इस्लामियाह।  
 पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं।  
 पता: उपलब्ध नहीं। 25 अक्टूबर, 2002 को सूचीगत।  
 अन्य सूचना: दक्षिण पूर्वी एशिया में स्व. अब्दुल्लाह संगकर द्वारा आरंभ किया गया नेटवर्क
84. नाम: लजनत अल दावा अल इस्लामिया (एलडीआई)  
 दूसरा नाम: उपलब्ध नहीं।  
 पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं।  
 पता: उपलब्ध नहीं। 20 फरवरी, 2003 को सूचीगत।  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।
85. नाम: लश्कर-ए-तैयब्बा  
 उर्फ: (क) लश्कर-ए-तोयबा (ख) अल मंसूरियन (ग) आर्मी ऑफ दी प्योर (घ) आर्मी ऑफ दी राइचुअस (ड.) आर्मी ऑफ दी प्योर एण्ड राइचुअस (च) पाशवान-ए-कश्मीर (छ) पाशवान-ए अहले हदीथ (ज) पाशवान-ए-अहले अदिस (ट) लश्कर-ए-तैयब्बा (ठ) एल ई टी  
 पूर्व नाम: उपलब्ध नहीं।  
 पता: उपलब्ध नहीं।  
 सूचीबद्ध: 2 मई, 2005 (3 नवम्बर, 2005 को संशोधित)  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।
86. नाम: लश्कर ए झांगवी (एल जे)  
 दूसरा नाम: उपलब्ध नहीं।  
 पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं।  
 पता: उपलब्ध नहीं। 03 फरवरी, 2002 को सूचीगत।

- अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
87. नाम: लीबियाई इस्लामिक फाइटिंग ग्रुप  
दूसरा नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पता: उपलब्ध नहीं । 6 अक्टूबर, 2001 को सूचीगत ।  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
88. नाम: मखतेब अल खिदामत/अल किफाह  
दूसरा नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पता: उपलब्ध नहीं । 8 अक्टूबर, 2001 को सूचीगत ।  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
89. नाम: मामुन दरकाजनली इम्पोर्ट-एक्सपोर्ट कंपनी  
दूसरा नाम: क) दरकाजनली कंपनी ख) दरकालजनी एक्सपोर्ट इंपोर्ट सोन्डरपोस्टन  
पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पता: उल्लेनहॉर्स्टरवेग 3422 हेमबर्ग जर्मनी, 6 अक्टूबर 2001 को सूचीगत ।  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
90. नाम: मीडोवबुक इन्वेस्टमेंट लि0  
उर्फ: उपलब्ध नहीं ।  
पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पता: 44 अपर बेलग्रेव रोड, बिलफ्टॉन, ब्रिस्टल, बी एस 82 न एन, यू के  
सूचीबद्ध: 7 फरवरी, 2006  
अन्य सूचना: पंजीकरण संख्या: 05059698
91. नाम: मिगा मलेशिया स्विस गल्फ एंड अफ्रीकन चैम्बर  
दूसरा नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पूर्व में नाम: क) गोल्फ ऑफिस एसोसिएशन पर लो स्वीलुप्पो कंयूनिकेशन ई दूरिस, ख)  
फरा एर्ल स्टाटि अरबी डेल गोल्फो ई ला स्विजेरा  
पता: विया मैगियो 21, 6900 लुगानो टी आई स्विटजरलैंड 3 सितम्बर, 2002 को सूचीगत ।  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
92. नाम: मोरोक्कन इस्लामिक कोम्बेटेंट ग्रुप  
दूसरा नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पता: उपलब्ध नहीं । 10 अक्टूबर, 2002 को सूचीगत ।  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
93. नाम: मूवमेंट फॉर रिफार्म इन अरेबिया  
उर्फ: (क) मूवमेंट फॉर इस्लामिक रिफार्म इन अरेबिया (ख) एम आई आर ए (ग) अल  
इस्लाह (सुधार) (घ) एम आर ए (ड.) अल-हराकत अल इस्लामियाँ लिल-इस्लाह (च)  
इस्लामिक मूवमेंटफार रिफार्म (छ) मूवमेंट फॉर (इस्लामिक) रिफार्म इन अरेबिया (ज) मूवमेंट  
फार रिफार्म इन अरेबिया लि0  
पता: बी एम बाक्स: एम आई आर ए, लंदन डब्ल्यू सी 1 एन 3 न, यू के, वैकल्पिक पता:  
साफी सूइट, ई बी सी हाउस, टाउनसम लेन, लंदन, एन डब्ल्यू 98 एल एल, यू के  
सूचीबद्ध: 15 जुलाई, 2005  
अन्य सूचना: ई मेल पता: [info@islah-org](mailto:info@islah-org), टेलीफोन: 02084520303  
फैक्स: 02084520808, यू के कंपनी नं. 03834450.
94. नाम: नाडा इंटरनेशनल एन्सटाल्ट  
दूसरा नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पता: क) वडूज लीख्टेनश्टाइन ख) फोरमरली मार्फत असल ट्रस्ट रजिस्टर्ड 3 सितंबर, 2002

- को सूचीगत ।  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
95. नाम: नाडा मैनेजमेंट आर्गेनाइजेशन एस ए  
दूसरा नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पूर्व में नाम: अल तकवा मैनेजमेंट आर्गेनाइजेशन एस ए  
पता: वियाले स्टिफानो फ्रैनसिनी 22 सी एच 6900 लुगानों टि स्विटजरलैंड 9 नवम्बर, 2001 को सूचीगत (26 नवम्बर, 2004 को संशोधित)  
अन्य सूचना: समाप्त और कामर्सियल रजिस्ट्री से हटाया गया ।
96. नाम: नैस्को नसीरुद्दीन होल्डिंग ए एस  
दूसरा नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पता: जेमीन कैंट 219 देमिरहाने कडेस्सी, जेयटीनबुर्नो इस्तनबुल तुर्की अंतिम पता, तुर्किश ट्रेजरी के विदेशी निवेश अभिलेखागार में  
सूचीबद्ध: गोबानसेस्मे सैन, जेंक ओस्मान सोक सं. 12, येनिबोसना, इस्तानबुल, तुर्की । 3 सितंबर, 2002 को सूचीगत (20 दिसम्बर 2005 को संशोधित)  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
97. नाम: नैस्कासर्विस एस आर एल  
दूसरा नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पता: कोर्सो सैम्पियोन 69,20149 मिलान, इटली  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
98. नाम: नैस्कोटेक्स एस ए  
दूसरा नाम: (क) इंडस्ट्री जेराले डि फिलाटुर एट टिस्सागे (ख) इन्डस्ट्री जेनराले डि टैक्सटाइल  
पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पता: क) के एम 7 रूट डि रबट बी पी 285, टेंगीयर्स मोरोक्को ख) के एम 7 रूट डि रबट टेंगीयर्स मोरोक्को 3 सितंबर 2002 को सूचीगत  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
99. नाम: नसरीद्दीन कंपनी नैस्को सा दि अहमद इदरिस नसरीद्दीन ईसी  
दूसरा नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पता: कोर्सो सैम्पियोन 69,20149 मिलान इटली 3 सितंबर 2002 को सूचीगत  
अन्य सूचना: फिस्कल कोड 0346404157 वी ए टी नं. आई टी 034644040157
100. नाम: नसरीद्दीन फाउंडेशन  
दूसरा नाम: नसरीद्दीन स्टीफटिंग  
पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पता: मार्फत रैचटा ट्रियुहैंड अन्सटाल्टख वडूज लीख्टेनस्टाइन 3 सितंबर 2002 को सूचीगत ।  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
101. नाम: नसरीद्दीन ग्रुप इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड  
दूसरा नाम: नसरीद्दीन ग्रुप इंटरनेशनल होल्डिंग लिमिटेड ।  
पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पता: क) मार्फत आर्थर डी हन्ना एंड कंपनी ख) 10 डीवाक्स स्ट्रीट नसैड, बाहामास ग) पो आ बाक्स एल 1977 नसैड बाहामास 3 सितंबर 2002 को सूचीगत  
अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
102. नाम: नसरीद्दीन इंटरनेशनल ग्रुप लिमिटेड होल्डिंग  
दूसरा नाम: नसरीद्दीन इंटरनेशनल ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड  
पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।

- पता: क) मार्फत रैचटा ट्रियुहेंड अंस्टाल्ट वड्ज लीख्टेनश्टाइन ।  
 ख) कोर्सो सैम्पियोन 69,20149 मिलान इटली 3 सितंबर 2002  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
103. नाम: ओजलाम प्रापर्टीज लि0  
 उर्फ: उपलब्ध नहीं ।  
 पूर्व नाम: उपलब्ध नहीं ।  
 पता: 88 स्मिथडाउन रोड, लिवरपुल, एल जे 4 जे क्यू यू के  
 सूचीबद्ध: 7 फरवरी, 2006  
 अन्य सूचना: पंजीकरण सं. 05258730
104. नाम: पारका ट्रेडिंग कंपनी  
 दूसरा नाम: उपलब्ध नहीं  
 पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।  
 पता: पो0 ओ0 बाक्स 3313 डीरा दुबई संयुक्त अरब अमीरात 9 नवंबर 2001 को सूचीगत ।  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
105. नाम: रबीता ट्रस्ट  
 दूसरा नाम: उपलब्ध नहीं  
 पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।  
 पता: क) कक्ष संख्या 9क, द्वितीय तल, वाहदात रोड, एजुकेशन टाउन, लाहौर पाकिस्तान ख)  
 वेरस कालोनी लाहौर पाकिस्तान, 17 अक्टूबर 2001 को सूचीगत  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
106. नाम: रेड सी बरकत कंपनी लिमि0  
 दूसरा नाम: उपलब्ध नहीं  
 पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।  
 पता: क) मोगादिशु सोमालिया ख) दुबई संयुक्त अरब अमीरात 9 नवंबर 2001 को सूचीगत ।  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
107. नाम: रिवाइवल आफ इस्लामिक हैरिटेज सोसाइटी (आर आई एच एस)  
 दूसरा नाम: (क) जमियात इहिया अल तुरथ अल इस्लामिया (ख) रिवाइवल आफ इस्लामिक  
 सोसाइटी हैरिटेज अप्रीकी महाद्वीप पर (ग) जामिया इहया अल तुरथ  
 पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।  
 पता: क) पाकिस्तान ख) अफगानिस्तान 11 जनवरी, 2002 को सूचीगत  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
108. नाम: रियादुस सलीखिन रिकानाइस्सैस एंड सेबोटेज बटालियन आफ् मारीटियर्स  
 आर एस आर एस बी सी एम  
 दूसरा नाम: (क) रियादुस सलीखिन रिकानाइस्सैस एंड सेबोटेज बटालियन (ख) रियाद अल  
 सालिहीन (ग) सेबोटेज एंड मिलिटरी सर्वेल्स ग्रुप आफ दि रियाद अल सालिहीन मारीटियर्स  
 (घ) फिरकत अल टखीब बा उल इसतील्ला अल अस्कारियाह ली शुद्धता रियाद अल  
 सालिहीन  
 पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।  
 पता: उपलब्ध नहीं । 4 मार्च, 2003 को सूचीगत  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
109. नाम: सलांफिस्ट ग्रुप फार काल एंड कांबेट जी एस पी सी  
 दूसरा नाम: ला ग्रुप सलांफिस्ट पोर ला प्रिडिक्शन एट ला कांबेट  
 पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।  
 पता: उपलब्ध नहीं । 6 अक्टूबर, 2001 को सूचीगत ।

- अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
110. नाम: सानाबेल रिलीफ एजेंसी लि०  
 उर्फ: (क) सानाबेल रिलीफ एजेंसी (ख) सानाबेल लिल-इगाथा (ग) एस आर ए (घ) सारा (ड.) अल-रहामा रिलीफ फाउन्डेशन लि०  
 पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।  
 पता: (क) 63 साउथ रोड, स्पार्कब्रुक, बर्मिंघम बी 11 ई एक्स, यू के (ख) 1011 स्टाकपोर्ट रोड, लेवेनसुल्में, मैनचेस्टर एम 9 2 टी बी, यू के (ग) पी ओ बाक्स 50, मैनचेस्टर एम 1925 पी, यू के (घ) 98 ग्रेशम रोड, मिडल्सब्रो, यूके (ड.) 54 अंसन रोड, लंदन, एन डब्ल्यू 2 6 ए डी, यू के  
 सूचीबद्ध: 7 फरवरी, 2006  
 अन्य सूचनाएँ- वेबसाइट <http://www.sanabel.org.uk>. E-mail: [info@sanabel.org.uk](mailto:info@sanabel.org.uk)  
 चैरिटी सं. 1083469, पंजीकरण सं. 3713110
111. नाम: सारा प्रोपर्टीज लि०  
 उर्फ: सारा प्रोपर्टीज  
 पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।  
 पता: (क) 104 स्मिथटाउन रोड, लिवरपुल, मर्ससाइड एल 7 4 जे क्यू, यू के (ख) 2 ए हाटिंग्टन रोड, लिवरपुल एल 8 ओ एस जी, यू के  
 सूचीबद्ध: 7 फरवरी, 2006  
 अल सूचना: वेबसाइट: <http://www.saraproperties.co.uk>.  
 पंजीकरण संख्या- 4636613
112. नाम: सोमाली इंटरनेशनल रिलीफ आर्गनाइजेशन  
 दूसरा नाम: उपलब्ध नहीं  
 पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।  
 पता: 1806 रिवरसाइतु एवेन्यू द्वितीय तल मिनेपोलिस मिनेसोटा 9 नवम्बर, 2001 को सूचीगत ।  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
113. नाम: सोमाली इंटरनेट कंपनी  
 दूसरा नाम: उपलब्ध नहीं  
 पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।  
 पता: मोगादिशु, सोमालिया 9 नवम्बर, 2001 को सूचीगत ।  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
114. नाम: सोमाली इंटरनेट एबी  
 दूसरा नाम: उपलब्ध नहीं  
 पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।  
 पता: हैलीबाइबैकन 15.70 स्पांगा, स्वीडन 9 नवम्बर, 2001 को सूचीगत ।  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
115. नाम: स्पेशल परपस इस्लामिक रेजिमेंट एस पी आई आर  
 दूसरा नाम: (क) दि इस्लामिक स्पेल परपस रेजिमेंट (ख) दि अल जिहाद फिसी सबिलिलाह स्पेशल इस्लामिक रेजिमेंट  
 पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।  
 पता: उपलब्ध नहीं । 4 मार्च, 2003 को सूचीगत  
 अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं ।
116. नाम: तैबाह इंटरनेशनल बोस्निया आफिसेज  
 उर्फ: (क) तैबाह इंटरनेशनल सहायता एजेंसी (ख) तैबाह इंटरनेशनल सहायता संघ (ग) अल-तैबाह, इंटरनेशनल (घ) तैबाह इंटरनेशनल सहायता संघ  
 पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।

पता: (क) एवडे माजलोविक 6, सेराजेवो, बिह (ख) 26 तबांसका स्ट्रीट, विसाको, बिह (ग) सं. 3 बेलिका सिलना उलिका, विसाको, बिह (घ) सं. 26 तहबांसका उलिका, साराजेवो, बिह

सूचीबद्ध: 11 मई, 2004

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।

117. नाम: तुनीसियन कॉम्बेटेंट ग्रुप

दूसरा नाम: (क) ग्रुप कॉम्बेटेंट तुनीसियन (ख) ग्रुप इस्लामिस्ते कॉम्बेटेंट ट्यूनीशियन  
पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं।

पता: 10 अक्टूबर, 2002 को सूचीगत (26 नवम्बर, 2004 को संशोधित)

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।

118. नाम: उम्माह तमीर ए नाद (यूटीएन)

दूसरा नाम: उपलब्ध नहीं।

पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं।

पता: (क) स्ट्रीट 13 वजीर अकबर खान काबुल अफगानिस्तान (ख) पाकिस्तान 24 दिसंबर, 2001

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।

119. नाम: वफा ह्यूमेनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन

दूसरा नाम: उपलब्ध नहीं।

पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं।

पता: हैलीबाइबैकन 15,70 स्पांगा, स्वीडन 9 नवम्बर 2001 को सूचीगत

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।

120. नाम: वाल्डेनबर्ग एजी

दूसरा नाम: उपलब्ध नहीं।

पूर्व में नाम: (क) अल तक्वा ट्रेड प्रापर्टी एंड इंडस्ट्री (ख) अल तक्वा ट्रेड प्रापर्टी एवं इंडस्ट्री लिमि0 (ग) अल तक्वा ट्रेड प्रापर्टी एंड इंडस्ट्री इस्टेब्लिशमेंट (घ) हिम्ममत इस्टेब्लिशमेंट

पता: क) मार्फत असत ट्रस्ट रजिस्टर्ड आल्टेनबाख 8, 9490 वाइज़ एफ एल लीखेनश्टाइन (ख) मार्फत पोसेरो 2, 22060 कैम्पियोन दि इटालिया इटली। 9 नवंबर, 2001 को सूचीगत (26 नवम्बर, 2004 को संशोधित)

अन्य सूचना: समाप्ति की स्थिति में।

121. नाम: यूस्सेफ एम नाडा

दूसरा नाम: उपलब्ध नहीं।

पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं।

पता: मार्फत रियास्क 4, सी एच 6911 कैम्पियोन दि इटालियन आई स्विटजरलैंड, 9 नवम्बर, 2001 को सूचीगत

अन्य सूचना: उपलब्ध नहीं।

122. नाम: यूस्सीफ एम नाडा एंड को0 जिस्सेलस्काफ्ट एम बी एच

दूसरा नाम: उपलब्ध नहीं।

पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं।

पता: केयर्टनर रिंग 22.5.22, 1010 वीयना, आस्ट्रिया 9 नवंबर, 2001 को सूचीगत (26 नवम्बर, 2002 को संशोधित)

अन्य सूचनाएं: अक्टूबर, 2002 में कंपनी समाप्त कर दी गयी, नवम्बर, 2002 में कंपनी रजिस्ट्री से हटा दिया गया। नवम्बर, 2002 में परिसर खाली कराया गया।

ड. व्यक्ति और इकाइयाँ जिन्हें 1267 समिति के निर्णय के अनुसरण में सूची से हटा दिया गया है।

तालिबान के व्यक्ति:

1. नाम: (1) रहमतुल्ला (2) सफी (3) उपलब्ध नहीं (4) उपलब्ध नहीं।

शीर्षक: सामान्य

पद: यूरोप में तालिबान का प्रतिनिधि

जन्म दिन: (क) 1948 के आसपास (ख) 21 मार्च, 1913

जन्म-स्थान: तगाब जिला, कपिसा प्रांत, अफगानिस्तान

अच्छा नाम: उपलब्ध नहीं।

बुरा नाम: उपलब्ध नहीं।

राष्ट्रीयता: अफगान

पासपोर्ट सं. उपलब्ध नहीं।

राष्ट्रीय पहचान सं. उपलब्ध नहीं।

सूची से हटाने की तारीख: 24 अक्टूबर, 2005.

### तालिबान की इकाइयाँ

1. नाम: द अफगानिस्तान बैंक  
दूसरा नाम: (क) बैंक ऑफ अफगानिस्तान (ख) सेंट्रल बैंक ऑफ अफगानिस्तान (ग) द अफगान स्टेट बैंक (घ) द अफगानिस्तान बैंक के कोई अन्य कार्यालय 11 जनवरी 2002 को सूची से हटाए गए (ङ.) 1267 समिति द्वारा लिए गए निर्णय के परिणाम पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं।  
पता: इबनी सीना वात, काबुल अफगानिस्तान।
2. नाम: सिटी बैंक में एरियाना अफगान एअरलाइन्स का खाता।  
दूसरा नाम: उपलब्ध नहीं।  
पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं।  
पता: नई दिल्ली, भारत। 15 जनवरी 2002 को सूची से हटाया गया।
3. नाम: पंजाब नेशनल बैंक में एरियाना अफगान एअरलाइन्स का खाता।  
दूसरा नाम: उपलब्ध नहीं।  
पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं।  
पता: नई दिल्ली, भारत। 15 जनवरी 2002 को सूची से हटाया गया।
4. नाम: एरियाना अफगान इअरलाइन्स  
दूसरा नाम: उपलब्ध नहीं।  
पूर्व में नाम: बख्तार अफगान इअरलाइन्स  
पता: (क) अफगान अथारिटी बिल्डिंग, पी ओ बाक्स 76 अंसारि वात, काबुल अफगानिस्तान (ख) एरियान इअरलाइन्स को कोई अन्य कार्यालय। 15 जनवरी 2002 को सूची से हटाया गया।
5. नाम: अफगान एक्सपोर्ट बैंक  
दूसरा नाम: उपलब्ध नहीं।  
पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं।  
पता: उपलब्ध नहीं। 24 जनवरी 2002 को सूची से हटाया गया।
6. नाम: एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ अफगानिस्तान (ए डी बी)  
दूसरा नाम: उपलब्ध नहीं।  
पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं।  
पता: युनाइटेड किंगडम: 24 जनवरी 2002 को सूची से हटाया गया।

7. नाम: बैंक मिल्ली अफगान  
दूसरा नाम: (क) अफगान नेशनल बैंक (ख) बैंक ई0 मिल्ली अफगान ।  
पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पता: (क) जदा इब्न सिना, काबुल, अफगानिस्तान (ख) बैंक मिल्ली अफगान के कोई अन्य कार्यालय । 24 जनवरी 2002 को सूची से हटाया गया ।
8. नाम: एक्सपोर्ट प्रमोशन बैंक ऑफ अफगानिस्तान  
दूसरा नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पूर्व में नाम: उपलब्ध नहीं । 24 जनवरी, 2002

### अल कायदा के व्यक्ति

1. नाम: (क) शादी (2) मोहम्मद (3) मुस्तफा (4) अब्दुल्ला  
शीर्षक: उपलब्ध नहीं  
पद: उपलब्ध नहीं ।  
जन्मतिथि: 27 सितम्बर, 1978  
जन्म स्थान: इरबिद, जोर्डन  
अच्छा नाम: (क) इमाद अब्देलहादी, जन्म-अल्हमजा में सितम्बर 1978 में (ख) शादी मोहम्मद मुस्तफा अब्दुल्ला, जन्म 27 सितम्बर 1978 को इरबिद में (ग) शादी अब्दुल्ला, जन्म 27 सितम्बर 1978 को इरबिद, जोर्डन में (घ) शादी अब्दुल्ला, जन्म 27 सितम्बर, 1978 को इरबिद में (ड.) इमाद अब्देलखादी, जन्म 27 सितम्बर, 1978 को अथामसे में (घ) जिदान इमाद अब्देलहादी, जन्म, 27 सितम्बर 1978 को अलहमजा में ।  
बुरा नाम: (क) बेल्जियम में शादी मोहम्मद मुस्तफा हसन, जन्म 27 सितम्बर 1978 को बेजे इराक में, पता: ख डे पेवी 42, 1000 ब्रसल्स, बेल्जियम (ख) जिदान (ग) जैदान (घ) अल हट (अंग्रेजी: दी शार्क) (ड.) इमाद अल सितावी  
राष्ट्रीयता: फिलीस्तीनी मूल के जोर्डनी ।  
पासपोर्ट सं. (क) जोर्डनी पासपोर्ट सं. डी 862663, 10 अगस्त, 1993 को इरगिड जोर्डन से जारी (ख) जोर्डनी पासपोर्ट सं. एच 641183, इरगिड, जोर्डन में 17 अप्रैल 2002 को जारी (ग) जर्मन अंतराष्ट्रीय यात्रा दस्तावेज सं. 0770479, 16 फरवरी 1998 को डोटमैंड, जर्मनी में जारी  
राष्ट्रीय पहचान सं. उपलब्ध नहीं  
पता: दोषी सिद्ध होने के बाद जर्मनी में कैद  
सूची से हटाया गया: 23 दिसम्बर, 2004.  
अन्य सूचना: (क) पिता का नाम: मोहमेद अब्दुल्ला (ख) माता का नाम: जवाहर अब्दुल्ला नी अलमदानी
2. नाम: 1. अब्दी 2. अब्दुलाजीज 3. अली 4. उपलब्ध नहीं ।  
टाइटल: उपलब्ध नहीं ।  
पद: उपलब्ध नहीं ।  
गुणता रहित नाम: उपलब्ध नहीं ।  
राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं ।  
पासपोर्ट सं० उपलब्ध नहीं ।  
राष्ट्रीय पहचान सं. उपलब्ध नहीं ।  
पता: ड्रुबैंडवैगन 21, 17750 स्पांगा, स्वीडन । 26 अगस्त 2002 को सूची से हटाया गया ।
3. नाम: 1. अब्दीरिसाक 2. अदन 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं  
टाइटल: उपलब्ध नहीं ।



पद: उपलब्ध नहीं।

जन्म की तारीख: 01 जून 1968

जन्म स्थान: उपलब्ध नहीं।

गुणता वाला नाम: उपलब्ध नहीं।

गुणता रहित नाम: उपलब्ध नहीं।

राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं।

पासपोर्ट सं० उपलब्ध नहीं।

राष्ट्रीय पहचान सं. उपलब्ध नहीं।

पता: आकाशिंगिबाकन 8, 16367 स्पिंगा, स्वीडन। 26 अगस्त 2002 को सूची से हटाया गया।

4. नाम: (1) जैनाब (2) मन्सोर (3) फत्तोह (4) उपलब्ध नहीं।

शीर्षक: उपलब्ध नहीं।

पद: उपलब्ध नहीं।

जन्मतिथि: 7 मई 1933

जन्म स्थान: उपलब्ध नहीं।

अव्यय नाम: उपलब्ध नहीं।

बुरा नाम: उपलब्ध नहीं।

राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं।

पासपोर्ट सं. उपलब्ध नहीं।

राष्ट्रीय पहचान सं. उपलब्ध नहीं।

पता: ओबेरे अकाफितिनजेबेकेन 8, 16367, स्पिंगा, स्वीडन

सूची से हटाने की तारीख: 26 अगस्त 2002

5. नाम: (1) लीबान (2) हुसैन (3) उपलब्ध नहीं (4) उपलब्ध नहीं।

जन्म की तारीख: उपलब्ध नहीं।

जन्म का स्थान: उपलब्ध नहीं।

गुणता वाला नाम: उपलब्ध नहीं।

गुणता रहित नाम: उपलब्ध नहीं।

राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं।

पासपोर्ट सं० उपलब्ध नहीं।

राष्ट्रीय पहचान सं. उपलब्ध नहीं।

पता: (क) 925 वाशिंगटन स्ट्रीट, डार्वेस्टर, मैसाचुसेट्स (ख) 2019 बैंक स्ट्रीट, आन्टेरियो,

ओटावा, कनाडा 18 जुलाई 2002 को सूची से निकाले गए।

नमः 1. गारुड 2. जाना 3. उपलब्ध नहीं 4. उपलब्ध नहीं।

पद: उपलब्ध नहीं।

पता: उपलब्ध नहीं।

जन्म की तारीख: 26.06.1974

जन्म का स्थान: उपलब्ध नहीं।

गुणता वाला नाम: उपलब्ध नहीं।

गुणता रहित नाम: उपलब्ध नहीं।

राष्ट्रीयता: उपलब्ध नहीं।

पासपोर्ट सं० उपलब्ध नहीं।

राष्ट्रीय पहचान सं. उपलब्ध नहीं।

पता: (क) 2100 ब्लूमिंगटन एवेन्यू, मिनियापोलिस, मिनेसोटा (ख) 1806 रिवरसाइड एवेन्यू,

दूसरा तल, मिनियापोलिस मिनेसोटा, दिनांक 26 अगस्त 2002 को सूची से हटाया गया।

7. नाम: (1) मोहम्मद (2) मंसौर (3) उपलब्ध नहीं (4) उपलब्ध नहीं।

शीर्षक: उपलब्ध नहीं

पद: उपलब्ध नहीं ।

जन्म की तारीख: 30 अगस्त, 1928

जन्म स्थान: (क) मिस्र (ख) संयुक्त अरब अमारात

अच्छा नाम: अल मंसूर, डा0 मोहम्मद

बुरा नाम: उपलब्ध नहीं ।

राष्ट्रीयता: स्विटजरलैंड

पासपोर्ट सं. उपलब्ध नहीं ।

राष्ट्रीय पहचान सं. उपलब्ध नहीं ।

पता: ओबेरे हेसेलिबाकस्ट्राट 20, 8700 कुएस्नाय, जेड एच, स्विटजरलैंड

सूची से हटाने की तारीख: 18 जनवरी, 2006

अल कायदा की इकाइयां :

1. नाम: आरान मनी वायर सर्विस इंक0  
दूसरा नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पूर्व नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पता: 1806 रिवरसाइड एवन्यू, द्वितीय तल, मिनियोपोलिस, मिनसोटा, 26 अगस्त 2002 को सूची से हटाया गया ।
2. नाम: बाराकत इन्टरप्राइज  
दूसरा नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पूर्व नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पता: 1762, हुई रोड, कोलम्बस, ओहायो । 26 अगस्त 2002 को सूची से हटाया गया ।
3. नाम: ग्लोबल सर्विस इण्टरनैशनल  
दूसरा नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पूर्व नाम: उपलब्ध नहीं ।  
पता: 1929 फिफ्थ स्ट्रीट, स्वीट 204 मिनियापोलिस, मिनसोटा । 26 अगस्त को सूची से हटाया गया ।

## MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

### ORDER

New Delhi, the 23rd March, 2006

**S.O. 375(E).**—WHEREAS the Security Council of the United Nations adopted Resolution 1373 (2001) (appended to this Order as Annexure) on 28<sup>th</sup> September, 2001 in its 4385<sup>th</sup> meeting, under Chapter VII of the Charter of the United Nations requiring all the States to take measures to combat international terrorism;

AND WHEREAS, Resolutions 1267, 1333, 1363, 1390, 1452, 1455, 1526, 1566 and 1617 of the Security Council of the United Nations require the States to take action against certain terrorists and terrorist organizations, to freeze the assets and other economic resources, to prevent the entry into or the transit through their territory, and to prevent the sale or transfer of arms and ammunitions to the individuals or entities listed in the Schedule;

AND WHEREAS, the Central Government considers it necessary and expedient to issue an Order under the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947) to implement the said Resolutions of the Security Council adopted under Chapter VII of the Charter of the United Nations to combat international terrorism;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by section 2 of the United Nations (Security Council) Act, 1947 (43 of 1947), the Central Government makes the following Order to give effect to the said Resolutions, namely:-

Short title and commencement	<p>1. (1) - This Order may be called the Prevention and Suppression of Terrorism (Implementation of Security Council Resolutions) Order, 2006.</p> <p>(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.</p>
Definitions	<p>2. In this Order, unless the context otherwise requires,-</p> <p>(a) "Resolution" means the Resolution 1373 (2001) of the Security Council of the United Nations adopted on 28<sup>th</sup> September, 2001 and includes Resolutions 1267, 1333, 1363, 1390, 1452, 1455, 1526, 1566 and 1617 adopted by the Security Council under Chapter VII of the Charter of the United Nations to combat international terrorism;</p> <p>(b) "Schedule" means the Schedule annexed to this Order, drawn on the basis of the determination made by the Security Council in their said Resolutions;</p> <p>(c) words and expressions used but not defined in this Order and defined in any law for the time being in force shall have the meanings respectively assigned to them in such laws.</p>
Provisions of the Order, to apply to certain terrorists and terrorist organisations	<p>3. The provisions of this Order, as amended from time to time, shall apply to terrorists and terrorist organisations falling within the purview of the said Resolutions and the Schedule.</p>
Powers of the Central Government to prevent and suppress the terrorist activities falling within the purview of Resolutions	<p>4. The Central Government, while exercising its powers under the relevant laws, shall take measures to,-</p> <p>(a) make comprehensive plans requiring the State Governments and other authorities to prepare a terrorist watch list in respect of individuals and entities listed in the Schedule and to take follow up measures in respect of activities stated hereunder, emphasizing the need to report back of the action taken in this regard so as to neutralize such terrorists and terrorist organizations;</p>

	<p>(b) prevent and suppress the financing of any terrorist act;</p> <p>(c) prohibit any wilful provisions or collection, directly or indirectly, of funds by any individual or entity whether in or outside India, with the intention to use such funds or having the knowledge that they shall be used to carry out any terrorist act;</p> <p>(d) freeze, seize or attach funds and other financial assets or economic resources, held by or on behalf of the individuals or entities listed in the Schedule;</p> <p>(e) prohibit any individual or entity from making any funds, financial assets or economic resources or financial or other related services available, directly or indirectly, for the benefit of individuals or entities listed in the Schedule;</p> <p>(f) prevent the entry into or the transit through India of individuals listed in the Schedule;</p> <p>(g) prevent any direct or indirect supply, sale and transfer, in or outside India, of arms and ammunition and other related materials to the individuals or entities listed in the Schedule;</p> <p>(h) prohibit and prevent any activity relating to individuals and entities listed in the Schedule.</p>
Power to give directions, etc.	<p>5. (1) The Central Government may, from time to time, issue directions to the State Governments and various authorities in such manner as it may consider necessary for the implementation of this Order.</p> <p>(2) The directions issued under this paragraph may include, directions to implement the plans referred to in paragraph 4 of this Order and to freeze, seize or attach the assets and other economic resources; prevent the entry into or the transit through India; and prevent the sale or transfer of arms and ammunitions to the individuals or entities listed in the Schedule, and the directions to institute any criminal proceedings against them.</p>
	<p>6. The Prevention and Suppression of Terrorism (Implementation of Security Council Resolutions) Order, 2004 is hereby superseded, except as respects things done or omitted to be done before such supersession.</p>

[No. L-815/6/2006]

K. O. SINGH, Addl. Secy (IO)

Annexure I

United Nations

**Security Council** (a) Prevent and suppress terrorist acts;  
(b) Criminalize the willful provision or collection by any individual or entity of funds by their nationals or in their territories with the intention that the funds should be used, or in the knowledge that they are to be used, to carry out terrorist acts;

28 September 2001

**Resolution 1373 (2001)** (c) Freeze without delay funds and other financial assets or resources of persons who commit, attempt to commit, terrorist acts or to participate in or facilitate terrorist acts;

**Adopted by the Security Council at its 4385th meeting, on 28 September 2001** (d) Control directly or indirectly by such persons and entities the movement of funds from or to the direction of such persons and entities on behalf of or in the knowledge that they are to be used, to carry out terrorist acts;

**The Security Council,**  
**Reaffirming its resolutions 1269 (1999) of 19 October 1999 and 1368 (2001) of 12 September 2001,**

**Reaffirming also its unequivocal condemnation of the terrorist attacks which took place in New York, Washington, D.C. and Pennsylvania on 11 September 2001,** and expressing its determination to prevent all such acts;

**Reaffirming further that such acts, like any act of international terrorism, constitute a threat to international peace and security, Reaffirming the inherent right of individual or collective self-defence as recognized by the Charter of the United Nations as reiterated in resolution 1368 (2001),**

**Reaffirming the need to combat by all means, in accordance with the Charter of the United Nations, threats to international peace and security caused by terrorist acts,**

**Deeply concerned by the increase, in various regions of the world, of acts of terrorism motivated by intolerance or extremism,**

**Calling on States to work together urgently to prevent and suppress terrorist acts, including through increased cooperation and full implementation of the relevant international conventions relating to terrorism,**

**Recognizing the need for States to complement international cooperation by taking additional measures to prevent and suppress, in their territories through all lawful means, the financing and preparation of any acts of terrorism,**

**Reaffirming the principle established by the General Assembly in its declaration of October 1970 (resolution 2625 (XXV)) and reiterated by the Security Council in its resolution 1189 (1998) of 13 August 1998, namely that every State has the duty to refrain from organizing, instigating, assisting or participating in terrorist acts in another State or acquiescing in organized activities within its territory directed towards the commission of such acts,**

**Acting under Chapter VII of the Charter of the United Nations,**

1. *Decides* that all States shall:

- (a) Prevent and suppress the financing of terrorist acts;
- (b) Criminalize the wilful provision or collection, by any means, directly or indirectly, of funds by their nationals or in their territories with the intention that the funds should be used, or in the knowledge that they are to be used, in order to carry out terrorist acts;
- (c) Freeze without delay funds and other financial assets or economic resources of persons who commit, or attempt to commit, terrorist acts or participate in or facilitate the commission of terrorist acts; of entities owned or controlled directly or indirectly by such persons; and of persons and entities acting on behalf of, or at the direction of such persons and entities, including funds derived or generated from property owned or controlled directly or indirectly by such persons and associated persons and entities;
- (d) Prohibit their nationals or any persons and entities within their territories from making any funds, financial assets or economic resources or financial or other related services available, directly or indirectly, for the benefit of persons who commit or attempt to commit or facilitate or participate in the commission of terrorist acts, of entities owned or controlled, directly or indirectly, by such persons and of persons and entities acting on behalf of or at the direction of such persons;

2. *Decides also* that all States shall:

- (a) Refrain from providing any form of support, active or passive, to entities or persons involved in terrorist acts, including by suppressing recruitment of members of terrorist groups and eliminating the supply of weapons to terrorists;
- (b) Take the necessary steps to prevent the commission of terrorist acts, including by provision of early warning to other States by exchange of information;
- (c) Deny safe haven to those who finance, plan, support, or commit terrorist acts, or provide safe havens;
- (d) Prevent those who finance, plan, facilitate or commit terrorist acts from using their respective territories for those purposes against other States or their citizens;
- (e) Ensure that any person who participates in the financing, planning, preparation or perpetration of terrorist acts or in supporting terrorist acts is brought to justice and ensure that, in addition to any other measures against them, such terrorist acts are established as serious criminal offences in domestic laws and regulations and that the punishment duly reflects the seriousness of such terrorist acts;
- (f) Afford one another the greatest measure of assistance in connection with criminal investigations or criminal proceedings relating to the financing or support of terrorist acts, including assistance in obtaining evidence in their possession necessary for the proceedings;
- (g) Prevent the movement of terrorists or terrorist groups by effective border controls and controls on issuance of identity papers and travel documents, and through measures for preventing counterfeiting, forgery or fraudulent use of identity papers and travel documents;

3. *Calls upon all States to:*

- (a) Find ways of intensifying and accelerating the exchange of operational information, especially regarding actions or movements of terrorist persons or networks; forged or falsified travel documents; traffic in arms, explosives or sensitive materials; use of communications technologies by terrorist groups; and the threat posed by the possession of weapons of mass destruction by terrorist groups;
- (b) Exchange information in accordance with international and domestic law and cooperate on administrative and judicial matters to prevent the commission of terrorist acts;
- (c) Cooperate, particularly through bilateral and multilateral arrangements and agreements, to prevent and suppress terrorist attacks and take action against perpetrators of such acts;
- (d) Become parties as soon as possible to the relevant international conventions and protocols relating to terrorism, including the International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism of 9 December 1999;
- (e) Increase cooperation and fully implement the relevant international conventions and protocols relating to terrorism and Security Council resolutions 1269 (1999) and 1368 (2001);
- (f) Take appropriate measures in conformity with the relevant provisions of national and international law, including international standards of human rights, before granting refugee status, for the purpose of ensuring that the asylum-seeker has not planned, facilitated or participated in the commission of terrorist acts;
- (g) Ensure, in conformity with international law, that refugee status is not abused by the perpetrators, organizers or facilitators of terrorist acts, and that claims of political motivation are not recognized as grounds for refusing requests for the extradition of alleged terrorists;

4. *Notes* with concern the close connection between international terrorism and transnational organized crime, illicit drugs, money-laundering, illegal arms trafficking, and illegal movement of nuclear, chemical, biological and other potentially deadly materials, and in this regard *emphasizes* the need to enhance coordination of efforts on national, sub regional, regional and international levels in order to strengthen a global response to this serious challenge and threat to international security;

5. *Declares* that acts, methods, and practices of terrorism are contrary to the purposes and principles of the United Nations and that knowingly financing, planning and inciting terrorist acts are also contrary to the purposes and principles of the United Nations;

6. *Decides* to establish, in accordance with rule 28 of its provisional rules of procedure, a Committee of the Security Council, consisting of all the members of the Council, to monitor implementation of this resolution, with the assistance of appropriate expertise, and *calls upon* all States to report to the Committee, no later than 90 days from the date of adoption of this resolution and thereafter according to a timetable to be proposed by the Committee, on the steps they have taken to implement this resolution;

7. *Directs* the Committee to delineate its tasks, submit a work programme within 30 days of the adoption of this resolution, and to consider the support it requires, in consultation with the Secretary-General;

8. *Expresses its determination* to take all necessary steps in order to ensure the full implementation of this resolution, in accordance with its responsibilities under the Charter;

9. *Decides to remain seized* of this matter.

### **SCHEDULE**

(See paragraph 2 (b))

## **THE NEW CONSOLIDATED LIST OF INDIVIDUALS AND ENTITIES BELONGING TO OR ASSOCIATED WITH THE TALIBAN AND AL-QAIDA ORGANISATION AS ESTABLISHED AND MAINTAINED BY THE 1267 COMMITTEE**

### **I. General information**

The Security Council Committee established pursuant to paragraph 6 of resolution 1267 (1999) (hereafter referred to as the 1267 Committee) oversees the implementation by States of the sanctions imposed by the Security Council on individuals and entities belonging or related to the Taliban, Usama Bin Laden and the Al-Qaida organization and maintains a list of individuals and entities for this purpose. In resolutions 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002) and 1455 (2003) the Security Council obliged all States to freeze the assets, prevent the entry into or the transit through their territories, and prevent the direct or indirect supply, sale and transfer of arms and military equipment with regard to the individuals/entities included on the list.

### **II. Composition of the List**

The consolidated list consist of five sections, specified below:

- A.** The list of **individuals** belonging to or associated with the **Taliban** (142 individuals)
- B.** The list of **entities** belonging to or associated with the **Taliban** (1 entity)
- C.** The list of **individuals** belonging to or associated with the **Al-Qaida** organisation (208 individuals)
- D.** The list of **entities** belonging to or associated with the **Al-Qaida** organisation (122 entities)
- E.** **Individuals and entities** that have been **removed from the list** pursuant to a decision by the 1267 Committee (8 individuals and 11 entities)

All names and identifying information on the list have been submitted to the 1267 Committee by United Nations Member States. Individuals on the Taliban section of the list are arranged according to their designation at the time when the Taliban controlled territory in Afghanistan. The names of the individuals on the Al-Qaida section of the list have been arranged alphabetically by family name. Entities in



both the Taliban and Al-Qaida sections are arranged in alphabetical order. All geographical locations appearing in the list are cited without prejudice to their political or legal status.

The list was **last updated on 22 February 2006**, and this list supersedes all previous versions of the list issued by the 1267 Committee.

### III. Identifiers and acronyms in the list

Several identifiers are used in the list in order to categorize the information provided. Identifiers without any information, or followed by the letters "**na**" (not available), indicate that information pertaining to that identifier is currently not available, notwithstanding the 1267 Committee's efforts to obtain it. Explanations of the identifiers used in the list are provided below.

#### Individuals

- *Name 1, Name 2, Name 3, Name 4*: The names of individuals on the list are specified in the order that they would appear in a national passport. Four separate name fields have been provided for each individual on the list in order to allow for the full range of naming conventions used in those parts of the world where Arabic-based names are common. When four names are provided the naming convention is as follows: *Name 1* is the individual's first name, *Name 2* is the name of the individual's father, *Name 3* is the name of the individual's grandfather and *Name 4* is the individual's family name. In many instances, individuals included in the list are represented by less than four names. Where appropriate, the family name has been bolded, regardless of the field it occupies. There are several possible reasons why less than four names are provided for some individuals on the list, including: a) information regarding some parts of the complete name is unavailable; or b) the naming convention used in a given individual's country of origin may not employ all four name components used in other countries where Arabic-based names are common. Users should bear in mind that transliterating Arabic and other names into Latin characters can result in a number of variations. Cross referencing names with other elements of information contained in the list is therefore highly recommended.
- *Title*: Honorary, professional or religious titles.
- *Designation*: Official title/position.
- *DOB*: Date of birth, including alternative date of birth(s).
- *POB*: Place of birth, including alternative place(s) of birth.
- *Good quality a.k.a.*: Alias(es) (also known as) sufficient for a positive identification.
- *Low quality a.k.a.*: Alias(es) (also known as) most probably insufficient for a positive identification.
- *Nationality*: Designates citizenship/nationality.
- *Passport no.*: Passport number(s).

- *National identification no.:* National identification numbers (e.g. ID card numbers, Social Security Numbers, etc.)
- *Address:* Address(es) identify where the individual permanently or temporarily resides/lives (legally or illegally).
- *On the list since:* The date the 1267 Committee placed the individual on its list.
- *Other information:* Supplementary data in addition to that in the above categories.

### Entities

- *Name:* Name of entity.
- *A.k.a.:* Alias(es) (also known as).
- *F.k.a.:* Formerly known as.
- *Address:* Address(es) where entity domiciles or has branches.
- *On the list since:* The date the 1267 Committee placed the entity on its list.
- *Other information:* Supplementary data in addition to that in the above categories.

### A. The list of individuals belonging to or associated with the Taliban

1. **\*Name:** 1: MOHAMMAD 2: RABBANI 3: na 4: na

**Title:** Mullah **Designation:** Chairman of the Ruling Council, Head of the Council of Ministers **DOB:** Approximately 1961

**POB:** Kandahar, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na

**\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na

**National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 20 Dec. 2005) **\*Other information:** Reportedly deceased in April 2001

2. **\*Name:** 1: MOHAMMAD 2: HASSAN 3: na 4: na

**Title 1:** Mullah **Title 2:** Hadji **Designation:** First Deputy, Council of Ministers

**DOB:** Approximately 1958 **POB:** Kandahar, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:**

na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National**

**identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 20 Dec.

2005) **\*Other information:** From the Malwhavi Khaalis faction, one of the seven

factions of Jihad against the Soviets, graduated from a madrassa in Queta

Pakistan, a close associate of Mullah Omar

3. **\*Name:** 1: ABDUL KABIR 2: na 3: na 4: na

**Title:** Maulavi **Designation:** a) Second Deputy, Council of Ministers b) Governor of Nangahar Province c) Head of Eastern Zone **DOB:** Between 1958 and 1963

**POB:** Zardran tribe, Paktja province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** A. Kabir

**Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National**

**identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 20 Dec.

2005) **\*Other information:** Active in terrorist operations in Eastern Afghanistan

4. **\*Name:** 1: MOHAMMED 2: OMAR 3: na 4: na  
**Title:** Mullah **Designation:** Leader of the Faithful ('Amir ul-Mumineen'),  
Afghanistan **DOB:** Approximately 1966 **POB:** Uruzgan province, Adehrawood  
village **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan  
**Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 31 Jan.  
2001 **\*Other information:** na

5. **\*Name:** 1: MOHAMMAD 2: TAHRE 3: ANWARI 4: na  
**Title:** Mullah **Designation:** Director of Administrative Affairs **DOB:**  
Approximately 1958 **POB:** Zurmat district, Paktia province, Afghanistan **\*Good  
quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na  
**National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 23 Feb. 2001 **\*Other  
information:** na

6. **\*Name:** 1: SAYYED MOHAMMED 2: HAQQANI 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** Director of Administrative Affairs **DOB:** na **POB:**  
na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan  
**Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** 31 Jan.  
2001 (amended on 20 Dec. 2005) **\*Other information:** Graduate of the  
Haqqaniya Madrassa in Pakistan

7. **\*Name:** 1: ABDUL LATIF 2: MANSUR 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** Minister of Agriculture **DOB:** Approximately 1968  
**POB:** Native of Zurmat district, Paktia province, Afghanistan **\*Good quality  
a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na  
**National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 31 Jan. 2001 **\*Other  
information:** na

8. **\*Name:** 1: SHAMS 2: UR-RAHMAN 3: na 4: na  
**Title:** Mullah **Designation:** Deputy Minister of Agriculture **DOB:** na **POB:** na  
**\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport  
no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 23 Feb. 2001  
**\*Other information:** na

9. **\*Name:** 1: ATTIQULLAH 2: AKHUND 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Agriculture **DOB:**  
Approximately 1953 **POB:** Shawali Kott district, Kandahar, Afghanistan **\*Good  
quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na  
**National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 23 Feb. 2001 **\*Other  
information:** na **Other information:** na

10. **\*Name:** 1: ABDUL GHAFUOR 2: na 3: na 4: na **Title:** Maulavi **Designation:**  
Deputy Minister of Agriculture **DOB:** na **POB:** Kunar province, Afghanistan  
**\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport  
no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na  
**Listed on:** 23 Feb. 2001 **\*Other information:** na

11. **\*Name:** 1: AKHTAR 2: MOHAMMAD 3: MANSOUR 4: na  
**Title:** na **Designation:** Minister of Civil Aviation and Transportation **DOB:** na  
**POB:** Kandahar, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na  
**\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na  
**\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na
12. **\*Name:** 1: TAHIS 2: na 3: na 4: na  
**Title:** Hadji **Designation:** Deputy Minister of Civil Aviation **DOB:** na **POB:** na  
**\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na  
**National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 31 Jan. 2001  
**\*Other information:** na *Last updated on 22 February 2006*
13. **\*Name:** 1: MOHAMMAD 2: NAIM 3: na 4: na  
**Title:** Mullah **Designation:** Deputy Minister of Civil Aviation **DOB:** na **POB:** na  
**\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na  
**National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 23 Feb. 2001  
**\*Other information:** na
14. **\*Name:** 1: HIDAYATULLAH 2: na 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** Deputy Minister of Civil Aviation **DOB:** Approximately 1968  
**POB:** Arghandab district, Kandahar province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** Abu Turab  
**Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na  
**National identification no.:** na **Address:** na **Listed on:** na **\*Other information:** na
15. **\*Name:** 1: YAR MOHAMMAD 2: RAHIMI 3: na 4: na  
**Title:** Mullah **Designation:** Minister of Communication **DOB:** Approximately 1953  
**POB:** Panjwaee district, Kandahar province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na  
**Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na  
**National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na
16. **\*Name:** 1: ALLA DAD 2: TAYEB 3: na 4: na  
**Title 1:** Mullah **Title 2:** Haji **Designation:** Deputy Minister of Communication  
**DOB:** Approximately 1963 **POB:** Kandahar city, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na  
**Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na  
**National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na
17. **\*Name:** 1: ABDUL RAZAQ 2: na 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** Minister of Commerce **DOB:** Approximately 1958  
**POB:** Arghandab district, Kandahar province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na  
**Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na  
**Address:** na **\*Listed on:** 31 Jan. 2001 (amended on 20 Dec. 2005) **\*Other information:** Arrested in 2003 in Kandhar province in Afghanistan

**18. \*Name:** 1: FAIZ MOHAMMAD 2: FAIZAN 3: na 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Commerce **DOB:** Approximately 1958 **POB:** Zurmat district, Paktia province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

**19. \*Name:** 1: NIK MOHAMMAD 2: na 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Commerce **DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 31 Jan. 2001 **\*Other information:** na

**20. \*Name:** 1: MATIULLAH 2: na 3: na 4: na  
**Title:** Mullah **Designation:** Director, Kabul Custom House **DOB:** Approximately 1973 **POB:** Daman district, Kandahar province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 23 Feb. 2001 **\*Other information:** na

**21. \*Name:** 1: ALLAHDAD 2: na 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** Minister of Construction **DOB:** Approximately 1953 **POB:** Spinboldak district, Kandahar province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** Akhund **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 31 Jan. 2001 **\*Other information:** na

**22. \*Name:** 1: UBAIDULLAH 2: AKHUND 3: na 4: na  
**Title 1:** Mullah **Title 2:** Hadji **Designation:** Minister of Defence **DOB:** Approximately 1968 **POB:** Kandahar, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

**23. \*Name:** 1: FAZEL MOHAMMAD 2: MAZLOOM 3: na 3: na 4: na  
**Title:** Mullah **Designation:** Deputy Chief of Army Staff **DOB:** Between 1963 and 1968 **POB:** Uruzgan, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 23 Feb. 2001 **\*Other information:** na

**24. \*Name:** 1: ABDUL GHANI 2: BARADAR 3: na 4: na  
**Title:** Mullah **Designation:** Deputy, Minister of Defence **DOB:** Approximately 1968 **POB:** Uruzgan, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 23 Feb. 2001 **\*Other information:** na

25. **\*Name:** 1: ABDUL RAUF 2: KHADEM 3: na 4: na  
**Title:** Mullah **Designation:** Commander of Central Corpus **DOB:** Between 1958 and 1963 **POB:** Uruzgan/Kandahar, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 23 Feb. 2001 **\*Other information:** na
26. **\*Name:** 1: AMIR KHAN 2: MOTAQI 3: na 4: na  
**Title:** Mullah **Designation:** a) Minister of Education b) Taliban representative in UN-led talks **DOB:** Approximately 1968 **POB:** Helmand province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** Amir Khan Muttaqi **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na
27. **\*Name:** 1: ABDUL SALAM 2: HANAFI 3: na 4: na  
**Title:** Mullah **Designation:** Deputy Minister of Education **DOB:** Approximately 1968 **POB:** Darzab district, Faryab district, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 23 Feb. 2001 **\*Other information:** na
28. **\*Name:** 1: SAID AHMED 2: SHAHIDKHEL 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Education **DOB:** Approximately 1975 **POB:** Central Ghazni province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 23 Feb. 2001 (amended on 20 Dec. 2005) **\*Other information:** In July 2003 he was in custody in Kabul, Afghanistan
29. **\*Name:** 1: ABDUL WASAY 2: AGHAJAN 3: MOTASEM 4: na  
**Title:** Mullah **Designation:** Minister of Finance **DOB:** Approximately 1968 **POB:** Kandahar city, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 31 Jan. 2001 **\*Other information:** na
30. **\*Name:** 1: AREFULLAH 2: AREF 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Finance **DOB:** Approximately 1958 **POB:** Zurmat district, Paktia province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 31 Jan. 2001 **\*Other information:** na
31. **\*Name:** 1: MOHAMMAD 2: AHMADI 3: na 4: na  
**Title 1:** Mullah **Title 2:** Haji **Designation:** President of Da Afghanistan Bank **DOB:** Approximately 1963 **POB:** Daman district, Kandahar province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 23 Feb. 2001 **\*Other information:** na

32. \*Name: 1: ABDUL WAKIL 2: MUTAWAKIL 3: na 4: na  
Title: na Designation: Minister of Foreign Affairs DOB: Approximately 1963  
POB: Kandahar, Afghanistan \*Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na  
\*Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address:  
na \*Listed on: 25 Jan. 2001 \*Other information: na

33. \*Name: 1: ABDUL RAHMAN 2: ZAHED 3: na 4: na  
Title: na Designation: Deputy Minister of Foreign Affairs DOB: Between 1963  
and 1968 POB: Logar province, Kharwar district, Afghanistan \*Good quality  
a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na \*Nationality: Afghan Passport no.: na  
National identification no.: na Address: na \*Listed on: 25 Jan. 2001 \*Other  
information: na

34. \*Name: 1: ABDUL JALIL 2: na 3: na 4: na  
Title: Maulavi Designation: Deputy Minister of Foreign Affairs DOB:  
Approximately 1963 POB: Shawalikott district, Kandahar province, Afghanistan  
\*Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na \*Nationality: Afghan Passport  
no.: na National identification no.: na Address: na \*Listed on: 25 Jan. 2001  
\*Other information: na

35. \*Name: 1: ABDUL SATAR 2: PAKTIN 3: na 4: na  
Title: Dr. Designation: Protocol Dept., Ministry of Foreign Affairs DOB: na  
POB: Paktia, Afghanistan \*Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na  
\*Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address:  
na \*Listed on: 23 Feb. 2001 \*Other information: na

36. \*Name: 1: FAIZ 2: na 3: na 4: na  
Title: Maulavi Designation: Information Dept., Ministry of Foreign Affairs DOB:  
na POB: na \*Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na \*Nationality:  
Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na \*Listed  
on: 23 Feb. 2001 \*Other information: na

37. \*Name: 1: SHAMS-US-SAFA 2: AMINZAI 3: na 4: na  
Title: na Designation: Press-Centre, Ministry of Foreign Affairs DOB: na POB:  
na \*Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na \*Nationality: Afghan  
Passport no.: na National identification no.: na Address: na \*Listed on: 23  
Feb. 2001 \*Other information: na

38. \*Name: 1: ABDUL BAQI 2: na 3: na 4: na  
Title: Maulavi Designation: Consulate Dept., Ministry of Foreign Affairs DOB:  
na POB: na \*Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na \*Nationality:  
Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na \*Listed  
on: 23 Feb. 2001 \*Other information: na

39. \*Name: 1: MOHAMMAD JAWAD 2: WAZIRI 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** UN Dept., Ministry of Foreign Affairs **DOB:** na **POB:** na  
**\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 23 Feb. 2001  
**\*Other information:** na

40. **\*Name:** 1: JALLALOUDDINE 2: HAQANI 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** Minister of Frontier Affairs **DOB:** Approximately 1948 **POB:** Khost province, Zadran district, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 31 Jan. 2001 **\*Other information:** na

41. **\*Name:** 1: ABDUL HAKIM 2: MONIB 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Frontier Affairs **DOB:** Between 1973 and 1976 **POB:** Zurmat district, Paktia province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

42. **\*Name:** 1: MOHAMMAD IBRAHIM 2: OMARI 3: na 4: na  
**Title:** Alhaj **Designation:** Deputy Minister of Frontier Affairs **DOB:** Approximately 1958 **POB:** Zadran valley, Khost province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 23 Feb. 2001 **\*Other information:** na

43. **\*Name:** 1: DIN MOHAMMAD 2: HANIF 3: 4: na  
**Title:** Qari **Designation:** a) Minister of Planning b) Minister of Higher Education **DOB:** Between 1968 and 1973 **POB:** Badakhshan province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** Qari Din Mohammad **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

44. **\*Name:** 1: HAMDULLAH 2: NOMANI 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** High Ranking Official in the Ministry of Higher Education **DOB:** Approximately 1968 **POB:** Ghazni province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 23 Feb. 2001  
**\*Other information:** na

45. **\*Name:** 1: ZABIHULLAH 2: HAMIDI 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** Deputy Minister of Higher Education **DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 23 Feb. 2001  
**\*Other information:** na



46. \*Name: 1: ARSALA 2: RAHMANI 3: na 4: na  
 Title: Maulavi Designation: Deputy Minister of Higher Education DOB: Approximately 1948 POB: Paktika, Afghanistan \*Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na \*Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na \*Listed on: 23 Feb. 2001 \*Other information: na

47. \*Name: 1: QUDRATULLAH 2: JAMAL 3: na 4: na  
 Title: Maulavi Designation: Minister of Information DOB: Approximately 1963 POB: Paktia, Afghanistan \*Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na \*Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na \*Listed on: 25 Jan. 2001 \*Other information: na

48. \*Name: 1: ABDUL BAQI 2: na 3: na 4: na  
 Title: Mullah Designation: Vice-Minister of Information and Culture DOB: na POB: na \*Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na \*Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na \*Listed on: 23 Feb. 2001 \*Other information: na

49. \*Name: 1: ABDUL RAHMAN 2: AHMAD 3: HOTTAK 4: na  
 Title: Maulavi Designation: Deputy (Cultural) Minister of Information and Culture DOB: Between 1963 and 1968 POB: Maidanwardak province, Afghanistan \*Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na \*Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na \*Listed on: 25 Jan. 2001 \*Other information: na

50. \*Name: 1: RAHIMULLAH 2: ZURMATI 3: na 4: na  
 Title: Maulavi Designation: Deputy (Publication) Minister of Information and Culture DOB: Between 1953 and 1958 POB: Zurmat district, Paktia province, Afghanistan \*Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na \*Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na \*Listed on: 23 Feb. 2001 \*Other information: na

51. \*Name: 1: ABDULHAI 2: MOTMAEN 3: na 4: na  
 Title: Maulavi Designation: Director, Information and Culture Dept., Kandahar DOB: Approximately 1973 POB: Zabul province, Afghanistan \*Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na \*Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na \*Listed on: 23 Feb. 2001 \*Other information: na

52. \*Name: 1: MOHAMMAD YAQOUB 2: na 3: na 4: na  
 Title: Maulavi Designation: Head of BIA DOB: na POB: na \*Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na \*Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na Address: na \*Listed on: 23 Feb. 2001 \*Other information: na

53. \*Name: 1: ABDUL RAZAQ 2: na 3: na 4: na

**Title:** Mullah **Designation:** Minister of Interior Affairs **DOB:** Approximately 1963 **POB:** Chaman district, Quetta, Pakistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

54. **\*Name:** 1: ABDUL SAMAD 2: KHAKSAR 3: na 4: na  
**Title:** Mullah **Designation:** Deputy (Security) Minister of Interior Affairs **DOB:** Between 1958 and 1963 **POB:** Kandahar, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

55. **\*Name:** 1: MOHAMMAD 2: SHARIF 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** Deputy Minister of Interior Affairs **DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

56. **\*Name:** 1: NOOR 2: JALAL 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** Deputy (Administrative) Minister of Interior Affairs **DOB:** Between 1968 and 1973 **POB:** Kunar province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 23 Feb. 2001 **\*Other information:** na

57. **\*Name:** 1: SAED 2: MOHAMMAD 3: AZIM 4: AGHA  
**Title:** Maulavi **Designation:** Passport and Visa Dept **DOB:** Approximately 1966 **POB:** Kandahar province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 23 Feb. 2001 **\*Other information:** na

58. **\*Name:** 1: NOORUDDIN 2: TURABI 3: na 4: na  
**Title:** Mullah **Designation:** Minister of Justice **DOB:** Approximately 1963 **POB:** Kandahar, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

59. **\*Name:** 1: JALALUDDINE 2: SHINWARI 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Justice **DOB:** Approximately 1968 **POB:** Shinwar district, Ningarhar province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 31 Jan. 2001 **\*Other information:** na

60. **\*Name:** 1: MOHAMMAD ESSA 2: AKHUND 3: na 4: na

**Title 1:** Alhaj **Title 2:** Mullah **Designation:** Minister of Water, Sanitation and Electricity **DOB:** Approximately 1958 **POB:** Spinboldak district, Kandahar province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

61. **\*Name:** 1: SAYEEDUR RAHMAN 2: HAQANI 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Mines and Industries **DOB:** Approximately 1948 **POB:** Kunar province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 23 Feb. 2001 **\*Other information:** na

62. **\*Name:** 1: ABDUL SALAM 2: ZAIEF 3: na 4: na  
**Title:** Mullah **Designation:** a) Deputy Minister of Mines and Industries b) Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary, Taliban "Embassy", Islamabad, Pakistan **DOB:** Approximately 1968 **POB:** Kandahar, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** Abdul Salam Zaeef **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

63. **\*Name:** 1: MOHAMMAD AZAM 2: ELMI 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Mines and Industries **DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 23 Feb. 2001 **\*Other information:** na

64. **\*Name:** 1: EZATULLAH 2: na 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Planning **DOB:** Between 1968 and 1973 **POB:** Laghman province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 23 Feb. 2001 **\*Other information:** na

65. **\*Name:** 1: MOHAMMAD MUSA 2: HOTTAK 3: na 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Planning **DOB:** Approximately 1963 **POB:** Maidanwardak province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 23 Feb. 2001 **\*Other information:** na

66. **\*Name:** 1: MOHAMMAD ABBAS 2: AKHUND 3: na 4: na  
**Title:** Mullah **Designation:** Minister of Public Health **DOB:** Approximately 1963 **POB:** Kandahar, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

67. **\*Name:** 1: SHER MOHAMMAD ABBAS 2: STANEKZAI 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** Deputy Minister of Public Health **DOB:** Approximately 1963 **POB:** Logar province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

68. **\*Name:** 1: MOHAMMADULLAH 2: MATI 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** Minister of Public Works **DOB:** na **POB:** Arghandab district, Kandahar province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

69. **\*Name:** 1: ROSTAM 2: NURISTANI 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Public Works **DOB:** Approximately 1963 **POB:** Nuristan province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

70. **\*Name:** 1: ATIQULLAH 2: na 3: na 4: na  
**Title 1:** Hadji **Title 2:** Molla **Designation:** Deputy Minister of Public Works **DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 31 Jan. 2001 **\*Other information:** na

71. **\*Name:** 1: NAJIBULLAH 2: HAQQANI 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Public Works **DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 23 Feb. 2001 **\*Other information:** na

72. **\*Name:** 1: SAYYED GHIASSOUDDINE 2: AGHA 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** Minister of Haj and Religious Affairs **DOB:** Between 1958 and 1963 **POB:** Faryab province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on :** 31 Jan. 2001 **\*Other information:** na

73. **\*Name:** 1: MOSLIM 2: HAQQANI 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Haj and Religious Affairs **DOB:** Approximately 1958 **POB:** Kandahar, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

**74. \*Name:** 1: QALAMUDIN 2: MUHMAND 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** a) Deputy Minister of Haj Affairs b) Head of Olympic Committee **DOB:** Between 1958 and 1963 **POB:** Ningarhar province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** Qalamuddin **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 20 Dec. 2005) **\*Other information:** In July 2003 was in custody in Kabul, Afghanistan

**75. \*Name:** 1: ABDUL RAQIB 2: TAKHARI 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** Minister of Repatriation **DOB:** Between 1968 and 1973 **POB:** Takhar province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

**76. \*Name:** 1: RAMATULLAH 2: WAHIDYAR 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** Deputy Minister for Martyrs and Repatriation **DOB:** Approximately 1958 **POB:** Paktika province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 31 Jan. 2001 **\*Other information:** na

**77. \*Name:** 1: MOHAMMAD SEDIQ 2: AKHUNDZADA 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** Deputy Minister of Martyrs and Repatriation **DOB:** Between 1953 and 1958 **POB:** Kabul province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 23 Feb. 2001 **\*Other information:** na

**78. \*Name:** 1: MOHAMMAD WALI 2: na 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** Minister of Department of Preventing Vice and Propagating Virtue **DOB:** Approximately 1965 **POB:** Kandahar province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 31 Jan. 2001 **\*Other information:** na

**79. \*Name:** 1: MOHAMMAD SALIM 2: HAQQANI 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Preventing Vice and Propagating Virtue **DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 31 Jan. 2001 **\*Other information:** na

**80. \*Name:** 1: SAYED ESMATULLAH 2: ASEM 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** a) Deputy Minister of Preventing Vice and Propagating Virtue b) SG of Afghan Red Crescent Society (ARCS) **DOB:**

Approximately 1973 **POB:** Ningarhar province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** Esmatullah Asem **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 23 Feb. 2001 **\*Other information:** na

81. **\*Name:** 1: QARI 2: AHMADULLA 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** Minister of Security (Intelligence) **DOB:** Approximately 1975 **POB:** Qarabagh district, Ghazni province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

82. **\*Name:** 1: ABDUL-HAQ 2: WASSEQ 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Security (Intelligence) **DOB:** Approximately 1975 **POB:** Central Ghazni province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 31 Jan. 2001 **\*Other information:** na

83. **\*Name:** 1: EHSANULLAH 2: SARFIDA 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** Deputy Minister of Security (Intelligence) **DOB:** Approximately 1963 **POB:** Qarabagh district, Ghazni province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 23 Feb. 2001 **\*Other information:** na

84. **\*Name:** 1: HABIBULLAH 2: RESHAD 3: na 4: na  
**Title:** Mullah **Designation:** Head of Investigation Dept. **DOB:** Between 1968 and 1973 **POB:** Ghazni province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 23 Feb. 2001 **\*Other information:** na

85. **\*Name:** 1: AHMED JAN 2: AKHUND 3: na 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** Minister of Water and Electricity **DOB:** Between 1953 and 1958 **POB:** Kandahar province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

86. **\*Name:** 1: MOHAMMAD HOMAYOON 2: na 3: na 4: na  
**Title:** Eng. **Designation:** Deputy Minister of Water and Electricity **DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 23 Feb. 2001 **\*Other information:** na

87. **\*Name:** 1: SADUDDIN 2: SAYYED 3: na 4: na

**Title1:** Maulavi **Title 2:** Alhaj **Title 3:** Mullah **Designation:** a) Vice-Minister of Work and Social Affairs b) Mayor of Kabul City **DOB:** Approximately 1968 **POB:** Chaman district, Pakistan **\*Good quality a.k.a.:** a) Sadudin Sayed b) Sadruddin **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

88. **\*Name:** 1: ABDUL JABBAR 2: OMARI 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** Governor of Baghlan Province **DOB:** Approximately 1958 **POB:** Zabul, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 23 Feb. 2001 **\*Other information:** na

89. **\*Name:** 1: NURULLAH 2: NURI 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** a) Governor of Balkh Province b) Head of Northern Zone **DOB:** Approximately 1958 **POB:** Shahjoe district, Zabul province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

90. **\*Name:** 1: MUHAMMAD ISLAM 2: na 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** Governor of Bamiyan Province **DOB:** Between 1953 and 1958 **POB:** Rori-Du-Aab district, Samangan province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 23 Feb. 2001 **\*Other information:** na

91. **\*Name:** 1: JANAN 2: AGHA 3: na 4: na  
**Title:** Mullah **Designation:** Governor of Fariab **DOB:** Approximately 1958 **POB:** Central Uruzgan province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 23 Feb. 2001 **\*Other information:** na

92. **\*Name:** 1: DOST MOHAMMAD 2: na 3: na 4: na  
**Title:** Mullah **Designation:** Governor of Ghazni Province **DOB:** Between 1968 and 1973 **POB:** Daman district, Kandahar province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

93. **\*Name:** 1: KHAIRULLAH MOHAMMAD 2: KHAIRKHWAH 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** Governor of Herat Province **DOB:** Approximately 1963 **POB:** Arghistan district, Kandahar province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

94. \*Name: 1: ABDUL BARI 2: na 3: na 4: na

Title: Maulavi Designation: Governor of Helmand Province DOB:

Approximately 1953 POB: Helmand province, Afghanistan \*Good quality a.k.a.:

na Low quality a.k.a.: na \*Nationality: Afghan Passport no.: na National

identification no.: na Address: na \*Listed on: 23 Feb. 2001 \*Other

information: na

95. \*Name: 1: WALIJAN 2: na 3: na 4: na

Title: Maulavi Designation: Governor of Jawzjan Province DOB: Approximately

1968 POB: Quetta, Pakistan \*Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na

\*Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: na

\*Listed on: 23 Feb. 2001 \*Other information: na

96. \*Name: 1: MOHAMMAD HASAN 2: RAHMANI 3: na 4: na

Title: Mullah Designation: Governor of Kandahar Province DOB: Approximately

1963 POB: Panjwae district, Kandahar province, Afghanistan \*Good quality

a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na \*Nationality: Afghan Passport no.: na

National identification no.: na Address: na \*Listed on: 23 Feb. 2001 \*Other

information: na

97. \*Name: 1: ABDUL MANAN 2: NYAZI 3: na 4: na

Title: Mullah Designation: Governor of Kabul Province DOB: Approximately

1968 POB: Heart province, Afghanistan \*Good quality a.k.a.: na Low quality

a.k.a.: na \*Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na

Address: na \*Listed on: 25 Jan. 2001 \*Other information: na

98. \*Name: 1: ABDUL WAHED 2: SHAFIQ 3: na 4: na

Title: Maulavi Designation: Deputy Governor of Kabul Province DOB:

Approximately 1968 POB: Ningarhar province, Afghanistan \*Good quality

a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na \*Nationality: Afghan Passport no.: na

National identification no.: na Address: na \*Listed on: 23 Feb. 2001 \*Other

information: na

99. \*Name: 1: MOHAMMAD SHAFIQ 2: MOHAMMADI 3: na 4: na

Title: Maulavi Designation: Governor of Khost Province DOB: Approximately

1948 POB: Uruzgan province, Afghanistan \*Good quality a.k.a.: na Low quality

a.k.a.: na \*Nationality: Afghan Passport no.: na National identification no.: na

Address: na \*Listed on: 25 Jan. 2001 \*Other information: na

100. \*Name: 1: NAZAR 2: MOHAMMAD 3: na 4: na

Title: Maulavi Designation: Governor of Kunduz Province DOB: na POB: na

\*Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na \*Nationality: Afghan Passport

no.: na National identification no.: na Address: na \*Listed on: 23 Feb. 2001

\*Other information: na



**101. \*Name:** 1: MOHAMMAD ESHAQ 2: AKHUNZADA 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** Governor of Laghman Province **DOB:** Between 1963 and 1968 **POB:** Qarabajh district, Ghazni province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 23 Feb. 2001 **\*Other information:** na

**102. \*Name:** 1: ZIA-UR-RAHMAN 2: MADANI 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** Governor of Logar Province **DOB:** Between 1953 and 1958 **POB:** Taliqan, Takhar province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 23 Feb. 2001 **\*Other information:** na

**103. \*Name:** 1: SHAMSUDIN 2: na 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** Governor of Wardak (Maidan) Province **DOB:** Approximately 1968 **POB:** Keshim district, Badakhshan province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 23 Feb. 2001 **\*Other information:** na

**104. \*Name:** 1: MOHAMMAD RASUL 2: na 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** Governor of Nimroz Province **DOB:** Between 1958 and 1963 **POB:** Spinboldak district, Kandahar province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 23 Feb. 2001 **\*Other information:** na

**105. \*Name:** 1: TAHA 2: na 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** Governor of Paktia Province **DOB:** Approximately 1963 **POB:** Ningarhar province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 23 Feb. 2001 **\*Other information:** na

**106. \*Name:** 1: MOHAMMAD SHAFIQ 2: AHMADI 3: na 4: na  
**Title:** Mullah **Designation:** Governor of Samangan Province **DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 23 Feb. 2001 **\*Other information:** na

**107. \*Name:** 1: AMINULLAH 2: AMIN 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** Governor of Saripul Province **DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 23 Feb. 2001 **\*Other information:** na

**108. \*Name:** 1: ABDULHAI 2: SALEK 3: na 4: na

**Title:** Maulavi **Designation:** Governor of Urouzgan Province **DOB:** na **POB:** na  
**\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 23 Feb. 2001  
**\*Other information:** na

**109. \*Name:** 1: AHMAD JAN 2: AKHUNZADA 3: na 4: na

**Title:** Maulavi **Designation:** Governor of Zabol Province **DOB:** na **POB:** Urazgan province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na  
**\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na  
**\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

**110. \*Name:** 1: NOOR MOHAMMAD 2: SAQIB 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** Chief Justice of Supreme Court **DOB:** Approximately 1958 **POB:** Bagrami district, Kabul province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na  
**Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na  
**\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

**111. \*Name:** 1: SANANI 2: na 3: na 4: na

**Title:** Maulavi **Designation:** Head of Dar-ul-Efta **DOB:** Approximately 1923 **POB:** Zabul province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na  
**\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na  
**\*Listed on:** 23 Feb. 2001 **\*Other information:** na

**112. \*Name:** 1: RAFIULLAH 2: MUAZEN 3: na 4: na

**Title:** Maulavi **Designation:** Deputy of High Court **DOB:** Approximately 1943 **POB:** Paktia province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na  
**\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na  
**\*Listed on:** 23 Feb. 2001 **\*Other information:** na

**113. \*Name:** 1: SHAHABUDDIN 2: DELAWAR 3: na 4: na

**Title:** Maulavi **Designation:** Deputy of High Court **DOB:** Approximately 1953 **POB:** Logar province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na  
**\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na  
**\*Listed on:** 23 Feb. 2001 **\*Other information:** na

**114. \*Name:** 1: ABDUL RAHMAN 2: AGHA 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** Chief Justice of Military Court **DOB:** Approximately 1958 **POB:** Arghandab district, Kandahar province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na  
**Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na  
**\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

**115. \*Name:** 1: MOHAMMAD HASSAN 2: MASTASAEED 3: na 4: na

**Title:** Mullah **Designation:** Head of Academy of Sciences **DOB:** Approximately 1958 **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 23 Feb. 2001 **\*Other information:** na

116. **\*Name:** 1: ABDUL HAKIM 2: MUJAHID 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** Taliban envoy to the United Nations **DOB:** Approximately 1963 **POB:** Logar province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

117. **\*Name:** 1: HAMIDULLAH 2: na 3: na 4: na  
**Title:** Mullah **Designation:** Head of Ariana Afghan Airlines **DOB:** Approximately 1968 **POB:** Kandahar province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

118. **\*Name:** 1: JAN MOHMMAD 2: MADANI 3: na 4: na  
**Title:** Mr **Designation:** Charge d'Affaires, Taliban Embassy, Abu Dhabi **DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

119. **\*Name:** 1: SHAMSALAH 2: KMALZADA 3: na 4: na  
**Title:** Mr **Designation:** Second Secretary, Taliban Embassy, Abu Dhabi **DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

120. **\*Name:** 1: AZIZIRAHMAN 2: na 3: na 4: na  
**Title:** Mr **Designation:** Third Secretary, Taliban Embassy, Abu Dhabi **DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

121. **\*NAME:** 1: ABDUL MANAN 2: na 3: na 4: na  
**Title 1:** Mr **Title 2:** Mawlawi **Designation:** Commercial Attache, Taliban Embassy, Abu Dhabi **DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

122. **\*Name:** 1: ABDUL WAHAB 2: na 3: na 4: na  
**Title:** Malawi **Designation:** Taliban Chargé d'Affaires in Riyadh **DOB:** Approximately 1973 **POB:** Faryab province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National**

**identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

**123. \*Name:** 1: HABIBULLAH 2: FAIZI 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** First Secretary/Deputy Head of Mission, Taliban "Embassy", Islamabad **DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

**124. \*Name:** 1: MOHAMMAD SOHAIL 2: SHAHEEN 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** Second Secretary, Taliban "Embassy", Islamabad **DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

**125. \*Name:** 1: MOHAMMAD 2: SARWAR 3: SIDDIQMAL 4: na

**Title:** na **Designation:** Third Secretary, Taliban "Embassy", Islamabad **DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

**126. \*Name:** 1: MOHAMMAD 2: ZAHID 3: na 4: na

**Title:** Mullah **Designation:** Third Secretary, Taliban "Embassy", Islamabad **DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

**127. \*Name:** 1: ABDUL QADEER 2: na 3: na 4: na

**Title:** General **Designation:** Military Attache, Taliban "Embassy", Islamabad **DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

**128. \*Name:** 1: NAZIRULLAH 2: ANAFI 3: na 4: na

**Title:** Maulavi **Designation:** Commercial Attache, Taliban "Embassy", Islamabad **DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

**129. \*Name:** 1: ABDUL GHAFAR 2: QURISHI 3: na 4: na

**Title:** Maulavi **Designation:** Repatriation Attache, Taliban "Embassy", Islamabad **DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

**130. \*Name:** 1: MOHAMMAD DAUD 2: na 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** Administrative Attache, Taliban "Embassy", Islamabad  
**DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:**  
Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed**  
**on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

131. **\*Name:** 1: NAJIBULLAH 2: na 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** Consul General, Taliban "Consulate General",  
Peshawar **DOB:** Approximately 1953 **POB:** Kandahar province, Afghanistan  
**\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport**  
**no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001  
**\*Other information:** na

132. **\*Name:** 1: QARI 2: ABDUL WALI 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** First Secretary, Taliban "Consulate General", Peshawar  
**DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:**  
Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed**  
**on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

133. **\*Name:** 1: SYED 2: ALLAMUDDIN 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** Second Secretary, Taliban "Consulate General", Peshawar  
**DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:**  
Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed**  
**on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

134. **\*Name:** 1: AKHTAR 2: MOHAMMAD 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** Education Attache, Taliban "Consulate General",  
Peshawar **DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na  
**\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:**  
na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

135. **\*Name:** 1: MOHAMMAD 2: SADDIQ 3: na 4: na  
**Title 1:** Alhaj **Title 2:** Maulavi **Designation:** Trade Representative, Taliban  
"Consulate General", Peshawar **DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low**  
**quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification**  
**no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

136. **\*Name:** 1: RAHAMATULLAH 2: KAKAZADA 3: na 4: na  
**Title:** Maulavi **Designation:** Consul General, Taliban "Consulate General",  
Karachi **DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na  
**\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:**  
na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

137. **\*Name:** 1: MOHAMMAD 2: ALEEM 3: NOORANI 4: na  
**Title:** Mufti **Designation:** First Secretary, Taliban "Consulate General", Karachi  
**DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na

**\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na  
**\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

**138. \*Name:** 1: ABDUL GHAFAR 2: SHENWARY 3: na 4: na

**Title:** Haji **Designation:** Third Secretary, Taliban "Consulate General", Karachi  
**DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan  
**Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

**139. \*Name:** 1: GUL AHMAD 2: HAKIMI 3: na 4: na

**Title:** Maulavi **Designation:** Commercial Attache, Taliban "Consulate General", Karachi  
**DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan  
**Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

**140. \*Name:** 1: ABDULLAH 2: MURAD 3: na 4: na

**Title:** Maulavi **Designation:** Consul General, Taliban "Consulate General", Quetta  
**DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan  
**Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

**141. \*Name:** 1: ABDUL HAIY 2: AAZEM 3: na 4: na

**Title:** Maulavi **Designation:** First Secretary, Taliban "Consulate General", Quetta  
**DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan  
**Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

**142. \*Name:** 1: HAMDULLAH 2: na 3: na 4: na

**Title:** Maulavi **Designation:** Repatriation Attache, Taliban "Consulate General", Quetta  
**DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan  
**Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

#### **B. The list of entities belonging to or associated with the Taliban**

**1. \*Name:** DE AFGHANISTAN MOMTAZ BANK

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** na **Listed on:** na **\*Other information:** na

#### **C. The list of individuals belonging to or associated with Al-Qaida organisation**

**1. \*Name:** 1: MOHAMAD NASIR 2: ABAS 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 6 May 1969 **POB:** Singapore **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Abu Husna b) Addy Mulyono c) Malik d) Khairudin e) Sulaeman f) Maman g) Husna **\*Nationality:** Malaysian **Passport no.:** A 8239388 **National identification no.:** 690506-71-5515 **Address:** Taman Raja Laut, Sabah, Malaysia **\*Listed on:** 9 Sept. 2003 **\*Other information:** na

2. **\*Name:** 1: MOUSTAFA 2: ABBES 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 5 Feb. 1962 **POB:** Osniers, Algeria **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na  
**\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Via Padova, 82 – Milan, Italy (Domicile)  
**\*Listed on:** 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004) **\*Other information:** na
3. **\*Name:** 1: YUCEF 2: ABBES 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 5 Jan. 1965 **POB:** Bab El Aoued, Algeria **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Giuseppe  
**\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na  
**Address:** a) Via Padova, 82, Milan, Italy (Domicile) b) Via Manzoni, 33 - Cinisello Balsamo (MI), Italy (Domicile) **\*Listed on:** 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004) **\*Other information:** na
4. **\*Name:** 1: ABD AL WAHAB 2: ABD AL HAFIZ 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 7 Sept. 1967 **POB:** Algiers, Algeria **\*Good quality a.k.a.:** a) Ferdjani Mouloud b) Rabah  
**Di Roma Low quality a.k.a.:** Mourad **\*Nationality:** na **Passport no.:** na  
**National identification no.:** na **Address:** Via Lungotevere Dante – Rome, Italy (Domicile) **\*Listed on:** 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004 and 9 Sept. 2005) **\*Other information:** na
5. **\*Name:** 1: SAIYID 2: ABD AL-MAN 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** Abdul Manan  
**Low quality a.k.a.:** a) Agha Haji b) Am  
**\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na  
**\*Listed on:** 17 Oct. 2001 **\*Other information:** Pakistan.
6. **\*Name:** 1: YOUSSEF 2: BEN ABDUL BAKI 3: BEN YUCEF 4: ABDAOUI  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 4 June 1966 b) 4 Sept. 1966 **POB:** Kairouan, Tunisia **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Abu Abdullah b) Abdellah c) Abdullah **\*Nationality:** Tunisian  
**Passport no.:** Tunisian passport number G025057, issued on 23 June 1999, expired on 5 Feb. 2004 **National identification no.:** na **Address:** a) Via Romagnosi, n. 6, Varese, Italy b) Piazza Giovane Italia n.2, Varese, Italy **\*Listed on:** 25 June 2003 (amended on 23 June 2004 and 20 Dec. 2005) **\*Other Information:** Fiscal Code: BDA YSF 66P04 Z352Q
7. **\*Name:** 1: MOHAMED 2: BEN MOHAMED 3: BEN KHALIFA 4: ABDELHEDI

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 10 Aug. 1965 **POB:** Sfax, Tunisia **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na  
**\*Nationality:** Tunisian **Passport no.:** na **National identification no.:** na  
**Address:** via Catalani, n. 1, Varese, Italy **\*Listed on:** 23 June 2004 (amended on 20 Dec. 2005) **\*Other information:** Fiscal Code: BDL MMD 65M10 Z352S

8. **\*Name:** 1: ABD ALLAH 2: MOHAMED 3: RAGAB 4: ABDEL RAHMAN  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 3 Nov. 1957 **POB:** Kafr Al-Shaykh **\*Good quality a.k.a.:** a) Abu Al-Khayr b) Ahmad Hasan c) Abu Jihad **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** May be living in Pakistan, Afghanistan or Iran **\*Listed on:** 29 Sept. 2005 **\*Other information:** na

9. **\*Name:** 1: ALI 2: ABBAS 3: ABDI 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 9 Nov. 2001 **\*Other information:** Mogadishu, Somalia.

10. **\*Name:** 1: ATA 2: ABDOULAZIZ RASHID 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1 Dec. 1973 **POB:** Sulaimaniya, Iraq **\*Good quality a.k.a.:** a) Ata Abdoul Aziz Barzingy b) Abdoulaziz Ata Rashid, born 1 Dec. 1973 **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Iraqi **Passport no.:** German travel document ("Reiseausweise") A 0020375 **National identification no.:** na **Address:** Stuttgart prison, Germany **\*Listed on:** 6 Dec. 2005 **\*Other information:** na

11. **\*Name:** 1: GHUMA 2: ABD'RABBAH 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 2 Sept. 1957 **POB:** Benghazi, Libya **\*Good quality a.k.a.:** a) Ghunia Abdurabba b) Ghoma Abdrabba c) Abd'rabbah d) Abu Jamil **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** British **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Birmingham, United Kingdom **\*Listed on:** 7 Feb. 2006 **\*Other information:** na

12. **\*Name:** 1: MAJEED 2: ABDUL CHAUDHRY 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 15 Apr. 1939 b) 1938 **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** a) Majeed, Abdul b) Majeed Chaudhry Abdul c) Majid, Abdul **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Pakistani **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 24 Dec. 2001 **\*Other information:** na

13. **\*Name:** 1: ZULKIFLI 2: ABDUL HIR 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 5 Jan. 1966 **POB:** Johor, Malaysia **\*Good quality a.k.a.:** Musa Abdul Hir **Low quality**



**a.k.a.:** na **\*Nationality:** Malaysian **Passport no.:** A 11263265 **National identification no.:** 660105-01-5297 **Address:** Seksyen 17, Shah Alam, Selangor, Malaysia **\*Listed on:** 9 Sept. 2003 **\*Other information:** na

**14. \*Name:** 1: DIEMAN 2: ABDULKADIR IZZAT 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 4 July 1965 **POB:** Kirkuk, Iraq **\*Good quality a.k.a.:** Deiman Alhasenben Ali Aljabbari, born 4 July 1965 **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Iraqi **Passport no.:** German travel document ("Reiseausweise") A 0141062 **National identification no.:** na **Address:** Nuremberg prison, Germany **\*Listed on:** 6 Dec. 2005 **\*Other information:** na

**15. \*Name** 1: MOHAMAD 2: IQBAL 3: ABDURRAHMAN 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 17 Aug. 1958 **POB:** Tirpas-Selong Village, East Lombok, Indonesia **\*Good quality a.k.a.:** a) Rahman, Mohamad Iqbal b) A Rahman, Mohamad Iqbal c) Abu Jibril Abdurrahman d) Fikiruddin Muqti e) Fihiruddin Muqti **Low quality a.k.a.:** a) Abu Jibril **\*Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 28 Jan. 2003 (amended on 26 Nov. 2004) **\*Other information:** In December 2003 was reportedly detained in Malaysia.

**16. \*Name:** 1: SULAIMAN 2: JASSEM 3: SULAIMAN 4: ABO GHAITH  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 14 Dec. 1965 **POB:** Kuwait **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Abo Ghaith **\*Nationality:** Kuwaiti citizenship withdrawn **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 16 Jan. 2004 **\*Other information:** na

**17. \*Name:** 1: IBRAHIM 2: ALI 3: MUHAMMAD 4: ABU BAKR  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** Al-Libi, Abd al-Muhsin **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 11 Jan. 2002. **\*Other information:** Affiliated with Afghan Support Committee (ASC) and Revival of Islamic Heritage Society (RIHS).

**18. \*Name:** 1: MOHAMED 2: ABU DHESS 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 22 Feb. 1964 **POB:** Irbid, Jordan **\*Good quality a.k.a.:** a) Yaser Hassan, born 1 Feb. 1966 in Hasmiya b) Abu Ali Abu Mohamed Dhees, born 1 Feb. 1966 in Hasmiya c) Mohamed Abu Dhess, born 1 Feb. 1966 in Hashmija, Iraq **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Jordanian **Passport no.:** a) German International travel document no.: 0695982, expired b) German International travel document no.: 0785146, valid until 8 Apr. 2004 **National identification no.:** na **Address:** Currently in detention awaiting trial **\*Listed on:** 23 Sept. 2003 **\*Other information:** a) Name of father: Mouhemad Saleh Hassan b) Name of mother: Mariam Hassan, née Chalabia c) Distinguishing features: stiffening/deformation of the left index finger

**19. \*Name:** 1: YASSER 2: MOHAMED 3: ISMAIL 4: ABU SHAWEESH  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 20 Nov. 1973 **POB:** Benghazi, Libya **\*Good quality a.k.a.:** Yasser Mohamed Abou Shaweesh **Low quality a.k.a.:** na  
**\*Nationality:** na **Passport no.:** a) Egyptian travel document 939254 b) Egyptian passport 0003213 c) Egyptian passport 981358 d) Passport substitute C00071659 issued by the Federal Republic of Germany **National identification no.:** na  
**Address:** Wuppertal prison, Germany **\*Listed on:** 6 Dec. 2005 **\*Other information:** na

**20. \*Name:** 1: AMIN 2: MUHAMMAD 3: AH HAQ 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1960 **POB:** Nangahar Province, Afghanistan  
**\*Good quality a.k.a.:** a) Al-Haq, Amin b) Amin, Muhammad **Low quality a.k.a.:** a) Dr. Amin b) Ul-Haq, Dr. Amin **\*Nationality:** Afghan national **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001  
**\*Other information:** Security coordinator for UBL.

**21. \*Name:** 1: TARIQ 2: ANWAR 3: EL SAYED 4: AHMED  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 15 Mar. 1963 **POB:** Alexandria, Egypt **\*Good quality a.k.a.:** a) Hamdi Ahmad Farag b) Amr Al-Fatih Fathi **Low quality a.k.a.:** na  
**\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na  
**\*Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 26 Nov. 2004) **\*Other information:** na

**22. \*Name:** 1: ZAKI 2: EZAT 3: ZAKI 4: AHMED  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 21 Apr. 1960 **POB:** Sharqiyah **\*Good quality a.k.a.:** a) Rif'at Salim b) Abu Usama **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** May be on the Pakistani-Afghan border **\*Listed on:** 29 Sept. 2005 **\*Other information:** na

**23. \*Name:** 1: FARID 2: AIDER 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 12 Oct. 1964 **POB:** Algeri, Algeria **\*Good quality a.k.a.:** Achour Ali **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Via Milanese, 5 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italy **\*Listed on:** 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004)  
**\*Other information:** Fiscal Code DRAFRD64R12Z301C

**24. \*Name:** 1: MUSTAPHA NASRI 2: AIT EL HADI 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 5 Mar. 1962 **POB:** Tunis **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** a) Algerian b) German **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 11 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005) **\*Other information:** Son of Abdelkader and Amina Aissaoui.

**25. \*Name:** 1: MOHAMED 2: AMINE 3: AKLI 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 30 Mar. 1972 **POB:** Abordj El Kiffani (Algeria)  
**\*Good quality a.k.a.:** a) Akli Amine Mohamed b) Killech Shamir c) Kali Sami  
**Low quality a.k.a.:** Elias **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National**

**identification no.:** na **Address:** of no fixed address in Italy **\*Listed on:** 25 June 2003 **\*Other information:** na

**26. \*Name:** 1: MOHAMMAD 2: HAMDI 3: SADIQ 4: AL-AHDAL  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** Al-Hamati, Muhammad **Low quality a.k.a.:** Al-Makki, Abu Asim **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 17 Oct. 2001  
**\*Other information:** Yemen.

**27. \*Name:** 1: MEHREZ 2: BEN MAHMOUD 3: BEN SASSI 4: AL-AMDOUNI  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 18 Dec. 1969 **POB:** Asima-Tunis, Tunisia  
**\*Good quality a.k.a.:** a) Fabio Fusco b) Mohamed Hassan **Low quality a.k.a.:** Abu Thale **\*Nationality:** a) Tunisian b) Bosnia and Herzegovina **Passport no.:** a) Tunisian passport number G737411 issued on 24 Oct. 1990, expired on 20 Sept. 1997 b) Bosnian passport number 0801888 **National identification no.:** na **Address:** of no fixed address in Italy **\*Listed on:** 25 June 2003 (amended on 26 Nov. 2004 and 20 Dec. 2005) **\*Other information:** Reportedly arrested in Istanbul, Turkey and deported to Italy.

**28. \*Name:** 1: MOHAMED 2: BEN BELGACEM 3: BEN ABDALLAH 4: AL-AOUADI  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 11 Dec. 1974 **POB:** Tunis, Tunisia **\*Good quality a.k.a.:** Aouadi, Mohamed Ben Belkacem **Low quality a.k.a.:** na  
**\*Nationality:** Tunisian **Passport no.:** L 191609 issued on 28 Feb. 1996, expired on 27 Feb. 2001 **National identification no.:** 04643632 issued on 18 June 1999  
**Address:** a) Via A. Masina n. 7, Milan, Italy b) Via Dopini No 3, GALLARATI - ITALY **\*Listed on:** 24 Apr. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 9 Sept. 2005 and 20 Dec. 2005) **\*Other information:** Codice Fiscale: DAOMMD74T11Z352Z. His mother's name is Bent Ahmed Ourida. Sentenced for three and a half years in Italy on 11 Dec. 2002

**29. \*Name:** 1: AQEEL 2: ABDULAZIZ 3: AL-AQIL 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 29 Apr. 1949 **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 6 July 2004 **\*Other information:** na

**30. \*Name:** 1: SHAFIQ 2: BEN MOHAMED 3: BEN MOHAMED 4: AL-AYADI  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 21 Mar. 1963 b) 21 Jan. 1963 **POB:** Sfax, Tunisia **\*Good quality a.k.a.:** a) Bin Muhammad, Ayadi Chafiq b) Ayadi Chafik, Ben Muhammad c) Aiadi, Ben Muhammad d) Aiady, Ben Muhammad e) Ayadi Shafiq Ben Mohamed f) Ben Mohamed, Ayadi Chafiq **Low quality a.k.a.:** Abou El Baraa **\*Nationality:** a) Tunisian b) Bosnian **Passport no.:** a) E 423362 issued in Islamabad on 15 May 1988 b) Bosnian passport number 0841438 issued on 30

Dec. 1998, expired on 30 Dec. 2003 **National identification no.:** 1292931  
**Address:** a) Helene Meyer Ring 10-1415-80809, Munich, Germany b) 129 Park Road, NW8, London, England c) 28 Chausse Di Lille, Moscron, Belgium d) Last registered address in Bosnia: Street of Provare, No. 20 Sarajevo, Bosnia and Herzegovina **\*Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 26 Nov. 2004 and 20 Dec. 2005) **\*Other information:** The Belgian address is a PO Box. Belgian Authorities state that this person never resided in Belgium. Reportedly living in Dublin, Ireland. His father's name is Mohamed, mother's name is Medina Abid.

31. **\*Name:** 1: CHIEB 2: BEN MOHAMED 3: BEN MOKHTAR 4: AL-AYARI

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 19 Dec. 1965 **POB:** Tunis, Tunisia **\*Good quality a.k.a.:** Hichem Abu Hchem **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L246084, issued on 10 June 1996, expired on 9 June 2001 **National identification no.:** na **Address:** Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy **\*Listed on:** 25 June 2003 (amended on 20 Dec. 2005) **\*Other information:** na

32. **\*Name:** 1: MONDHER 2: BEN MOHSEN 3: BEN ALI 4: AL-BAAZAOUI  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 18 Mar. 1967 **POB:** Kairouan, Tunisia **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Hamza **\*Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number K602878, issued on 5 Nov. 1993, expired on 9 June 2001 **National identification no.:** na **Address:** Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy **\*Listed on:** 25 June 2003 (amended on 20 Dec. 2005) **\*Other information:** na

33. **\*Name:** 1: SULIMAN 2: AL-BUTHE 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 8 Dec. 1961 **POB:** Egypt **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Saudi Arabia **Passport no.:** B049614 **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 28 Sept. 2004 **\*Other information:** na

34. **\*Name:** 1: TAREK 2: BEN AL-BECHIR 3: BEN AMARA 4: AL-CHARAABI  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 31 Mar. 1970 **POB:** Tunis, Tunisia **\*Good quality a.k.a.:** Sharaabi, Tarek **Low quality a.k.a.:** a) Haroun b) Frank **\*Nationality:** Tunisian **Passport no.:** L 579603 issued in Milan on 19 Nov. 1997, expired on 18 Nov. 2002 **National identification no.:** 007-99090 **Address:** Viale Bligny n.42, Milan, Italy **\*Listed on:** 24 Apr. 2002 (amended on 20 Dec. 2005) **\*Other information:** Codice Fiscale: CHRTRK70C31Z352U. His mother's name is Charaabi Hedia.

35. **\*Name:** 1: SAID 2: BEN ABDELHAKIM 3: BEN OMAR 4: AL-CHERIF  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 25 Jan. 1970 **POB:** Menzel Temine, Tunisia **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Djallal b) Youcef c) Abou Salman **\*Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number

M307968, issued on 8 Sept. 2001, expires on 7 Sept. 2006 **National identification no.:** na **Address:** Corso Lodi 59, Milan, Italy **\*Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005) **\*Other information:** na

**36. \*Name:** 1: ASCHRAF 2: AL-DAGMA 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 28 Apr. 1969 **POB:** Absan, Gaza Strip, Palestinian Territories **\*Good quality a.k.a.:** a) Aschraf Al-Dagma, born 28 Apr. 1969 in Kannyouiz, Palestinian Territories b) Aschraf Al Dagma, born 28 Apr. 1969 in the Gaza Strip, Palestinian Territories c) Aschraf Al Dagma, born 28 Apr. 1969 in Palestinian Territories d) Aschraf Al Dagma, born 28 Apr. 1969 in Abasan, Gaza Strip **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Unresolved/Palestinian origin **Passport no.:** Refugee travel document issued by Landratsamt Altenburger Land (Altenburg County Administration Office), Germany, dated 30 Apr. 2000 **National identification no.:** na **Address:** Currently in detention awaiting trial **\*Listed on:** 23 Sept. 2003 **\*Other information:** na

**37. \*Name:** 1: NOUREDINE 2: AL-DRISSI 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 30 Apr. 1964 **POB:** Tunisi, Tunisia **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L851940, issued on 9 Sept. 1998, expired on 8 Sept. 2003 **National identification no.:** na **Address:** Via Plebiscito 3, Cermona, Italy **\*Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005) **\*Other information:** na

**38. \*Name:** 1: MUHSIN 2: AL-FADHLI 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 24 Apr. 1981 **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** a) Muhsin Fadhil 'Ayyid al Fadhli b) Muhsin Fadil Ayid Ashur al Fadhli c) Abu Majid Samiyah d) Abu Samia **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** na **Passport no.:** Kuwaiti 106261543 **National identification no.:** na **Address:** Block Four, Street 13, House #179 Kuwait City, Al-Riqqa area, Kuwait **\*Listed on:** 17 Feb. 2005 **\*Other information:** na

**39. \*Name:** 1: ABD 2: AL-RAHMAN 3: AL-FAQIH 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 15 Dec. 1959 **POB:** Libya **\*Good quality a.k.a.:** a) Mohammed Albashir b) Muhammad Al-Bashir c) Bashir Mohammed Ibrahim Al-Faqi d) Al-Basher Mohammed e) Abu Mohammed f) Mohammed Ismail g) Abu Abd Al Rahman h) Abd Al Rahman Al-Khatib i) Mustafa j) Mahmud k) Abu Khalid **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Birmingham, United Kingdom **\*Listed on:** 7 Feb. 2006 **\*Other information:** na

**40. \*Name:** 1: SAAD 2: RASHED 3: MOHAMMAD 4: AL-FAQIH  
**Title:** Doctor **Designation:** na **DOB:** 1 Feb. 1957 **POB:** Zubair, Iraq **\*Good quality a.k.a.:** a) Abu Uthman Sa'd Al-Faqih b) Sa'ad Al-Faqih c) Saad Alfagih d) Sa'd Al-Faqi e) Saad Al-Faqih f) Saad Al Faqih g) Saad Al-Fagih h) Saad Al-Fakih **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Saudi Arabian **Passport no.:** na

**National identification no.:** na **Address:** London, United Kingdom **\*Listed on:** 23 Dec. 2004 **\*Other information:** na

**41. \*Name:** 1: KHALID 2: AL-FAWAZ 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 25 Aug. 1962 **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** a) Al-Fawwaz, Khaled b) Al-Fauwaz, Khaled A. c) Al-Fawwaz, Khalid d) Al Fawwaz, Khalik e) Al-Fawwaz, Khaled f) Al Fawwaz, Khaled **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** 55 Hawarden Hill, Brooke Road, London NW2 7BR, UK **\*Listed on:** 24 Apr. 2002 (amended on 26 Nov. 2004) **\*Other information:** na

**42. \*Name:** 1: FATHUR 2: ROHMAN 3: AL-GHOZHI 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 17 Feb. 1971 **POB:** Madiun, East Java, Indonesia **\*Good quality a.k.a.:** a) Al Ghozi, Fathur Rohman b) Al Ghozi, Fathur Rahman c) Al-Gozi, Fathur Rohman d) Al-Gozi, Fathur Rahman e) Alghozi, Fathur Rohman f) Alghozi, Fathur Rahman g) Al-Gozhi, Fathur Rohman h) Al-Gozhi, Fathur Rahman i) Randy Alih j) Randy Ali k) Alih Randy l) Randy Adam Alih m) Sammy Sali Jamil n) Sammy Salih Jamil o) Rony Azad p) Rony Azad Bin Ahad q) Rony Azad Bin Ahmad r) Rony Azad Bin Amad s) Edris Anwar Rodin **Low quality a.k.a.:** a) Abu Saad b) Abu Sa'ad c) Freedom Fighter **\*Nationality:** Indonesian **Passport no.:** Philippines GG 672613 **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 9 Sept. 2003 (amended on 26 Nov. 2004) **\*Other information:** Reportedly killed in October 2003 in the Philippines.

**43. \*Name:** 1: FETHI 2: BEN HASSEN 3: BEN SALEM 4: AL-HADDAD  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 28 June 1963 **POB:** Tataouene, Tunisia **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L183017, issued on 14 Feb. 1996, expired on 13 Feb. 2001 **National identification no.:** na **Address:** a) Via Fulvio Testi, 184 – Cinisello Balsamo (MI) – Italy b) Via Porte Giove, 1 – Mortara (PV), Italy (Domicile) **\*Listed on:** 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004 and 20 Dec. 2005) **\*Other information:** Fiscal Code: HDDFTH63H28Z352V

**44. \*Name:** 1: IBRAHIM 2: BEN HEDHILI 3: AL-HAMAMI 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 20 Nov. 1971 **POB:** Koubellat, Tunisia **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number Z106861, issued on 18 Feb. 2004, expires on 17 Feb. 2009 **National identification no.:** na **Address:** Via de' Carracci n.15, Casalecchio di Reno (Bologna) Italy **\*Listed on:** 25 June 2003 (amended on 20 Dec. 2005) **\*Other information:** na

**45. \*Name:** 1: KAMAL 2: BEN MAOELDI 3: AL-HAMRAOUI 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 21 Oct. 1977 **POB:** Beja, Tunisia **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Kamel b) Kimo **\*Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number P229856, issued on 1 Nov. 2002, expires on 31 Oct. 2007 **National identification no.:** na **Address:** a) Via Bertesi 27,

Cermona, Italy **b)** Via Plebiscito 3, Cremona, Italy **\*Listed on:** 12 Nov. 2003  
(amended on 20 Dec. 2005) **\*Other information:** na

**46. \*Name:** 1: AHMED 2: MOHAMMED 3: HAMED 4: ALI  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1965 **POB:** Egypt **\*Good quality a.k.a.:** a) Abdurehman, Ahmed Mohammed **b)** Ahmed Hamed **c)** Ali, Ahmed Mohammed **d)** Ali, Hamed **e)** Hemed, Ahmed **f)** Shieb, Ahmed **Low quality a.k.a.:** a) Abu Fatima **b)** Abu Islam **c)** Abu Khadijah **d)** Ahmed The Egyptian **e)** Ahmed, Ahmed **f)** Al-Masri, Ahmad **g)** Al-Surir, Abu Islam **h)** Shuaib **\*Nationality:** Egypt **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 17 Oct. 2001 **\*Other information:** Afghanistan.

**47. \*Name:** 1: THARWAT 2: SALAH 3: SHIHATA 4: ALI  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 29 June 1960 **POB:** Egypt **\*Good quality a.k.a.:** a) Tarwat Salah Abdallah **b)** Salah Shihata Thirwat **c)** Shahata Thirwat **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 26 Nov. 2004) **\*Other information:** na

**48. \*Name:** 1: MAZEN 2: ALI HUSSEIN 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1 Jan. 1982 **POB:** Baghdad, Iraq **\*Good quality a.k.a.:** Issa Salah Muhamad, bom 1 Jan. 1980 **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Iraqi **Passport no.:** German travel document ("Reiseausweise") A 0144378 **National identification no.:** na **Address:** Schwäbisch Hall prison, Germany **\*Listed on:** 6 Dec. 2005 **\*Other information:** na

**49. \*Name:** 1: ABD AL-HADI 2: AL-IRAQI 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** Abdal Al-Hadi Al-Iraqi **Low quality a.k.a.:** Abu Abdallah **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 6 Oct. 2001 **\*Other information:** na

**50. \*Name:** 1: MOHAMMED 2: AHMED 3: SHAWKI 4: AL ISLAMBOLLY  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 21 Jan. 1952 **POB:** El-Minya **\*Good quality a.k.a.:** a) Abu Khalid **b)** Abu Ja'far **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** May be living in Pakistan, Afghanistan or Iran **\*Listed on:** 29 Sept. 2005 **\*Other information:** na

**51. \*Name:** 1: SAQAR 2: AL-JADAWI 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1965 **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Thought to be a Yemeni and Saudi national. **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** Aide to UBL.

**52. \*Name:** 1: IMAD 2: BEN BECHIR 3: AL-JAMMALI 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 25 Jan. 1968 **POB:** Menzel Temine, Tunisia  
**\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** \***Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number K693812, issued on 23 Apr. 1999, expired on 22 Apr.  
2004 **National identification no.:** na **Address:** via Dubini, n. 3, Gallarate, Varese, Italy **Listed on:** 23 June 2004 (amended on 20 Dec. 2005) **\*Other information:** Fiscal Code: JMM MDI 68A25 Z352D

53. **\*Name:** 1: ABU BAKR 2: AL-JAZIRI 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Peshawar, Pakistan **\*Listed on:** 11 Jan. 2002  
**\*Other information:** Affiliated with Afghan Support Committee (ASC).

54. **\*Name:** 1: RIADH 2: AL-JELASSI 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 15 Dec. 1970 **POB:** Al-Mohamedia, Tunisia  
**\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L276046, issued on 1 July 1996, expired on 30 June 2001 **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 3 Sept. 2002 (amended on 20 Dec. 2005) **\*Other information:** na

55. **\*Name:** 1: FAOUZI 2: AL-JENDOUBI 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 30 Jan. 1966 **POB:** Beja, Tunisia **\*Good quality a.k.a.:** Low quality a.k.a.: a) Said b) Samir **\*Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number K459698, issued on 6 Mar. 1999, expired on 5 Mar. 2004 **National identification no.:** na **Address:** a) Via Agucchi n.250, Bologna, Italy b) Via di Saliceto n.51/9, Bologna, Italy **\*Listed on:** 25 June 2003 (amended on 20 Dec. 2005) **\*Other information:** na

56. **\*Name:** 1: AHMAD 2: FADIL 3: NAZAL 4: AL-KHALAYLEH  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 30 Oct. 1966 **POB:** Al-Zarqaa, Jordan **\*Good quality a.k.a.:** a) Abu Musab Al-Zarqawi b) Muhannad c) Al-Muhajer d) Garib **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Whereabouts currently unknown **\*Listed on:** 23 Sept. 2003  
**\*Other information:**

57. **\*Name:** 1: IBN AL-SHAYKH 2: AL-LIBI 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 6 Oct. 2001 **\*Other information:** na

58. **\*Name:** 1: HABIB 2: BEN 3: AHMED 4: AL-LOUBIRI  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 17 Nov. 1961 **POB:** Menzel Temime, Tunisia  
**\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number M788439, issued on 20 Oct. 2001, expires on 19 Oct. 2006 **National identification no.:** na **Address:** via Brughiera, n. 5,



Castronno, Varese, Italy \*Listed on: 23 June 2004 (amended on 20 Dec. 2005)

\*Other information: Fiscal Code: LBR HBB 61S17 Z352F

59. \*Name: 1: TAREK 2: BEN HABIB 3: AL-MAAROUFI 4: na

Title: na Designation: na DOB: 23 Nov. 1965 POB: Ghar el-dimaa, Tunisia

\*Good quality a.k.a.: Abu Ismail Low quality a.k.a.: na \*Nationality: a)

Tunisian b) Belgian national since 8 Nov. 1993 Passport no.: Tunisian passport

number E590976, issued on 19 June 1987, expired on 18 June 1992 National

identification no.: na Address: Gaucheret 193, 1030 Scherbeek, Brussels,

Belgium \*Listed on: 3 Sept. 2002 (amended on 26 Nov. 2004 and 20 Dec. 2005)

\*Other information: na

60. \*Name: 1: YASIN 2: na 3: na 4: AL-QADI

Title: na Designation: na DOB: na POB: na \*Good quality a.k.a.: a) Kadi,

Shaykh Yassin Abdullah b) Kahdi, Yasin Low quality a.k.a.: na \*Nationality: na

Passport no.: na National identification no.: na Address: na \*Listed on: 17 Oct.

2001 \*Other information: Jeddah, Saudi Arabia.

61. \*Name: 1: NAZIH 2: ABDUL HAMED 3: AL-RAGHIE 4: na

Title: na Designation: na DOB: a) 30 Mar. 1964 b) 14 May 1964 POB: Tripoli,

Libya \*Good quality a.k.a.: a) Anas Al- Liby b) Al-Libi, Anas c) Al-Raghie,

Nazih d) Al-Sabai, Anas Low quality a.k.a.: na \*Nationality: Libya Passport

no.: na National identification no.: na Address: na \*Listed on: 17 Oct. 2001

\*Other information: Afghanistan.

62. \*Name: 1: LOFTI 2: AL-RIHANI 3: na 4: na

Title: na Designation: na DOB: 1 July 1977 POB: Tunisi, Tunisia \*Good

quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: Abderrahmane \*Nationality: Tunisian

Passport no.: Tunisian passport number L886177, issued on 14 Dec. 1998,

expired on 13 Dec. 2003 National identification no.: na Address: Via Bolgeri 4,

Barni (Como), Italy \*Listed on: 12 Nov. 2003 (amended on 9 Sept. 2005 and 20

Dec. 2005) \*Other information: na

63. \*Name: 1: FARAJ 2: FARJ 3: HASSAN 4: AL SAADI

Title: na Designation: na DOB: 28 Nov. 1980 POB: Libia \*Good quality a.k.a.:

a) Mohamed Abdulla Imad, POB: Gaza, DOB: 28 Nov. 1980 b) Muhamad

Abdullah Imad, POB: Giordania, DOB: 28 Nov. 1980 c) Imad Mouhamed

Abdellah, POB: Palestine, DOB: 28 Nov. 1980, Domicile: Viale Bligny 42, Milan,

Italy Low quality a.k.a.: Hamza "the Libyan" \*Nationality: na Passport no.: na

National identification no.: na Address: na \*Listed on: 12 Nov. 2003 \*Other

information: na

64. \*Name: 1: HANI 2: AL-SAYYID 3: AL-SEBAI 4: na

Title: na Designation: na DOB: a) 1 Mar. 1961 b) 16 June 1960 POB:

Qaylubiyyah, Egypt \*Good quality a.k.a.: a) Hani Yousef Al-Sebai b) Hani

Youssef c) Hany Youseff d) Hani Yusef e) Hani al-Sayyid Al-Sabai f) Hani al-

Sayyid El Sebai g) Hani al-Sayyid Al Siba'i h) Hani al-Sayyid El Sabaay i) El-Sababt j) Abu Tusnin k) Abu Akram l) Hani El Sayyed Elsebai Yusef m) Abu Karim Low quality a.k.a.: na \*Nationality: Egyptian Passport no.: na National identification no.: na Address: London, United Kingdom \*Listed on: 29 Sept. 2005 (amended on 6 Oct. 2005) \*Other information: na

65. \*Name: 1: SA'D 2: AL-SHARIF 3: na 4: na  
 Title: na Designation: na DOB: 1969 POB: Saudi Arabia \*Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na \*Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: na \*Listed on: 25 Jan. 2001 \*Other information: Brother-in-law and close associate of UBL. Said to be head of UBL's financial organization.

66. \*Name: 1: AL-AZHAR 2: BEN MOHAMMED 3: AL-TLILI 4: na  
 Title: na Designation: na DOB: 1 Nov. 1971 POB: Ben Aoun, Tunisia \*Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na \*Nationality: Tunisian Passport no.: Tunisian passport number Z417830, issued on 4 Oct. 2004, expires on 3 Oct. 2009 National identification no.: na Address: Via Carlo Porta n. 97, Legnano, Italy \*Listed on: 3 Sept. 2002 (amended on 20 Dec. 2005) \*Other information: Italian Fiscal Code: TLLLHR69C26Z352G

67. \*Name: 1: CHABAANE 2: BEN MOHAMED 3: BEN MOHAMED 4: AL-TRABELSI  
 Title: na Designation: na DOB: 1 May 1966 POB: Rainneen, Tunisia \*Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na \*Nationality: Tunisian Passport no.: Tunisian passport number L945660, issued on 4 Dec. 1998, expired on 3 Dec. 2001 National identification no.: na Address: via Cuasso, n. 2, Porto Ceresio, Varese, Italy \*Listed on: 23 June 2004 (amended on 20 Dec. 2005) \*Other information: Fiscal Code: TRB CBN 66E01 Z3520

68. \*Name: 1: MOURAD 2: BEN ALI 3: BEN AL-BASHEER 4: AL-TRABELSI  
 Title: na Designation: na DOB: 20 May 1969 POB: Menzel Temime, Tunisia \*Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: Abou Djarrah \*Nationality: Tunisian Passport no.: Tunisian passport number G827238, issued on 1 June 1996, expired on 31 May 2001 National identification no.: na Address: Via Geromini 15, Cremona, Italy \*Listed on: 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005) \*Other information: na

69. \*Name: 1: HASSAN 2: ABDULLAH 3: HERSI 4: AL-TURKI  
 Title: na Designation: na DOB: Approximately 1944 POB: Region V, Ethiopia, which is the Ogaden Region in eastern Ethiopia \*Good quality a.k.a.: Hassan Turki Low quality a.k.a.: na \*Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: na \*Listed on: 6 July 2004 \*Other information: Family Background: From the Ogaden clan, Reer - Abdille subclan.

70. \*Name: 1: HABIB 2: AL-WADHANI 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1 June 1970 **POB:** Tunis, Tunisia **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L550681, issued on 23 Sept. 1997, expired on 22 Sept. 2002 **National identification no.:** na **Address:** Via unica Borighero n. 1, San Donato M.se (MI), Italy **\*Listed on:** 3 Sept. 2002 (amended on 20 Dec. 2005) **\*Other information:** Italian Fiscal Code: WDDHBB70H10Z3520

71. **\*Name:** 1: MAHFOUZ 2: OULD 3: AL-WALID 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1 Jan. 1975 **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** a) Abu Hafs the Mauritanian b) Khalid Al- Shanqiti c) Mafouz Walad Al-Walid d) Mahamedou Ouid Slahi **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 6 Oct. 2001 **\*Other information:** na

72. **\*Name:** 1: NAJIB 2: BEN MOHAMED 3: BEN SALEM 4: AL-WAZ

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 12 Apr. 1960 **POB:** Hekaima Al-Mehdiya, Tunisia **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number K815205, issued on-17 Sept. 1994, expired on 16 Sept. 1999 **National identification no.:** na **Address:** Vicolo dei Prati n.2/2, Bologna, Italy **\*Listed on:** 25 June 2003 (amended on 20 Dec. 2005) **\*Other information:** na

73. **\*Name:** 1: IMAD 2: BEN AL-MEKKI 3: AL-ZARKAOUI 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 15 Jan. 1973 **POB:** Tunisi, Tunisia **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Zarga b) Nadra **\*Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number M174950, issued on 27 Apr. 1999, expired on 26 Apr. 2004 **National identification no.:** na **Address:** via Col. Aprosio 588, Vallecrosia (IM), Italy (Domicilie) **\*Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005) **\*Other information:** na

74. **\*Name:** 1: AIMAN 2: MUHAMMED 3: RABI 4: AL-ZA VAHIRI

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 19 June 1951 **POB:** Giza, Egypt **\*Good quality a.k.a.:** a) Ayman Al-Zawahari b) Ahmed Fuad Salim **\*Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Thought to be an Egyptian national **Passport no.:** a) 1084010 (Egypt) b) 19820215 **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** Operational and Military Leader of Jihad Group. Former leader of Egyptian Islamic Jihad, now a close associate of UBL.

75. **\*Name:** 1: SHAYKH 2: \*ABD-AL-MAJID 3: AL-ZINDANI 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** Approximately 1950 **POB:** Yemen **\*Good quality a.k.a.:** a) Abdelmajid Al-Zindani b) Shaykh 'Abd Al-Majid Al-Zindani **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Yemeni **Passport no.:** A005487 (Yemen) issued 13 Aug. 1995 **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 27 Feb. 2004 **\*Other information:** na

76. **\*Name:** 1: HACENE 2: ALLANE 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 17 Jan. 1941 **POB:** El Ménée/Algeria **\*Good quality a.k.a.:** a) Hassan the Old b) Al Sheikh Abdelhay c) Boulahia d) Abu al-Foutouh e) Cheib Ahcène **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** probably Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 3 May 2004 **\*Other information:** na

**77. \*Name:** 1: SAIFI 2: AMMARI 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1 Jan. 1968 **POB:** Kef Rih, Algeria **\*Good quality a.k.a.:** a) El Para (combat name) b) Abderrezak Le Para c) Abou Haidara d) El Ourassi e) Abderrezak Zaimeche f) Abdul Rasak ammane Abu Haidra g) Abdalarak **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 4 Dec. 2003 **\*Other information:** na

**78. \*Name:** 1: MUHSIN 2: MOUSSA 3: MATWALLI 4: ATWAH DEWEDAR **Title:** na **Designation:** na **DOB:** 19 June 1964 **POB:** Dakahliya, Egypt **\*Good quality a.k.a.:** a) Al-Muhajir, Abdul Rahman b) Al-Namer, Mohammed K.A. **Low quality a.k.a.:** a) Abdel Rahman b) Abdul Rahman **\*Nationality:** Egypt **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 26 Nov. 2004) **\*Other information:** Afghanistan.

**79. \*Name:** 1: SAJID 2: MOHAMMED 3: BADAT 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 28 Mar. 1979 b) 8 Mar. 1976 **POB:** Gloucester, United Kingdom **\*Good quality a.k.a.:** a) Abu Issa b) Saajid Badat c) Sajid Badat d) Muhammed Badat e) Sajid Muhammad Badat f) Saajid Mohammad Badet g) Muhammed Badet h) Sajid Muhammad Badet **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** na **Passport no.:** a) United Kingdom passport number 703114075 b) United Kingdom passport number 026725401 **National identification no.:** na **Address:** United Kingdom **\*Listed on:** 15 Dec. 2005 **\*Other information:** Currently imprisoned in the United Kingdom. Previous address is Gloucester, United Kingdom

**80. \*Name:** 1: SAID 2: BAHAJI 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 15 July 1975 **POB:** Haselünne/Lower Saxony/Germany **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Germany and Morocco **Passport no.:** Provisional German Passport No.: 28642163 (issued by the city of Hamburg) **National identification no.:** BPA Nr. 1336597587 **Address:** Formerly resident at: Bunatwiete 23, 21073 Hamburg/Germany **\*Listed on:** 30 Sept. 2002 (amended on 26 Nov. 2004 and 9 Sept. 2005) **\*Other information:** He also has an expired Moroccan passport number 954242 issued on 28 June 1995 in Meknas, Morocco

**81. \*Name:** 1: SHAMIL 2: BASAYEV 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 14 Jan. 1965 **POB:** Chechen village of Dyshni-Vedeno **\*Good quality a.k.a.:** Abdullakh Shamil Abu-Idris **Low quality a.k.a.:**

na \*Nationality: na Passport no.: As of January 2002, Russian passport number was 623334 National identification no.: na Address: na \*Listed on: 12 Aug. 2003 \*Other information: na

82. \*Name: 1: MAHMOOD 2: SULTAN 3: BASHIR-UD-DIN 4: na  
Title: na Designation: na DOB: a) 1937 b) 1938 c) 1939 d) 1940 e) 1941 f) 1942 g) 1943 h) 1944 i) 1945 POB: na \*Good quality a.k.a.: a) Mahmood, Sultan Bashiruddin b) Mehmood, Dr. Bashir Uddin c) Mekmud, Sultan Baishiruddin Low quality a.k.a.: na \*Nationality: Pakistani Passport no.: na National identification no.: na Address: Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan \*Listed on: 24 Dec. 2001 \*Other information: na

83. \*Name: 1: ADEL 2: ABDUL 3: JALIL 4: BATTERJEE  
Title: na Designation: na DOB: 1 July 1946 POB: Jeddah, Saudi Arabia \*Good quality a.k.a.: a) 'Adil Al-Battarjee b) Adel Batterjee c) 'Adil 'Abd al Jalil Batarji Low quality a.k.a.: na \*Nationality: Saudi Arabian Passport no.: na National identification no.: na Address: 2 Helmi Kutbi Street, Jeddah, Saudi Arabia \*Listed on: 23 Dec. 2004 \*Other information: na

84. \*Name: 1: MOKHTAR 2: BELMOKHTAR 3: na 4: na  
Title: na Designation: na DOB: 1 June 1972 POB: Ghardaia \*Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na \*Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: na \*Listed on: 11 Nov. 2003 \*Other information: Son of Mohamed and Zohra Chemkha.

85. \*Name: 1: NABIL 2: BEN ATTIA 3: na 4: na  
Title: na Designation: na DOB: 11 May 1966 POB: Tunis, Tunisia \*Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na \*Nationality: Tunisian Passport no.: Tunisian passport number L289032, issued on 22 Aug. 2001, expires on 21 Aug. 2006 National identification no.: na Address: na \*Listed on: 3 Sept. 2002 (amended on 20 Dec. 2005) \*Other information: na

86. \*Name: 1: L'HADI 2: BENDEBKA 3: na 4: na  
Title: na Designation: na DOB: 17 Nov. 1963 POB: Algeri, Algeria \*Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: a) Abd Al Hadi b) Hadi \*Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: a) Via Garibaldi, 70 – San Zenone al Po (PV), Italy (as of 17 Dec. 2001) b) Via Manzoni, 33 – Cinisello Balsamo (MI), Italy (Domicile) \*Listed on: 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004) \*Other information: na

87. \*Name: 1: MOHAMMED 2: BENHAMMEDI 3: na 4: na  
Title: na Designation: na DOB: 22 Sept. 1966 POB: Libya \*Good quality a.k.a.: a) Mohamed Hannadi b) Mohamed Ben Hammidi c) Muhammad Muhammad Bin Hammidi d) Ben Hammidi e) Panhammedi f) Abu Hajir g) Abu Hajir Al Libi h) Abu Al Qassam Low quality a.k.a.: na \*Nationality: Libyan

**Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Midlands, United Kingdom **\*Listed on:** 7 Feb. 2006 (amended 22 Feb. 2006) **\*Other information:** na

**88. \*Name:** 1: LASED 2: BEN HENI 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 5 Feb. 1969 **POB:** Libya **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 24 Apr. 2002 (amended on 26 Nov. 2004 and 9 Sept. 2005) **\*Other information:** In Germany the case was dismissed, he was convicted in Italy on 11 Dec. 2002 and received a six-year sentence.

**89. \*Name:** 1: ADEL 2: BEN AL-AZHAR 3: BEN YOUSSEF 4: BEN SOLTANE  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 14 July 1970 **POB:** Tunis, Tunisia **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number M408665, issued on 4 Oct. 2000, expired 3 Oct. 2005 **National identification no.:** na **Address:** Via Latisana n. 6, Milan, Italy **\*Listed on:** 3 Sept. 2002 (amended 20 Dec. 2005) **\*Other information:** Italian Fiscal Code: BNSDLA70L14Z352B. Currently jailed in Tunisia.

**90. \*Name:** 1: USAMA 2: MUHAMMED 3: AWAD 4: BIN LADEN  
**Title:** no **Designation:** no **DOB:** a) 30 July 1957 b) 28 July 1957 **POB:** a) Jeddah, Saudi Arabia b) Yemen **\*Good quality a.k.a.:** a) Usama Bin Laden b) Usama Bin Muhammed Bin Awad, Osama Bin Laden **Low quality a.k.a.:** Abu Abdallah Abd Al-Hakim **\*Nationality:** Saudi citizenship withdrawn, now officially and Afghan national **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** na

**91. \*Name:** 1: BILAL 2: BIN MARWAN 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1947 **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** Senior lieutenant of UBL.

**92. \*Name:** 1: ZULKEPLI 2: BIN MARZUKI 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 3 July 1968 **POB:** Selangor, Malaysia **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Malaysian **Passport no.:** A 5983063 **National identification no.:** 680703-10-5821 **Address:** Taman Puchong Perdana, Selangor, Malaysia **\*Listed on:** 9 Sept. 2003 **\*Other information:** na

**93. \*Name:** 1: RAMZI 2: MOHAMED 3: ABDULLAH 4: BIN ALSHIBH  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 1 May 1972 b) 16 Sept. 1973 **POB:** a) Hadramawt/Yemen b) Khartoum, Sudan **\*Good quality a.k.a.:** a) Binalsheidah, Ramzi Mohamed Abdullah b) Bin Al Shibh, Ramzi c) Omar, Ramzi Mohamed

Abdellah Low quality a.k.a.: na \*Nationality: a) Yemen b) Sudan Passport no.: 00085243 (issued on 12 Nov. 1997 in Sanaa/Yemen) National identification no.: na Address: na \*Listed on: 30 Sept. 2002 (amended on 26 Nov. 2004) \*Other information: na

94. \*Name: 1: AL-MOKHTAR 2: BEN MOHAMED 3: BEN AL-MOKHTAR 4: BOUCHOUCHA

Title: na Designation: na DOB: 13 Oct. 1969 POB: Tunis, Tunisia \*Good quality a.k.a.: Bushusha, Mokhtar Low quality a.k.a.: na \*Nationality: Tunisian Passport no.: Tunisian passport number K754050, issued on 26 May 1999, expired on 25 May 2004 National identification no.: 04756904 issued on 14 Sept. 1987 Address: Via Milano n. 38, Spinadesco (CR), Italy \*Listed on: 24 Apr. 2002 (amended on 26 Nov. 2004 and 20 Dec. 2005) \*Other information: Codice Fiscale: BCHMHT69R13Z352T. His mother's name is Bannour Hedia. Convicted in Italy on 11 Dec. 2002 and received a three and a half year sentence.

95. \*Name: 1: FAYCAL 2: BOUGHANEMI 3: na 4: na

Title: na Designation: na DOB: 28 Oct. 1966 POB: Tunis, Tunisia \*Good quality a.k.a.: Faical Boughanmi Low quality a.k.a.: na \*Nationality: Tunisian Passport no.: na National identification no.: na Address: viale Cambonino, 5/B, Cremona, Italy \*Listed on: 29 July 2005 \*Other information: Fiscal code: BGHFCL66R28Z352G

96. \*Name: 1: HAMADI 2: BEN ALI 3: BOUYEHIA 4: na

Title: na Designation: na DOB: 29 May 1966 POB: Tunisia \*Good quality a.k.a.: Gamel Mohamed, POB: Morocco, DOB: 25 May 1966 Low quality a.k.a.: na \*Nationality: Tunisian Passport no.: Tunisian passport number L723315, issued on

5 May 1998, expired on 4 May 2003 National identification no.: na Address: Corso XXII Marzo 39, Milan, Italy (Domicile) \*Listed on: 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005) \*Other information: na

97. \*Name: 1: YASSINE 2: CHEKKOURI 3: na 4: na

Title: na Designation: na DOB: 6 Oct. 1966 POB: Safi, Morocco \*Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na \*Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: na \*Listed on: 3 Sept. 2002 \*Other information: na

98. \*Name: 1: MAXAMED 2: CABDULLAAH 3: CIISE 4: na

Title: na Designation: na DOB: 8 Oct. 1974 POB: Somalia \*Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: na \*Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: Mosque in Via Quaranta, Milan, Italy (Domicile) \*Listed on: 12 Nov. 2003 (amended on 9 Sept. 2005) \*Other information: na

99. \*Name: 1: AWEYS 2: HASSAN 3: DAHIR 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1935 **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** a) Ali, Sheikh Hassan Dahir Aweys b) Awes, Shaykh Hassan Dahir **Low quality a.k.a.:** **\*Nationality:** Somalia **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 9 Nov. 2001 **\*Other information:** na

**100. \*Name:** 1: MAMOUN 2: DARKAZANLI 3: na 4: na **Title:** na **Designation:** na **DOB:** 4 Aug. 1958 **POB:** Damascus/Syria **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Abu Ilyas b) Abu Ilyas Al Suri c) Abu Luz **\*Nationality:** Syrian and German **Passport no.:** 1310636262 (Germany), expires 29 Oct. 2005 **National identification no.:** German identity card No. 1312072688, expires 29 Oct. 2005 **Address:** Uhlenhorster Weg 34, Hamburg, 22085 Germany **\*Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 26 Nov. 2004) **\*Other information:** na

**101. \*Name:** 1: KAMAL 2: BEN MOHAMED 3: BEN AHMED 4: DARRAJI **Title:** na **Designation:** na **DOB:** 22 July 1967 **POB:** Menzel Bouzelfa, Tunisia **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L029899, issued on 14 Aug. 1995, expired on 13 Aug. 2000 **National identification no.:** na **Address:** via Belotti, n. 16, Busto Arsizio, Varese, Italy **\*Listed on:** 23 June 2004 (amended on 20 Dec. 2005) **\*Other information:** Fiscal Code: a) DDR KML 67L22 Z352Q b) DRR KLB 67L22 Z352S

**102. \*Name:** 1: SULAYMAN 2: KHALID 3: DARWISH 4: na **Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 1976 b) Approximately 1974 **POB:** Outside Damascus, Syria **\*Good quality a.k.a.:** Abu Al-Ghadiya **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Syrian **Passport no.:** a) Syrian 3936712 b) Syrian 11012 **National identification no.:** na **Address:** Syria **\*Listed on:** 28 Jan. 2005 **\*Other information:** na

**103. \*Name:** 1: OTHMAN 2: DERAMCHI 3: na 4: na **Title:** na **Designation:** na **DOB:** 7 June 1954 **POB:** Tighennif, Algeria **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Abou Youssef **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** a) Via Milanese, 5 – 20099 Sesto San Giovanni (MI), Italy b) Piazza Trieste, 11 – Mortara - Italy (Domicile as of October 2002) **\*Listed on:** 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004) **\*Other information:** Fiscal Code DRMTMN54H07Z301T

**104. \*Name:** 1: KAMEL 2: DJERMANE 3: na 4: na **Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1965 **POB:** Oum el Bouaghi/Algeria **\*Good quality a.k.a.:** a) Bilal b) Adel c) Fodhil **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** probably Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 3 May 2004 **\*Other information:** na

**105. \*Name:** 1: LIONEL 2: DUMONT 3: na 4: na



**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 21 Jan. 1971 b) 29 Jan. 1975 **POB:** Roubaix, France **\*Good quality a.k.a.:** a) Jacques Brougere b) Abu Hamza c) Di Karlo Antonio d) Merlin Oliver Christian Rene e) Arfauni Imad Ben Yousset Hamza f) Imam Ben Yussuf Arfaj **Low quality a.k.a.:** a) Bilal b) Hamza **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** of non-fixed address in Italy **\*Listed on:** 25 June 2003 (amended on 22 Nov. 2004 and 26 Nov. 2004) **\*Other information:** International arrest warrant issued for him by Interpol. Arrested in Germany on 13 Dec. 2003, extradited to France on 18 May 2004. As of October 2004 he is in detention.

**106. \*Name:** 1: SAFET 2: DURGUTI 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 10 May 1967 **POB:** Orahovac, Kosovo **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 26 Dec. 2003 **\*Other information:** na

**107. \*Name:** 1: AGUS 2: DWIKARNA 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 11 Aug. 1964 **POB:** Makassar, South Sulawesi, Indonesia **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 9 Sept. 2003 (amended on 26 Nov. 2004) **\*Other information:** Arrested 13 Mar. 2002, sentenced 12 July 2002 in the Philippines.

**108. \*Name:** 1: YOUSSEF 2: MUSTAPHA 3: NADA 4: EBADA

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 17 May 1931 **POB:** Alexandria, Egypt **\*Good quality a.k.a.:** a) Nada, Youssef b) Nada, Youssef M. c) Youssef Mustapha Nada **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** Italian Identity Card Nr. AE 1111288, expiration date 21 Mar. 2005. **Address:** a) via Arogno 32, 6911 Campione d'Italia, Italy b) via per Arogno 32, ch-6911 Campione d'Italia, Italy c) via Riasc 4, ch-6911 Campione d'Italia I, Italy **\*Listed on:** 9 Nov. 2001 (amended on 26 Nov. 2004) **\*Other information:** na

**109. \*Name:** 1: DHOU 2: EL-AICH 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 5 Aug. 1964 **POB:** Debila/Algeria **\*Good quality a.k.a.:** Abdel Hak **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** probably Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 3 May 2004 **\*Other information:** na

**110. \*Name:** 1: ABDULLAH 2: AHMED 3: ABDULLAH 4: EL ALFI

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 6 June 1963 **POB:** Gharbia, Egypt **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Abu Mariam b) Al-Masri, Abu Mohamed c) Saleh **\*Nationality:** Egypt **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 17 Oct. 2001 (amended on 26 Nov. 2004) **\*Other information:** Afghanistan.

**111. \*Name:** 1: RAD1 2: ABD EL SAMIE 3: ABOU EL YAZID 4: EL AYASHI  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 2 Jan. 1972 **POB:** El Gharbia, Egypt **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Mera'I **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Via Cilea 40, Milan, Italy (Domicile)  
**\*Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 9 Sept. 2005) **\*Other information:** na

**112. \*Name:** 1: AHMED 2: EL BOUHALI 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 31 May 1963 **POB:** Sidi Kacem, Morocco  
**\*Good quality a.k.a.:** Abu Katada **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Moroccan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** vicolo S. Rocco, n. 10 – Casalbuttano, Cremona, Italy **\*Listed on:** 29 July 2005 **\*Other information:** Fiscal code: LBHHMD63E31Z330M

**113. \*Name:** 1: SOBHI 2: ABD AL AZIZ 3: MOHAMED 4: EL GOHARY ABU SINNA  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 17 Jan. 1958 **POB:** El Behira, Egypt **\*Good quality a.k.a.:** a) Mohamed Atef b) Sheik Taysir Abdullah **Low quality a.k.a.:** a) Abu Hafs Al Masri b) Abu Hafs Al Masri El Khabir c) Taysir **\*Nationality:** Thought to be an Egyptian national **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 26 Nov. 2004) **\*Other information:** Senior lieutenant to UBL.

**114. \*Name:** 1: ALI 2: EL HEIT 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 20 Mar. 1970 **POB:** Rouba, Algeria **\*Good quality a.k.a.:** a) Kamel Mohamed, DOB: 30 Jan. 1971 b) Ali Di Roma **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** a) Via D. Fringuello, 20 – Rome, Italy b) Milan (Domicile) **\*Listed on:** 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004) **\*Other information:** na

**115. \*Name:** 1: MOHAMED 2: EL MAHFOUDI 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 24 Sept. 1964 **POB:** Agadir, Morocco **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na  
**\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** via Puglia, n. 22, Gallarate, Varese, Italy  
**\*Listed on:** 23 June 2004 **\*Other information:** Fiscal Code: LMH MMD 64P24 Z330F

**116. \*Name:** 1: MOUNIR 2: EL MOTASSADEQ 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 3 Apr. 1974 **POB:** Marrakesh, Morocco **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Morocco **Passport no.:** H 236483 **National identification no.:** na **Address:** 21073 Hamburg, Göschenstrasse 13 **\*Listed on:** 30 Sept. 2002 (amended on 26 Nov. 2004) **\*Other information:** na

**117. \*Name:** 1: ABD EL KADER 2: MAHMOUD 3: MOHAMED 4: EL SAYED

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 26 Dec. 1962 **POB:** Egypt \***Good quality a.k.a.:** Es Sayed, Kader **Low quality a.k.a.:** na \***Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Via del Fosso di Centocelle n.66, Rome, Italy \***Listed on:** 24 Apr. 2002 (amended on 26 Nov. 2004) \***Other information:** Codice Fiscale: SSYBLK62T26Z336L

**118. \*Name:** 1: SAMI 2: BEN KHAMIS 3: BEN SALEH 4: ELSSEID

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 10 Feb. 1968 **POB:** Menzel Jemil Bizerte, Tunisia \***Good quality a.k.a.:** Omar El Mouhajer **Low quality a.k.a.:** Saber \***Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number K929139, issued on 14 Feb. 1995, expired on 13 Feb. 2000 **National identification no.:** 00319547 issued on 8 Dec. 1994 **Address:** Via Dubini n. 3, Gallarate (VA), Italy \***Listed on:** 24 Apr. 2002 (amended on 26 Nov. 2004, 9 Sept. 2005 and 20 Dec. 2005) \***Other information:** Codice Fiscale: SSDSBN68B10Z352F. His mother's name is Beya Al-Saidani. He was detained in Italy.

**119. \*Name:** 1: MOUSSA 2: BEN OMAR 3: BEN ALI 4: ESSAADI

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 4 Dec. 1964 **POB:** Tabarka, Tunisia \***Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Dah Dah b) Abdelrahmman c) Bechir \***Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L335915, issued on 8 Nov. 1996, expired on 7 Nov. 2001 **National identification no.:** na **Address:** Via Milano n.108, Brescia, Italy \***Listed on:** 25 June 2003 (amended on 20 Dec. 2005) \***Other information:** na

**120. \*Name:** 1: ZAKARYA 2: ESSABAR 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 13 Apr. 1977 **POB:** Essaouria / Morocco \***Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na \***Nationality:** Morocco **Passport no.:** M 271351 (issued on 24 Oct. 2000 by the Embassy of Morocco in Berlin) **National identification no.:** na **Address:** Last registered resident at Dortmunder Strasse 38, 22419 Hamburg/Germany \***Listed on:** 30 Sept. 2002 (amended on 26 Nov. 2004) \***Other information:** E 189935

**121. \*Name:** 1: MUSTAFA 2: MOHAMED 3: FADHIL 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 23 June 1976 **POB:** Cairo, Egypt \***Good quality a.k.a.:** a) Al Masri, Abd Al Wakil b) Ali, Hassan c) Anis, Abu; d) Elbishy, Moustafa Ali e) Fadil, Mustafa Muhammad f) Fazul, Mustafa g) Mohammed, Mustafa **Low quality a.k.a.:** a) Al-Nubi, Abu b) Hussein c) Jihad, Abu d) Khalid e) Man, Nu f) Yussrr, Abu \***Nationality:** a) Egypt b) Kenya **Passport no.:** na **National identification no.:** Kenyan Id. No. 12773667; Serial No. 201735161 **Address:** na \***Listed on:** 17 Oct. 2001 \***Other information:** na

**122. \*Name:** 1: RACHID 2: FETTAR 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 16 Apr. 1969 **POB:** Boulogin (Algeria) \***Good quality a.k.a.:** Amine del Belgio **Low quality a.k.a.:** Djaffar \***Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Via degli Apuli n.5, Milan, Italy \***Listed on:** 25 June 2003 \***Other information:** na

**123. \*Name:** 1: AHMED 2: KHALFAN 3: GHAILANI 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 14 Mar. 1974 b) 13 Apr. 1974 c) 14 Apr. 1974 d) 1 Aug. 1970 **POB:** Zanzibar, Tanzania **\*Good quality a.k.a.:** a) Ahmad, Abu Bakr b) Ahmed, Abubakar c) Ahmed, Abubakar K. d) Ahmed, Abubakar Khalfan e) Ahmed, Abubakary K. f) Ahmed, Ahmed Khalfan g) Ali, Ahmed Khalfan h) Ghailani, Abubakary Khalfan Ahmed i) Ghailani, Ahmed j) Ghilani, Ahmad Khalafan k) Hussein, Mahafudh Abubakar Ahmed Abdallah l) Khalfan, Ahmed m) Mohammed, Shariff Omar **Low quality a.k.a.:** a) Ahmed The Tanzanian b) Foopie c) Fupi d) Ahmed, A e) Al Tanzani, Ahmad f) Bakr, Abu g) Khabar, Abu **\*Nationality:** Tanzania **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 17 Oct. 2001 **\*Other information:** na

**124. \*Name:** 1: HUDA 2: BIN ABDUL 3: HAQ 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 9 Feb. 1960 b) 2 Feb. 1960 **POB:** Solokuro subdistrict in Lamongan district, East Java province, Indonesia **\*Good quality a.k.a.:** a) Ali Gufron b) Ali Ghuftron c) Ali Gufron al Mukhlas **Low quality a.k.a.:** a) Mukhlas b) Muklas c) Muchlas d) Sofwan **\*Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 9 Sept. 2003 **\*Other information:** na

**125. \*Name:** 1: KAWA 2: HAMAWANDI 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1 July 1971 **POB:** Arbil, Iraq **\*Good quality a.k.a.:** Kaua Omar Achmed **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Iraqi **Passport no.:** German travel document ("Reiseausweise") A 0139243 **National identification no.:** na **Address:** Kempten prison, Germany **\*Listed on:** 6 Dec. 2005 **\*Other information:** na

**126. \*Name:** 1: MOHAMMAD 2: TAHIR 3: HAMMID 4: na  
**Title:** Imam **Designation:** na **DOB:** 1 Nov. 1975 **POB:** Poshok, Iraq **\*Good quality a.k.a.:** Abdelhamid Al Kurdi **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Via della Martinella 132, Parma, Italy **\*Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 9 Sept. 2005) **\*Other information:** na

**127. \*Name:** 1: ISNILON 2: TOTONI 3: HAPILON 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 18 Mar. 1966 b) 10 Mar. 1967 **POB:** Bulanza, Lantawan, Basilan, the Philippines **\*Good quality a.k.a.:** a) Isnilon Hapilun b) Isnilon Hapilun c) Abu Musab d) Salahudin e) Tuan Isnilon **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Filipino **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 6 Dec. 2005 **\*Other information:** na

**128. \*Name:** 1: NASR 2: FAHMI 3: NASR 4: HASSANNEIN  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 30 Oct. 1962 **POB:** Cairo, Egypt **\*Good quality a.k.a.:** Muhammad Salah **Low quality a.k.a.:** Naser Fahmi Naser Hussein

**\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na  
**\*Listed on:** 6 Oct. 2001 (amended on 26 Nov. 2004) **\*Other information:** na

**129. \*Name:** 1: GULBUDDIN 2: HEKMATYAR 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1 Aug. 1949 **POB:** Konduz Province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** a) Gulabudin Hekmatyar b) Golboddin Hikmetyar c) Gulbuddin Khekmatiyar d) Gulbuddin Hekmatiar e) Gulbuddin Hekhmartyar f) Gulbudin Hekmetyar **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 20 Feb. 2003 **\*Other information:** na

**130. \*Name:** 1: RI'AD (RAED) 2: MUHAMMAD HASAN 3: MUHAMMAD 4: HIJAZI  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 30 Dec. 1968 **POB:** California, U.S.A **\*Good quality a.k.a.:** a) Hijazi, Raed M. b) Al-Hawen, Abu-Ahmad c) Al-Shahid, Abu-Ahmad **Low quality a.k.a.:** a) Al-Maghribi, Rashid (The Moroccan) b) Al-Amriki, Abu-Ahmad (The American) **\*Nationality:** Jordanian national **Passport no.:** na **National identification no.:** a) SSN: 548- 91-5411 b) National number 9681029476 **Address:** na **\*Listed on:** 17 Oct. 2001 **\*Other information:** Jordan. Originally from Ramlah; place of residence while in Jordan — al-Shumaysani (Sheisani) (area of Amman), behind the trade unions complex.

**131. \*Name:** 1: ALI 2: GHALEB 3: HIMMAT 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 16 June 1938 **POB:** Damascus, Syria **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Italy since 1990 **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** a) via Posero 2, ch-6911 Campione D'Italia, Italy b) Location in Italy and Syria **\*Listed on:** 9 Nov. 2001 (amended on 26 Nov. 2004) **\*Other information:** Swiss Authorities state that they have no data of a Swiss passport issued to that person and that this person does not have Swiss Nationality.

**132. \*Name:** 1: ARMAND 2: ALBERT 3: FRIEDRICH 4: HUBER  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1927 **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** Huber, Ahmed **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Switzerland **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Rossimattstrasse 33, 3074 Muri b. Bern, Switzerland **\*Listed on:** 9 Nov. 2001 (amended on 26 Nov. 2004) **\*Other information:** No Swiss passport under the name issued for this person.

**133. \*Name:** 1: ZAYN 2: AL-ABIDIN 3: MUHAMMAD 4: HUSAYN  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 12 Mar. 1971 **POB:** Riyadh, Saudi Arabia **\*Good quality a.k.a.:** a) Abu Zubaida b) Abd Al-Hadi Al-Wahab c) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain d) Zain Al-Abidin Muhahhad Husain **Low quality a.k.a.:** a) Abu Zubaydah b) Tariq **\*Nationality:** Thought to be a Saudi and Palestinian national **Passport no.:** Bearer of Egyptian

passport No. 484824 issued on 18 Jan. 1984 at the Egyptian embassy in Riyadh  
**National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 **\*Other information:** Close associate of UBL and facilitator of terrorist travel.

**134. \*Name:** 1: AZAHARI 2: HUSIN 3: na 4: na  
**Title:** Dr. **Designation:** na **DOB:** 14 Sept. 1957 **POB:** Negeri Sembilan, Malaysia  
**\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Malaysian  
**Passport no.:** A 11512285 **National identification no.:** 570914-05-5411  
**Address:** Taman Sri Pulai, Johor, Malaysia **\*Listed on:** 9 Sept. 2003 **\*Other information:** na

**135. \*Name:** 1: AL SAYYID 2: AHMED 3: FATHI 4: HUSSEIN ELIWAH  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 30 July 1964 b) 30 Jan. 1964 **POB:** a) Suez b) Alexandria, Egypt **\*Good quality a.k.a.:** a) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Eliwa b) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaiwah c) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Elaiwa d) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Ilewah e) Al Sayyid Ahmed Fathi Hussein Alaywah f) El Sayed Ahmad Fathi Hussein Elaiwa g) Hatim h) Hisham i) Abu Umar **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** United Kingdom **\*Listed on:** 29 Sept. 2005 (amended on 6 Oct. 2005) **\*Other information:** na

**136. \*Name:** 1: DAWOOD 2: IBRAHIM 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1955 **POB:** Ratnagiri, India **\*Good quality a.k.a.:** a) Dawood Ebrahim b) Sheikh Dawood Hassan **Low quality a.k.a.:** na  
**\*Nationality:** Indian **Passport no.:** A-333602 issued 6 Apr. 1985 in Bombay, India **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 3 Nov. 2003  
**\*Other information:** na

**137. \*Name:** 1: MOSTAFA 2: KAMEL 3: MOSTAFA 4: IBRAHIM  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 15 Apr. 1958 **POB:** Alexandria, Egypt **\*Good quality a.k.a.:** a) Mustafa Kamel Mustafa b) Adam Ramsey Eaman c) Kamel Mustapha Mustapha d) Mustapha Kamel Mustapha e) Abu Hamza **Low quality a.k.a.:** a) Abu Hamza Al-Masri b) Al-Masri, Abu Hamza c) Al-Misri, Abu Hamza  
**\*Nationality:** British **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** a) 9 Albourne Road, Shepherds Bush, London W12 OLW, UK b) 8 Adie Road, Hammersmith, London W6 OPW, UK **\*Listed on:** 24 Apr. 2002 (amended on 26 Nov. 2004) **\*Other information:** Under investigation in the United Kingdom.

**138. \*Name:** 1: NURJAMAN 2: RIDUAN 3: ISAMUDDIN 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 4 Apr. 1964 **POB:** Cianjur, West Java, Indonesia  
**Good quality a.k.a.:** a) Hambali b) Nurjaman c) Isomuddin, Nurjaman Riduan  
**Low quality a.k.a.:** na **Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National**

**identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 28 Jan. 2003 **\*Other information:** Born: Encep Nurjaman

**139. \*Name:** 1: KHADAFI 2: ABUBAKAR 3: JANJALANI 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 3 Mar. 1975 **POB:** Isabela, Basilan, the Philippines **\*Good quality a.k.a.:** a) Khadafy Janjalani b) Khaddafy Abubakar Janjalani c) Abu Muktar **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Philippine **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 22 Dec. 2004 **\*Other information:** na

**140. \*Name:** 1: KHALIL 2: BEN AHMED 3: BEN MOHAMED 4: JARRAYA  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 8 Feb. 1969 **POB:** Sfax, Tunisia **\*Good quality a.k.a.:** a) Khalil Yarraya b) Ben Narvan Abdel Aziz **Low quality a.k.a.:** a) Amro b) Omar c) Amrou d) Amr **\*Nationality:** a) Tunisian b) Bosnia and Herzegovina **Passport no.:** Tunisian passport number K989895, issued on 26 July 1995, expired on 25 July 2000) **National identification no.:** na **Address:** a) Via Bellaria n.10, Bologna, Italy b) Via Lazio n.3, Bologna, Italy c) Dr Fetah Becirbegovic St. 1, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina **\*Listed on:** 25 June 2003 (amended on 26 Nov. 2004 and 20 Dec. 2005) **\*Other information:** Also identified as Abdel Aziz Ben Narvan, born in Sereka (ex-Yugoslavia) on 15 Aug. 1970

**141. \*Name:** 1: MOUNIR 2: BEN HABIB 3: BEN AL-TAHER 4: JARRAYA  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 25 Oct. 1963 **POB:** Sfax, Tunisia **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Yarraya **\*Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number L065947, issued on 28 Oct. 1995, expired on 27 Oct. 2000 **National identification no.:** na **Address:** a) Via Mirasole n.11, Bologna, Italy b) Via Ariosto n.8, Casalecchio di Reno (Bologna), Italy **\*Listed on:** 25 June 2003 (amended on 20 Dec. 2005) **\*Other information:** na

**142. \*Name:** 1: ALI 2: AHMED 3: NUR 4: JIM'ALE  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1954 **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** a) Jimale, Ahmed Ali b) Jim'ale, Ahmad Nur Ali c) Jumale, Ahmed Nur d) Jumali, Ahmed Ali **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Somali **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** P.O. Box 3312, Dubai, UAE **\*Listed on:** 9 Nov. 2001 (amended on 26 Nov. 2004) **\*Other information:** Mogadishu, Somalia. Profession: Accountant.

**143. \*Name:** 1: WA'EL 2: HAMZA 3: JULAIDAN 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 22 Jan. 1958 **POB:** Al-Madinah, Saudi Arabia **\*Good quality a.k.a.:** a) Wa'il Hamza Julaidan b) Wa'el Hamza Jalaidan c) Wa'il Hamza Jalaidan d) Wa'el Hamza Jaladin e) Wa'il Hamza Jaladin **Low quality a.k.a.:** Abu Al-Hasan Al Madani **\*Nationality:** na **Passport no.:** Saudi passport no. A-992535 **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 11 Sept. 2002 **\*Other information:** na

**144. \*Name:** 1: SALIM Y SALAMUDDIN 2: JULKIPLI 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 20 June 1967 **POB:** Tulay, Jolo Sulu, Phillippines **\*Good quality a.k.a.:** a) Kipli Sali b) Julkipli Salim **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 9 Sept. 2003 **\*Other information:** na

**145. \*Name:** 1: ABDULLAHI 2: HUSSEIN 3: KAHIE 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 9 Nov. 2001 **\*Other information:** Bakara Market, Dar Salaam Buildings, Mogadishu, Somalia

**146. \*Name:** 1: MEHDI 2: BEN MOHAMED 3: BEN MOHAMED 4: KAMMOUN  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 3 Apr. 1968 **POB:** Tunis, Tunisia **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number M307707, issued on 12 Apr. 2000, expired on 11 Apr. 2005 **National identification no.:** na **Address:** Via Masina n.7, Milan, Italy **\*Listed on:** 3 Sept. 2002 (amended on 20 Dec. 2005) **Other information:** Italian Fiscal Code: KMMMHD68D03Z352N

**147. \*Name:** 1: ABDUL MANAF 2: KASMURI 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 28 May 1955 **POB:** Selangor, Malaysia **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Muhammad Al-Filipini b) Intan **Nationality:** Malaysian **Passport no.:** A 9226483 **National identification no.:** 550528-10- 5991 **Address:** Klang, Selangor, Malaysia **\*Listed on:** 9 Sept. 2003 **\*Other information:** na

**148. \*Name:** 1: ABDULBAQI 2: MOHAMMED 3: KHALED 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 18 Aug. 1957 **POB:** Tripoli, Libya **\*Good quality a.k.a.:** a) Abul Baki Mohammed Khaled b) Abd' Al-Baki Mohammed c) Abul Baki Khaled d) Abu Khawla **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** British **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Birmingham, United Kingdom **\*Listed on:** 7 Feb. 2006 **\*Other information:** na

**149. \*Name:** 1: AHMED 2: SAID 3: ZAKI 4: KHEDR  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1 Mar. 1948 **POB:** Cairo, Egypt **\*Good quality a.k.a.:** Ahmed Said Al Kader **Low quality a.k.a.:** Al-Kanadi, Abu Abd Al-Rahman **\*Nationality:** Canadian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan. 2001 (amended on 26 Nov. 2004) **\*Other information:** na

**150. \*Name:** 1: ABDERRAHMANE 2: KIFANE 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 7 Mar. 1963 **POB:** Casablanca, Morocco **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Via S. Biagio, 32 or 35 – Sant'Anastasia (NA), Italy **\*Listed on:** 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004 and 9



Sept. 2005) **\*Other information:** Sentenced for a 20 months prison term in Italy on 22 July 1995 for providing support to Armed Islamic Group (GIA)

**151. \*Name:** 1: SAMIR 2: ABD EL LATIF 3: EL SAYED 4: KISHK  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 14 May 1955 **POB:** Gharbia, Egypt **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 3 Sept. 2002 (amended on 26 Nov. 2004) **\*Other information:** na

**152. \*Name:** 1: ABDELKADER 2: LAAGOUB 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 23 Apr. 1966 **POB:** Casablanca, Morocco  
**\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Moroccan  
**Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** via Europa, 4 –  
 Paderno Ponchielli, Cremona, Italy **\*Listed on:** 29 July 2005 **\*Other information:** Fiscal code: LGBBLK66D23Z330U

**153. \*Name:** 1: MUFTI 2: RASHID 3: AHMAD 4: LADEHYANOY  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** a) Ludhiānvi, Mufti Rashid Ahmad b) Armad, Mufti Rasheed c) W. chyanoy, Mufti Rashid Ahmad **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 17 Oct. 2001 **\*Other information:** Karachi, Pakistan.

**154. \*Name:** 1: JAMEL 2: LOUNICI 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1 Feb. 1962 **POB:** Algiers **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 16 Jan. 2004 **\*Other information:** Son of Abdélkader and Johra Birouh.

**155. \*Name:** 1: ABDULLKADIR 2: HUSSEIN 3: MAHAMUD 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 12 Oct. 1966 b) 11 Nov. 1966 **POB:** Somalia  
**\*Good quality a.k.a.:** Abdulkadir Hussein Mahamud **Low quality a.k.a.:** na  
**\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na  
**\*Listed on:** 9 Nov. 2001 (amended on 26 Nov. 2004) **\*Other information:** Florence, Italy.

**156. \*Name:** 1: UTHMAN 2: OMAR 3: MAHMOUD 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 30 Dec. 1960 b) 13 Dec. 1960 **POB:** na  
**\*Good quality a.k.a.:** a) Uthman, Al-Samman b) Uthman, Umar **Low quality a.k.a.:** a) Al-Filistini, Abu Qatada b) Takfiri, Abu Umr c) Abu Umar, Abu Omar d) Umar, Abu Umar e) Abu Ismail **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 17 Oct. 2001 **\*Other information:** London, England.

**157. \*Name:** 1: AMRAN 2: MANSOR 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 25 May 1964 **POB:** Johor, Malaysia **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Henry **\*Nationality:** Malaysian **Passport no.:** A 10326821 **National identification no.:** 640525-01-5885 **Address:** Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia **\*Listed on:** 9 Sept. 2003 **\*Other information:** na

**158. \*Name:** 1: FETHI 2: BEN AL-RABEI 3: MNASRI 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 6 Mar. 1969 **POB:** Nefza, Tunisia **\*Good quality a.k.a.:** Fethi Alic **Low quality a.k.a.:** a) Amor b) Omar Abu  
**\*Nationality:** Tunisian **Passport no.:** na **National identification no.:** na  
**Address:** a) Via Toscana n.46, Bologna, Italy b) Via di Saliceto n. 51/9, Bologna, Italy **\*Listed on:** 25 June 2003 (amended on 20 Dec. 2005) **\*Other information:** na

**159. \*Name:** 1: RAFIK 2: MOHAMAD YOUSEF 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 27 Aug. 1974 **POB:** Baghdad, Iraq **\*Good quality a.k.a.:** Mohamad Raif Kairadin **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Iraqi **Passport no.:** German travel document ("Reiseausweise") A 0092301  
**National identification no.:** na **Address:** Mannheim prison, Germany **\*Listed on:** 6 Dec. 2005 **\*Other information:** na

**160. \*Name:** 1: IBRAHIM 2: MOHAMED KHALIL 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 2 July 1975 **POB:** Mosul, Iraq **\*Good quality a.k.a.:** a) Khalil Ibrahim Jassem, born 2 May 1972 in Baghdad, Iraq b) Khalil Ibrahim Mohammad, born 3 July 1975 in Mosul, Iraq c) Khalil Ibrahim Al Zafiri, born 1972 d) Khalil, born 2 May 1975 **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Iraqi **Passport no.:** German travel document ("Reiseausweise") A 0003900 **National identification no.:** na **Address:** Frankenthal prison, Germany **\*Listed on:** 6 Dec. 2005 **\*Other information:** na

**161. \*Name:** 1: LOKMAN 2: AMIN 3: MOHAMMED 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1 Feb. 1974 **POB:** Kirkuk, Iraq **\*Good quality a.k.a.:** a) Lokman Ami Mohamad, born 1 Feb. 1974 b) Lukman Ami Mohammed, born 1 Feb. 1974 **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Iraqi **Passport no.:** German travel document ("Reiseausweise") A 006991 **National identification no.:** na **Address:** Stadelheim prison, Munich, Germany **\*Listed on:** 6 Dec. 2005 **\*Other information:** na

**162. \*Name:** 1: ZIA 2: MOHAMMAD 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** Zia, Ahmad **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** a) C/O Ahmed Shah C/O Painsda Mohammad Al-Karim Set, Peshawar, Pakistan b) C/O Alam General Store Shop 17, Awami Market, Peshawar, Pakistan c) C/O Zahir Sha S/ **\*Listed on:** 17 Oct. 2001 **\*Other information:** na

**163. \*Name:** 1: DAKI 2: MOHAMMED 3: na 4: na

- **Title:** na **Designation:** na **DOB:** 29 Mar. 1965 **POB:** Morocco **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Via Melato 11, Reggio Emilia, Italy (Domicile) **\*Listed on:** 12 Nov. 2003 **\*Other information:** na

**164. \*Name:** 1: FAZUL 2: ABDULLAH 3: MOHAMMED 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 25 Aug. 1972 b) 25 Dec. 1974 c) 25 Feb. 1974  
**POB:** Moroni, Comoros Islands **\*Good quality a.k.a.:** a) Abdalla, Fazul b) Adballah, Fazul c) Ali, Fadel Abdallah Mohammed d) Fazul, Abdalla e) Fazul, Abdallah f) Fazul, Abdallah Mohammed g) Fazul, Haroon h) Fazul, Harun i) Haroun, Fadhil j) Mohammed, Fazul k) Mohammed, Fazul Abdilahi l) Mohammed, Fouad m) Muhamad, Fadil Abdallah **Low quality a.k.a.:** a) Aisha, Abu b) Al Sudani, Abu Seif c) Haroon d) Harun e) Luqman, Abu **\*Nationality:** a) Comoros b) Kenya **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na  
**\*Listed on:** 17 Oct. 2001 **\*Other information:** na

**165. \*Name:** 1: NORDIN 2: MOHD. TOP 3: na 4: na  
*Last updated on 22 February 2006*  
 27

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 11 Aug. 1969 **POB:** Johor, Malaysia **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na  
**\*Nationality:** Malaysian **Passport no.:** A 9775183 **National identification no.:** 690811-10-5873 **Address:** Kg. Sg. Tiram, Johor, Malaysia **\*Listed on:** 9 Sept. 2003 **\*Other information:** na

**166. \*Name:** 1: MOHAMED 2: AMIN 3: MOSTAFA 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 11 Oct. 1975 **POB:** Karkuk, Iraq **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na  
**\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Via della Martinella 132, Parma, Italy (Domicile) **\*Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 9 Sept. 2005) **\*Other information:** na

**167. \*Name:** 1: DJAMEL 2: MOUSTFA 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 28 Sept. 1973 **POB:** Tiaret, Algeria **\*Good quality a.k.a.:** a) Ali Barkani, born 22 Aug. 1973 in Morocco b) Kalad Belkasam, born 31 Dec. 1979 c) Mostafa Djamel, born 31 Dec. 1979 in Maskara, Algeria d) Mostefa Djamel, born 26 Sept. 1973 in Mahdia, Algeria e) Mustafa Djamel, born 31 Dec. 1979 in Mascara, Algeria f) Balkasam Kalad, born 26 Aug. 1973 in Algiers, Algeria g) Bekasam Kalad, born 26 Aug. 1973 in Algiers, Algeria h) Belkasam Kalad, born 26 Aug. 1973 in Algiers, Algeria i) Damel Mostafa, born 31 Dec. 1979 in Algiers, Algeria j) Djamal Mostafa, born 31 Dec. 1979 in Maskara, Algeria k) Djamal Mostafa, born 10 June 1982 l) Djamel Mostafa, born 31 Dec. 1979 in Maskara, Algeria m) Djamel Mostafa, born 31 Dec. 1979 in Algiers, Algérie n) Fjamel Moustfa, born 28 Sept. 1973 in Tiaret, Algeria o) Djamel Mustafa, born 31 Dec. 1979 p) Djamel Mustafa, born 31 Dec. 1979 in Mascara,

Algeria **Low quality a.k.a.:** Mustafa **\*Nationality:** Algerian **Passport no.:** a) Counterfeit Danish driving licence no. 20645897, made out to Ali Barkani, 22 Aug. 1973 in Morocco b) Algerian birth certificate, issued for Djamel Mostefa, born on 25 Sept. 1973 in Mehdia, Tiaret province, Algeria **National identification no.:** na **Address:** Currently in detention awaiting trial **\*Listed on:** 23 Sept. 2003 **\*Other information:** a) Name of father: Djelalli Moustfa b) Name of mother: Kadeja Mansore

**168. \*Name:** 1: FAHID 2: MOHAMMED 3: ALLY 4: MSALAM  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 19 Feb. 1976 **POB:** Mombasa, Kenya **\*Good quality a.k.a.:** a) Ally, Fahid Mohammed b) Msalam, Fahad Ally c) Msalam, Fahid Mohammed Ali d) Msalam, Mohammed Ally e) Musalaam, Fahid Mohammed Ali f) Salem, Fahid Muhamad Ali **Low quality a.k.a.:** Al-Kini, Usama **\*Nationality:** Kenya **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 17 Oct. 2001 **\*Other information:** na

**169. \*Name:** 1: ARIS 2: MUNANDAR 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** Between 1962 and 1968 **POB:** Sambu, Boyolali, Java, Indonesia **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 9 Sept. 2003 (amended on 9 Sept. 2005) **\*Other information:** na

**170. \*Name:** 1: ABDUL HAKIM 2: MURAD 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 4 Jan. 1968 **POB:** Kuwait **\*Good quality a.k.a.:** a) Murad, Abdul Hakim Hasim b) Murad, Abdul Hakim Ali Hashim c) Murad, Abdul Hakim Al Hashim d) Saeed Akman e) Saeed Ahmed **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Pakistani **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 9 Sept. 2003 **\*Other information:** na

**171. \*Name:** 1: ALI 2: SAYYID 3: MUHAMED 4: MUSTAFA BAKRI  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 18 Apr. 1966 **POB:** Beni-Suef **\*Good quality a.k.a.:** a) Ali Salim b) Abd Al-Aziz c) Al-Masri **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** May be in Iran **\*Listed on:** 29 Sept. 2005 **\*Other information:** na

**172. \*Name:** 1: ABDELGHANI 2: MZOUZI 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 6 Dec. 1972 **POB:** Marrakesh, Morocco **\*Good quality a.k.a.:** a) Abdelghani Mazwati b) Abdelghani Mazuti **\*Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Moroccan **Passport no.:** a) Moroccan passport no. F 879567, issued 29 Apr. 1992 in Marrakesh, Morocco, valid until 28 Apr. 1997, renewed until 28 Feb. 2002 b) Moroccan passport no. M271392, issued 4 Dec. 2000 by the Moroccan Embassy in Berlin, Germany **National identification no.:** Moroccan personal ID no. E 427689, issued 20 Mar. 2001 by the Moroccan Consulate General in Düsseldorf, Germany **Address:** a) Currently (June 2003) being held in custody in Germany b) Last registered: op de Wisch 15, 21149 Hamburg,

Germany \*Listed on: 10 June 2003 (amended on 26 Nov. 2004) \*Other information: na

173. \*Name: 1: YACINE 2: AHMED 3: NACER 4: na  
 Title: na Designation: na DOB: 2 Dec. 1967 POB: Annaba, Algeria \*Good quality a.k.a.: Yacine Di Annaba Low quality a.k.a.: na \*Nationality: na  
 Passport no.: na National identification no.: na Address: a) Rue Mohamed Khemisti, 6 – Annaba (DZZ), Italy b) Vicolo Duchessa, 16 and Via Genova, 121 – Naples, Italy (Domicile) \*Listed on: 17 Mar. 2004 (amended on 26 Nov. 2004)  
 \*Other information: na

174. \*Name: 1: IDRIS 2: AHMED 3: NASREDDIN 4: na  
 Title: na Designation: na DOB: 22 Nov. 1929 POB: Adi Ugri, Ethiopia (now Eritrea) \*Good quality a.k.a.: a) Nasreddin, Ahmad I. b) Nasreddin, Hadj Ahmed c) Nasreddine, Ahmed Idriss d) Ahmed Idris Nasreddin Low quality a.k.a.: na  
 \*Nationality: Italian Passport no.: na National identification no.: a) Italian Identity Card Nr. AG 2028062, expiration date 7 Sept. 2005. b) Foreign ID card no: K 5249. Address: a) Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy b) Piazzale Biancamano, Milan, Italy c) Rue De Cap Spartel, Tangiers, Morocco d) no: 10, Rmilat, Villa Nasreddin in Tangiers, Morocco \*Listed on: 24 Apr. 2002 (amended on 26 Nov. 2004) \*Other information: Italian Fiscal Code: SRDRS29S22Z315Y. Mr. Nasreddin left his residence at 1 via delle Scuole, 6900 Lugano, Switzerland in 1994 and moved to Morocco.

175. \*Name: 1: SAADI 2: NASSIM 3: na 4: na  
 Title: na Designation: na DOB: 30 Nov. 1974 POB: Haidra Al-Qasreen, Tunisia \*Good quality a.k.a.: na Low quality a.k.a.: Abou Anis \*Nationality: Tunisian  
 Passport no.: Tunisian passport number M788331, issued on 28 Sept. 2001, expires 27 Sept. 2006 National identification no.: na Address: a) Via Monte Grappa 15, Arluno (Milan), Italy b) Via Cefalonia 11, Milan, Italy (Domicile)  
 \*Listed on: 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005) \*Other information: na

176. \*Name: 1: TAHIR 2: NASUF 3: na 4: na  
 Title: na Designation: na DOB: a) 4 Nov. 1961 b) 11 Apr. 1961 POB: Tripoli, Libya \*Good quality a.k.a.: a) Tahir Mustafa Nasuf b) Tahar Nasoof c) Taher Nasuf d) Al-Qa'qa e) Abu Salima El Libi f) Abu Rida Low quality a.k.a.: na  
 \*Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: Manchester, United Kingdom \*Listed on: 7 Feb. 2006 \*Other information: na

177. \*Name: 1: MUSTAPHA 2: AHMED 3: MOHAMED 4: OSMAN ABU EL YAZEED  
 Title: na Designation: na DOB: 27 Feb. 1955 POB: El Sharkiya, Egypt \*Good quality a.k.a.: a) Mustapha Mohamed Ahmed b) Shaykh Sai'id Low quality a.k.a.: na  
 \*Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: na \*Listed on: 6 Oct. 2001 (amended on 26 Nov. 2004) \*Other information: na

**178. \*Name:** 1: JOKO 2: PITONO 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 16 June 1970 b) 6 June 1970 **POB:** Petarukan village, Pemalang, Central Java, Indonesia **\*Good quality a.k.a.:** a) Pitoyo, Joko b) Pintono, Joko c) Dulmatin d) Dul Matin e) Abdul Martin f) Abdul Matin g) Amar Umar h) Amar Usman i) Anar Usman j) Djoko Supriyanto k) Jak Imron l) Mukhtar m) Novariant o) Topel **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 16 May 2005 **\*Other information:** na

**179. \*Name:** 1: AHMED 2: HOSNI 3: RARRBO 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 12 Sept. 1974 **POB:** Bologhine (Algeria) **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Abdallah o Abdullah **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** of no fixed address in Italy **\*Listed on:** 25 June 2003 **\*Other information:** na

**180. \*Name:** 1: ABDELHALIM 2: REMADNA 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 2 Apr. 1966 **POB:** Bistra, Algeria **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 3 Sept. 2002 **\*Other information:** na

**81. \*Name:** 1: AL-AZHAR 2: BEN KHALIFA 3: BEN AHMED 4: ROUINE

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 20 Nov. 1975 **POB:** Sfax, Tunisia **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Salmane b) Lazhar **\*Nationality:** Tunisian **Passport no.:** Tunisian passport number P182583, issued on 13 Sept. 2003, expires on 12 Sept. 2007 **National identification no.:** na **Address:** Vicolo S. Giovanni, Rimini, Italy (Domicile) **\*Listed on:** 12 Nov. 2003 (amended on 20 Dec. 2005) **\*Other information:** na

**182. \*Name:** 1: ABU 2: RUSDAN 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 16 Aug. 1960 **POB:** Kudus, Central Java, Indonesia **\*Good quality a.k.a.:** a) Abu Thoriq b) Rusdjan c) Rusjan d) Rusydan e) Thoriquddin f) Thoriquiddin g) Thoriquidin h) Toriquddin **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 16 May 2005 **\*Other information:** na

**183. \*Name:** 1: RADULAN 2: SAHIRON 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 1955 b) approximately 1952 **POB:** Kaunayan, Patikul, Jolo Island, the Philippines **\*Good quality a.k.a.:** a) Radullan Sahiron b) Radulan Sahirun c) Radulan Sajirun d) Commander Putol **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Filipino **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 6 Dec. 2005 **\*Other information:** na

**184. \*Name:** 1: ABDUL 2: LATIF 3: SALEH 4: na

**Title:** Dr. **Designation:** na **DOB:** 5 Mar. 1957 **POB:** Baghdad, Iraq **\*Good quality a.k.a.:** a) Abdul Latif A.A. Saleh b) Abdyl Latif Saleh c) Dr. Abd al-Latif

Saleh d) Abdul Latif A.A. Saleh Abu Hussein e) Abd al-Latif Salih f) Abu Amir  
**Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** a) Jordanian b) Albanian **Passport no.:**  
 Jordanian Passport: D366 871 **National identification no.:** na **Address:** Last  
 known residence: United Arab Emirates **\*Listed on:** 16 Sept. 2005 **\*Other**  
**information:** na

185. **\*Name:** 1: NEDAL 2: MAHMOUD 3: SALEH 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 1 Mar. 1970 b) 26 Mar. 1972 **POB:** Taiz  
 (Yemen) **\*Good quality a.k.a.:** Nedal Mahmoud N. Saleh **Low quality a.k.a.:**  
 Hitem **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na  
**Address:** a) Via Milano n.105, Casal di Principe (Caserta), Italy b) Via di Saliceto  
 n.51/9, Bologna, Italy **\*Listed on:** 25 June 2003 (amended on 26 Nov. 2004)  
**\*Other information:** Arrested in Italy 19 Aug. 2003.

186. **\*Name:** 1: JAINAL 2: ANTEL 3: SALI JR. 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1 June 1965 **POB:** Barangay Lanote, Bliss,  
 Isabela, Basilan, the Philippines **\*Good quality a.k.a.:** a) Abu Solaiman b) Abu  
 Solayman c) Apong Solaiman d) Apung **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:**  
 Filipino **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed**  
**on:** 6 Dec. 2005 **\*Other information:** na 187. **\*Name:** 1: IMAM 2: SAMUDRA  
 3: na 4: na **Title:** na **Designation:** na **DOB:** 14 Jan. 1970 **POB:** Serang, Banten,  
 Indonesia **\*Good quality a.k.a.:** a) Abdul Azis b) Abdul Aziz ben Sihabudin c)  
 Faiz Yunshar **Low quality a.k.a.:** a) Kudama b) Hendri c) Heri d) Fatih e) Abu  
 Omar **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na  
**Address:** na **\*Listed on:** 9 Sept. 2003 **\*Other information:** na

188. **\*Name:** 1: NABIL 2: ABDUL 3: SALAM 4: SAYADI  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1 Jan. 1966 **POB:** El Hadid, Tripoli, Lebanon  
**\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Abu Zeinab **\*Nationality:** Belgian  
 since 18 Sept. 2001 **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:**  
 Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium **\*Listed on:** 22 Jan. 2003 (amended on 26  
 Nov. 2004) **\*Other information:** Spouse of Patricia Vinck. Married on 29 May  
 1992 in Peshawar, Pakistan.

189. **\*Name:** 1: SAYF-AL ADL 2: na 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1963 **POB:** Egypt **\*Good quality a.k.a.:** Saif  
 Al-'Adil **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Thought to be an Egyptian national  
**Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 25 Jan.  
 2001. **\*Other information:** Responsible for UBL's security.

190. **\*Name:** 1: ISMAIL 2: ABDALLAH 3: SBAITAN 4: SHALABI  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 30 Apr. 1973 **POB:** Beckum, Germany **\*Good**  
**quality a.k.a.:** a) Ismain Shalabe, born 30 Apr. 1973 in Beckum b) Ismail  
 Abdallah Sbaitan Shalabi, born 30 Apr. 1973 in Beckum **Low quality a.k.a.:** na  
**\*Nationality:** Jordanian of Palestinian origin **Passport no.:** a) Passport of the  
 Hashemite Kingdom of Jordan, no.: E778675, issued in Rusaifah on 23 June 1996,

valid until 23 June 2001 **b)** Passport of the Hashemite Kingdom of Jordan no.: H401056, JOR 9731050433, issued on 11 Apr. 2001, valid until 10 April 2006

**National identification no.:** na

**Address:** Currently in detention awaiting trial **\*Listed on:** 23 Sept. 2003 **\*Other information:** **a)** Name of father: Abdullah Shalabi **b)** Name of mother: Ammni Shalabi

**191. \*Name:** 1: PARLINDUNGAN 2: SIREGAR 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** **a)** 25 Apr. 1957 **b)** 25 Apr. 1967 **POB:**

Indonesian **\*Good quality a.k.a.:** **a)** Siregar, Parlin **b)** Siregar, Saleh

Parlindungan **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na

**National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 9 Sept. 2003 **\*Other information:** na

**192. \*Name:** 1: AHMED 2: SALIM 3: SWEDAN 4: SHEIKH

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** **a)** 9 Apr. 1969 **b)** 9 Apr. 1960 **POB:** Mombasa, Kenya **\*Good quality a.k.a.:** **a)** Ally, Ahmed **b)** Suweidan, Sheikh Ahmad Salem

**c)** Swedan, Sheikh **d)** Swedan, Sheikh Ahmed Salem **Low quality a.k.a.:** **a)**

Ahmed The Tall **b)** Bahamad **c)** Bahamad, Sheik **d)** Bahamadi, Sheikh

**\*Nationality:** Kenya **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 17 Oct. 2001 **\*Other information:** na

**193. \*Name:** 1: YAZID 2: SUFAAT 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 20 Jan. 1964 **POB:** Johor, Malaysia **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** **a)** Joe **b)** Abu Zufar **\*Nationality:**

Malaysian **Passport no.:** A 10472263 **National identification no.:** 640120-01-

5529 **Address:** Taman Bukit Ampang, Selangor, Malaysia **\*Listed on:** 9 Sept. 2003 **\*Other information:** na

**194. \*Name:** 1: YASSIN 2: SYWAL 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** Approximately 1972 **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** **a)** Salim Yasin **b)** Mochtar Yasin Mahmud **c)** Abdul Hadi Yasin **d)**

Muhamad Mubarak **e)** Muhammad Syawal **Low quality a.k.a.:** **a)** Abu Seta **b)**

Mahmud **c)** Abu Muamar **\*Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National**

**identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 9 Sept. 2003 **\*Other information:** na

**195. \*Name:** 1: MANSOUR 2: THAER 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 21 Mar. 1974 **POB:** Baghdad, Iraq **\*Good**

**quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** na **Passport no.:** na

**National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 3 Sept. 2002 **\*Other information:** na

**196. \*Name:** 1: YULDASHEV 2: TOHIR 3: na 4: na

**Titl:** na **Designation:** na **DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** Yuldashev,

Takhir **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National**



**identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 17 Oct. 2001 **\*Other information:** Uzbekistan.

**197. \*Name:** 1: MOHAMMED 2: TUFAIL 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** a) Tufail, S.M. b) Tuffail, Sheik Mohammed **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Pakistani  
**Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 24 Dec. 2001 **\*Other information:** na

**198. \*Name:** 1: AWEYS 2: DAHIR 3: UBEIDULLAHI 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** na **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** via Cipriano Facchinetti 84, Rome, Italy **\*Listed on:** 9 Nov. 2001 **\*Other information:** na

**199. \*Name:** 1: MAHDHAT 2: MURSI 3: AL-SAYYID 4: UMAR  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 19 Oct. 1953 **POB:** Alexandria **\*Good quality a.k.a.:** a) Abu Hasan b) Abu Khabab c) Abu Rabbab **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Egyptian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** May be on the Pakistani-Afghan border **\*Listed on:** 29 Sept. 2005 **\*Other information:** na

**200. \*Name:** 1: PATRICIA 2: ROSA 3: VINCK 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 4 Jan. 1965 **POB:** Berchem, Antwerp **Good quality a.k.a.:** Souraya P. Vinck **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Belgian  
**Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** Vaatjesstraat 29, 2580 Putte, Belgium **\*Listed on:** 22 Jan. 2003 (amended on 26 Nov. 2004 and 9 Sept. 2005) **\*Other information:** Spouse of Nabil Sayadi.

**201. \*Name:** 1: WAN MIN 2: WAN MAT 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 23 Sept. 1960 **POB:** Kelantan, Malaysia **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** a) Abu Hafis b) Wan Halim c) Abu Hidayah **\*Nationality:** Malaysian **Passport no.:** A 9703399 **National identification no.:** 600923-03-5527 **Address:** Ulu Tiram, Johor, Malaysia **\*Listed on:** 9 Sept. 2003 **\*Other information:** na

**202. \*Name:** 1: ZELIMKHAN 2: AHMEDOVICH 3: YANDARBIEV 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 12 Sept. 1952 **POB:** USSR, Eastern Kazakhstan region, village of Vydriha **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Abdul-Muslimovich **\*Nationality:** Russian Federation **Passport no.:** Russian passport 43 No. 1600453 **National identification no.:** na **Address:** formerly Russian Federation, Chechen Republic, Grozny, Derzhavina str., 281-59 **\*Listed on:** 25 June 2003 **\*Other information:** na

**203. \*Name:** 1: ABDUL RAHMAN 2: YASIN 3: na 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 10 Apr. 1960 **POB:** Bloomington, Indiana U.S.A.  
**\*Good quality a.k.a.:** a) Taha, Abdul Rahman S. b) Taher, Abdul Rahman S. c) Yasin, Abdul Rahman Said d) Yasin, Aboud **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** U.S.A. **Passport no.:** a) 27082171 (U.S.A. (Issued 21 June 1992 In Amman, Jordan) b) MO887925 (Iraq) **National identification:** SSN 156-92-9858 (U.S.A.) **Address:** na **\*Listed on:** 17 Oct. 2001 **\*Other information:** Abdul Rahman Yasin is in Iraq.

**204. \*Name:** 1: MUKHLIS 2: YUNOS 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** a) 7 July 1966 b) Approximately 7 July 1966  
**POB:** Estimated to be in Lanao del Sur, Philippines **\*Good quality a.k.a.:** a) Yunos, Muklis b) Saifullah Mukhlis Yunos **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 9 Sept. 2003 (amended on 9 Sept. 2005) **\*Other information:** na

**205. \*Name:** 1: ALI 2: AHMED 3: YUSAF 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 20 Nov. 1974 **POB:** Garbaharey, Somalia **\*Good quality a.k.a.:** Ali Galoul **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Swedish  
**Passport no.:** Swedish passport 1041635 **National identification no.:** 741120-1093 **Address:** Krålinge gränd 33 S-16362 Spånga **\*Listed on:** 9 Nov. 2001  
**\*Other information:** na

**206. \*Name:** 1: ZAINI 2: ZAKARIA 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 16 May 1967 **POB:** Kelantan, Malaysia **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** Ahmad **\*Nationality:** Malaysian **Passport no.:** A 11457974 **National identification no.:** 670516-03-5283 **Address:** Kota Bharu, Kelantan, Malaysia **\*Listed on:** 9 Sept. 2003 **\*Other information:** na

**207. \*Name:** 1: AHMAD 2: ZERFAOUI 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 15 July 1963 **POB:** Chrea/Algeria **\*Good quality a.k.a.:** a) Abdullah b) Abdalla c) Smail d) Abu Khaoula e) Abu Cholder f) Nuhr **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** probably Algerian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 3 May 2004 **\*Other information:** na

**208. \*Name:** 1: ZULKARNAEN 2: na 3: na 4: na  
**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1963 **POB:** Gebang village, Masaran, Sragen, Central Java, Indonesia **\*Good quality a.k.a.:** a) Zulkarnan b) Zulkarnain c) Zulkarnin d) Arif Sunarso e) Aris Sumarsono f) Aris Sunarso g) Ustad Daud Zulkarnaen h) Murshid **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Indonesian **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 16 May 2005  
**\*Other information:** na

**D. The list of entities belonging to or associated with the Al-Qaida organisation**

**1. \*Name:** ABU SAYYAF GROUP**\*A.k.a.:** Al Harakat Al Islamiyya **F.k.a.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 6 Oct. 2001**\*Other information:** na**2. \*Name:** AFGHAN SUPPORT COMMITTEE (ASC)**\*A.k.a.:** a) Lajnat ul Masa Eidatul Afghaniab b) Jamiat Ayat-ur-Rhas al Islamiac c) Jamiat Ihya ul Turath al Islamia d) Ahya ul Turas **F.k.a.:** na **\*Address:** a) Headquarters – G.T. Road (probably Grand Trunk Road), near Pushtoon Garhi Pabbi, Peshawar, Pakistan b) Cheprahar Hadda, Mia Omar Sabaqah School, Jalabad, Afghanistan **\*Listed on:** 11 Jan. 2002 **\*Other information:** na**3. \*Name:** THE AID ORGANIZATION OF THE ULEMA, PAKISTAN**\*A.k.a.:** a) Al Rashid Trust b) Al Rasheed Trust c) Al-Rasheed Trust d) Al-Rashid Trust **F.k.a.:** na **\*Address:** a) Kitab Ghar, Darul Ifta Wal Irshad, Nazimabad No. 4, Karachi, Pakistan, Phone 6683301; Phone 0300-8209199; Fax 6623814 b) 302b- 40, Good Earth Court, Opposite Pia Planitarium, Block 13a, Gulshan -I Iqbal, Karachi; Phone 4979263 c) 617 Clifton Center, Block 5, 6th Floor, Clifton, Karachi; Phone 587-2545 d) 605 Landmark Plaza, 11 Chundrigar Road, Opposite Jang Building, Karachi, Pakistan; Phone 2623818-19 e) Jamia Masjid, Sulaiman Park, Begum Pura, Lahore, Pakistan; Phone 042-6812081 **\*Listed on:** 24 Apr. 2002 **\*Other information:** Pakistan-**4. \*Name:** AKIDA BANK PRIVATE LIMITED**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** a) Akida Islamic Bank International Limited b) Iksir International Bank Limited **\*Address:** a) C/o Arthur D. Hanna & Company b) 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas c) P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas **\*Listed on:** 3 Sept. 2002 **\*Other information:** na**5. \*Name:** AKIDA INVESTMENT CO. LTD.**\*A.k.a.:** Akida Investment Company Limited **F.k.a.:** Akida Bank Private Limited **\*Address:** a) C/o Arthur D. Hanna & Company b) 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas c) P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas **\*Listed on:** 3 Sept. 2002 **\*Other information:** na**6. \*Name:** AL-AKHTAR TRUST INTERNATIONAL**\*A.k.a.:** a) Al Akhtar Trust b) Al-Akhtar Medical Centre c) Akhtarabad Medical Camp **F.k.a.:** na **\*Address:** a) ST- 1/A, Gulsahn-e-Iqbal, Block 2, Karachi, 25300, Pakistan b) Gulistan-e-Jauhar, Block 12, Karachi, Pakistan **\*Listed on:** 17 Aug. 2005 **\*Other information:** Regional offices in Pakistan: Bahawalpur, Bawalnagar, Gilgit, Islamabad, Mirpur Khas, Tando-Jan-Muhammad. Akhtarabad Medical Camp is in Spin Boldak, Afghanistan.**7. \*Name:** AL BARAKA EXCHANGE L.L.C.**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** a) P.O. BOX 3313 Deira Dubai, UAE b) P.O. Box 20066, Dubai, UAE **\*Listed on:** 9 Nov. 2001 **\*Other information:** na

**8. \*Name: AL-BARAKAAT**

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** a) Mogadishu, Somalia b) Dubai, UAE **\*Listed on:** 9 Nov. 2001 **\*Other information:** na

**9. \*Name: AL-BARAKAAT BANK**

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** Mogadishu, Somalia **\*Listed on:** 9 Nov. 2001 **\*Other information:** na

**10. \*Name: AL-BARAKAAT WIRING SERVICE**

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** 2940 Pillsbury Avenue, Suite 4, Minneapolis, Minnesota 55408 **\*Listed on:** 9 Nov. 2001 **\*Other information:** na

**11. \*Name: AL-BARAKAT BANK OF SOMALIA (BSS)**

**\*A.k.a.:** Barakat Bank Of Somalia **F.k.a.:** na **\*Address:** a) Mogadishu, Somalia b) Bossaso, Somalia **\*Listed on:** 9 Nov. 2001 **\*Other information:** na

**12. \*Name: AL-BARAKAT FINANCE GROUP**

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** a) Dubai, UAE b) Mogadishu, Somalia **\*Listed on:** 9 Nov. 2001 **\*Other information:** na

**13. \*Name: AL-BARAKAT FINANCIAL HOLDING CO.**

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** a) Dubai, UAE b) Mogadishu, Somalia **\*Listed on:** 9 Nov. 2001 **\*Other information:** na

**14. \*Name: AL-BARAKAT GLOBAL TELECOMMUNICATIONS**

**\*A.k.a.:** a) Barakaat Globetelcompany b) Al Barakat Telecommunications Ltd. **F.k.a.:** na **\*Address:** a) P.O. Box 3313, Dubai, UAE b) Mogadishu, Somalia c) Hargeysa, Somalia **\*Listed on:** 9 Nov. 2001 (amended on 26 Nov. 2004) **\*Other information:** na

**15. \*Name: Al-BARAKAT GROUP OF COMPANIES SOMALIA LIMITED**

**A.k.a.:** Al-Barakat Financial Company **F.k.a.:** na **\*Address:** a) P.O. Box 3313, Dubai, UAE b) Mogadishu, Somalia **\*Listed on:** 9 Nov. 2001 **\*Other information:** na

**16. \*Name: Al-BARAKAT INTERNATIONAL**

**\*A.k.a.:** Baraco Co. **F.k.a.:** na **\*Address:** Box 2923, Dubai, UAE **\*Listed on:** 9 Nov. 2001 **\*Other information:** na

**17. \*Name: AL-BARAKAT INVESTMENTS**

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** P.O. Box 3313, Deira, Dubai, UAE **\*Listed on:** 9 Nov. 2001 **\*Other information:** na

**18. \*Name: AL FURQAN**

**\*A.k.a.:** a) Dzemilijati Furkan b) Dzem'ijjetul Furqan c) Association for Citizens Rights and Resistance to Lies d) Dzemijetul Furkan e) Association of Citizens for

the Support of Truth and Supression of Lies f) Sirat g) Association for Education, Culture and Building Society-Sirat h) Association for Education, Cultural, and to Create Society -Sirat i) Istikamet j) In Siratel F.k.a.: na Address: a) Put Mladih Muslimana 30a, 71 000 Sarajevo, BiH b) ul. Strossmajerova 72, Zenica, BiH c) Muhameda Hadzijahica #42, Sarajevo, BiH \*Listed on: 11 May 2004 (amended on 26 Nov. 2004) \*Other information: na

**19. \*Name: AL-HAMATI SWEETS BAKERIES**

\*A.k.a.: na F.k.a.: na \*Address: Al-Mukallah, Hadhramawt Governorate, Yemsa  
\*Listed on: 17 Oct. 2001 \*Other information: na

**20. \*Name: AL-HARAMAIN & AL MASJED AL-AQSA CHARITY FOUNDATION**

\*A.k.a.: a) Al Haramain Al Masjed Al Aqsa b) Al Haramayn Al Masjid Al Aqsa c) Al-Haramayn and Al Masjid Al Aqsa Charitable Foundation F.k.a.: na  
\*Address: a) Branch Address: Hasiba Brankovica No. 2A, Sarajevo, BiH b) Bihacka St. 14, Sarajevo c) Travnick, Potur mahala St. 64 \*Listed on: 28 June 2004 (amended on 26 Nov. 2004) \*Other information: Closed by Bosnian Authorities.

**21. \*Name: AL-HARAMAIN: AFGHANISTAN BRANCH**

\*A.k.a.: na F.k.a.: na \*Address: Afghanistan \*Listed on: 6 July 2004 \*Other information: na

**22. \*Name: AL-HARAMAIN: ALBANIA BRANCH**

\*A.k.a.: na F.k.a.: na \*Address: Irfan Tomini Street, #58, Tirana, Albania  
\*Listed on: 6 July 2004 \*Other information: na

**23. \*Name: AL-HARAMAIN: BANGLADESH BRANCH**

\*A.k.a.: na F.k.a.: na \*Address: House 1, Road 1, S-6, Uttara, Dhaka, Bangladesh \*Listed on: 6 July 2004 \*Other information: na

**24. \*Name: AL-HARAMAIN: ETHIOPIA BRANCH**

\*A.k.a.: na F.k.a.: na \*Address: Woreda District 24 Kebele Section 13, Addis Ababa, Ethiopia \*Listed on: 6 July 2004 \*Other information: na

**25. \*Name: AL-HARAMAIN FOUNDATION (INDONESIA)**

\*A.k.a.: Yayasan Al-Manahil-Indonesia F.k.a.: na \*Address: Jalan Laut Sulawesi Blok DII/4, Kavling Angkatan Laut Duren Sawit, Jakarta Timur 13440 Indonesia; Tel.: 021-86611265 and 021-86611266; Fax: 021-8620174 \*Listed on: 26 Jan. 2004 \*Other information: na

**26. \*Name: AL-HARAMAIN FOUNDATION (PAKISTAN)**

\*A.k.a.: na F.k.a.: na \*Address: House #279, Nazimuddin Road, F-10/1, Islamabad, Pakistan \*Listed on: 26 Jan. 2004 \*Other information: na

**27. \*Name:** AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNION OF THE COMOROS)

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** B/P: 1652 Moroni, Union of the Comoros

**\*Listed on:** 28 Sept. 2004 **\*Other information:** na

**28. \*Name:** AL-HARAMAIN FOUNDATION (UNITED STATES OF AMERICA)

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** a) 1257 Siskiyou Blvd., Ashland, OR 97520 b) 3800 Highway 99 S, Ashland, OR 97520 c) 2151 E Division St., Springfield, MO 65803

**\*Listed on:** 28 Sept. 2004 **\*Other information:** na

**29. \*Name:** AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION

**\*A.k.a.:** a) Vazir b) Vezir **F.k.a.:** na **\*Address:** 64 Poturmahala, Travnik, Bosnia and Herzegovina **\*Listed on:** 13 Mar. 2002 (amended on 26 Dec. 2003) **\*Other information:** na

**30. \*Name:** AL-HARAMAIN ISLAMIC FOUNDATION

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** Somalia **\*Listed on:** 13 Mar. 2002 **\*Other information:** na

**31. \*Name:** AL-HARAMAIN: THE NETHERLANDS BRANCH

**\*A.k.a.:** Stichting Al Haramain Humanitarian Aid **F.k.a.:** na **\*Address:** Jan Hanzenstraat 114, 1053SV, Amsterdam, The Netherlands **\*Listed on:** 6 July 2004

**\*Other information:** na

**32. \*Name:** AL-HARAMAYN FOUNDATION (KENYA)

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** a) Nairobi, Kenya b) Garissa, Kenya c) Dadaab, Kenya **\*Listed on:** 26 Jan. 2004 **\*Other information:** na

**33. \*Name:** AL-HARAMAYN FOUNDATION (TANZANIA)

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** a) P.O. Box 3616, Dar es Salaam, Tanzania b) Tanga c) Singida **\*Listed on:** 26 Jan. 2004 **\*Other information:** na

**34. \*Name:** AL-ITIHAAD AL-ISLAMIYA / AIAI

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** na **\*Listed on:** 6 Oct. 2001 **\*Other information:** na

**35. \*Name:** AL-JIHAD/ EGYPTIAN ISLAMIC MOVEMENT

**\*A.k.a.:** a) Egyptian Al-Jihad b) Egyptian Islamic Jihad c) Jihad Group d) New Jihad **F.k.a.:** na **\*Address:** na **\*Listed on:** 6 Oct. 2001 **\*Other information:** na

**36. \*Name:** AL-NUR HONEY PRESS SHOPS

**\*A.k.a.:** Al-Nur Honey Center **F.k.a.:** na **\*Address:** Sanaa, Yemen **\*Listed on:** 17 Oct. 2001 **\*Other information:** na

**37. \*Name:** AL QA'IDA/ ISLAMIC ARMY

**\*A.k.a.:** a) "The Base" b) Al Qaeda c) Islamic Salvation Foundation d) The Group for the Preservation of the Holy Sites e) The Islamic Army for the Liberation of Holy Places f) The World Islamic Front for Jihad Against Jews and Crusaders g) Usama Bin Laden Network h) Usama Bin Laden Organization **F.k.a.:** na  
**\*Address:** na **\*Listed on:** 6 Oct. 2001 **\*Other information:** na

**38. \*Name:** AL RASHID TRUST

**\*A.k.a.:** Al-Rasheed Trust **F.k.a.:** na **\*Address:** a) Kitas Ghar, Nazimabad 4, Dahgel-Iftah, Karachi, Pakistan b) Jamia Maajid, Sulalman Park, Melgium Pura, Lahore, Pakistan c) Office Dha'rbi-M'unin, Opposite Khyber Bank, Abbottabad Road, Mansehra, Pakistan d) Office Dha'rbi-M'unin ZR Brothers, Katcherry Road, Chowk Yadgaar, Peshawar, Pakistan e) Office Dha'rbi-M'unin, Rm No. 3, Moti Plaza, Near Liaquat Bagh, Muree Road, Rawalpindi, Pakistan f) Office Dha'rbi-M'unin, Top Floor, Dr. Dawa Khan Dental Clinic Surgeon, Main Baxae, Mingora, Swat, Pakistan **\*Listed on:** 6 Oct. 2001 **\*Other information:** Operations in Afghanistan: Herat Jalalabad, Kabul, Kandahar, Mazar Sherif. Also operations in Kosovo, Chechnya.

**39. \*Name:** AL-SHIFA, HONEY PRESS FOR INDUSTRY AND COMMERCE

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** a) P.O. Box 8089, Al-Hasabah, Sanaa, Yemen b) By The Shrine Next To The Gas Station, Jamal Street, Ta'iz, Yemen c) Al-Arudh Square, Khur Maksar, Aden, Yemen d) Al-Nasr Street, Doha, Qatar  
**\*Listed on:** 17 Oct. 2001 **\*Other information:** na

**40. \*Name:** ANSAR AL-ISLAM

**\*A.k.a.:** a) Devotees of Islam b) Jund al-Islam c) Soldiers of Islam d) Kurdistan Supporters of Islam e) Supporters of Islam in Kurdistan f) Followers of Islam in Kurdistan g) Kurdish Taliban h) Soldiers of God i) Ansar al-Sunna Army j) Jaish Ansar al-Sunna k) Ansar al-Sunna **F.k.a.:** na **\*Address:** na **\*Listed on:** 24 Feb. 2003 (amended on 31 Mar. 2004) **\*Other information:** Location: The Kurdish-controlled area of northeastern Iraq.

**41. \*Name:** ARMED ISLAMIC GROUP

**\*A.k.a.:** a) Al Jamm'ah Al-Islamiah Al- Musallah b) GIA c) Groupement Islamique Armé **F.k.a.:** na **\*Address:** na **\*Listed on:** 6 Oct. 2001 **\*Other information:** na

**42. \*Name:** ASAT TRUST REG.

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** Altenbach 8, 9490 Vaduz FI, Liechtenstein  
**\*Listed on:** 9 Nov. 2001 **\*Other information:** na

**43. \*Name:** ASBAT AL-ANSAR

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** na **\*Listed on:** 6 Oct. 2001 **\*Other information:** na

**44. \*Name:** BA TAQWA FOR COMMERCE AND REAL ESTATE COMPANY LIMITED

**A.k.a.:** Hochburg AG **F.k.a.:** na **\*Address:** a) Vaduz, Liechtenstein b) formerly c/o Astat Trust reg. **\*Listed on:** 3 Sept. 2002 (amended on 26 Dec. 2003) **\*Other information:** na

**45. \*Name:** BANK AL TAQWA LIMITED

**\*A.k.a.:** a) Al Taqwa Bank b) Bank Al Taqwa **F.k.a.:** na **\*Address:** a) P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas b) C/O Arthur D. Hanna & Company c) 10 Deveaux Street, Nassau, Bahamas **\*Listed on:** 9 Nov. 2001 **\*Other information:** na

**46. \*Name:** BARAKAAT BOSTON

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** 266 Neponset Avenue, Apt. 43, Dorchester, Massachusetts 02122-3224 **\*Listed on:** 9 Nov. 2001 **\*Other information:** na

**47. \*Name:** BARAKAAT CONSTRUCTION COMPANY

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** P.O. Box 3313, Dubai, UAE **\*Listed on:** 9 Nov. 2001 **\*Other information:** na

**48. \*Name:** BARAKAAT GROUP OF COMPANIES

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** a) P.O. Box 3313, Dubai, UAE b) Mogadishu, Somalia **\*Listed on:** 9 Nov. 2001 **\*Other information:** na

**49. \*Name:** BARAKAAT INTERNATIONAL

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** Hallbybacken 15, 70 Spanga **\*Listed on:** 9 Nov. 2001 **\*Other information:** na

**50. \*Name:** BARAKAAT INTERNATIONAL FOUNDATION

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** a) Box 4036, Spanga, Stockholm, Sweden b) Rinkebytorget 1, 04 Spanga, Sweden **\*Listed on:** 9 Nov. 2001 **\*Other information:** na

**51. \*Name:** BARAKAAT INTERNATIONAL, INC.

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** 1929 South 5th Street, Suite 205, Minneapolis, Minnesota **\*Listed on:** 9 Nov. 2001 **\*Other information:** na

**52. \*Name:** BARAKAAT NORTH AMERICA, INC.

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** a) 925 Washington Street, Dorchester, Massachusetts b) 2019 Bank Street, Ottawa, Ontario, Canada **\*Listed on:** 9 Nov. 2001 **\*Other information:** na

**53. \*Name:** BARAKAAT RED SEA TELECOMMUNICATIONS

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** a) Bossaso, Somalia b) Nakhiil, Somalia c) Huruuse, Somalia d) Raxmo, Somalia e) Ticis, Somalia f) Kowthar, Somalia g)



Noobir, Somalia h) Bubaarag, Somalia i) Gufure, Somalia j) Xuuxuule, Somalia k) Ala Aamin, Somalia l) Guureeye, Somalia m) Najax, Somalia n) Carafaat, Somalia \*Listed on: 9 Nov. 2001 \*Other information: na

54. \*Name: BARAKAAT TELECOMMUNICATIONS CO. SOMALIA, LTD.  
\*A.k.a.: na F.k.a.: na \*Address: P.O. Box 3313, Dubai, UAE \*Listed on: 9 Nov. 2001 \*Other information: na

55. \*Name: BARAKAAT WIRE TRANSFER COMPANY  
\*A.k.a.: na F.k.a.: na \*Address: 4419 South Brandon Street, Seattle, Washington  
\*Listed on: 9 Nov. 2001 \*Other information: na

56. \*Name: BARAKAT BANKS AND REMITTANCES  
\*A.k.a.: a) Barakaat Bank of Somalia Ltd. b) Baraka Bank of Somalia F.k.a.: na  
\*Address: a) Mogadishu, Somalia b) Dubai, UAE \*Listed on: 9 Nov. 2001  
(amended on 26 Nov. 2004) \*Other information: na

57. \*Name: BARAKAT COMPUTER CONSULTING (BCC)  
\*A.k.a.: na F.k.a.: na \*Address: Mogadishu, Somalia \*Listed on: 9 Nov. 2001  
\*Other information: na

58. \*Name: BARAKAT CONSULTING GROUP (BCG)  
\*A.k.a.: na F.k.a.: na \*Address: Mogadishu, Somalia \*Listed on: 9 Nov. 2001  
\*Other information: na

59. \*Name: BARAKAT GLOBAL TELEPHONE COMPANY  
\*A.k.a.: na F.k.a.: na \*Address: a) Mogadishu, Somalia b) Dubai, UAE \*Listed on: 9 Nov. 2001 \*Other information: na

60. \*Name: BARAKAT INTERNATIONAL COMPANIES (BICO)  
\*A.k.a.: na F.k.a.: na \*Address: a) Mogadishu, Somalia b) Dubai, UAE \*Listed on: 9 Nov. 2001 \*Other information: na

61. \*Name: BARAKAT POST EXPRESS (BPE)  
\*A.k.a.: na F.k.a.: na \*Address: Mogadishu, Somalia \*Listed on: 9 Nov. 2001  
\*Other information: na

62. \*Name: BARAKAT REFRESHMENT COMPANY  
\*A.k.a.: na F.k.a.: na \*Address: a) Mogadishu, Somalia b) Dubai, UAE \*Listed on: 9 Nov. 2001 \*Other information: na

63. \*Name: BARAKAT TELECOMMUNICATIONS COMPANY LIMITED  
\*A.k.a.: BTELCO F.k.a.: na \*Address: a) Bakara Market, Dar Salaam Building, Mogadishu, Somalia b) Last known address The Netherlands \*Listed on: 9 Nov. 2001 \*Other information: na

**64. \*Name:** BARAKA TRADING COMPANY

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** P.O. Box 3313, Dubai, UAE **\*Listed on:** 9 Nov. 2001 **\*Other information:** na

**65. \*Name:** BARAKO TRADING COMPANY, LLC

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** P.O. Box 3313, Dubai, UAE **\*Listed on:** 9 Nov. 2001 **\*Other information:** na

**66. \*Name:** BENEVOLENCE INTERNATIONAL FOUNDATION

**\*A.k.a.:** a) Al Bir Al Dawalia b) BIF c) BIF-USA d) Mezhdunarodnyj Blagotvoritel'nyl Fond **F.k.a.:** na **\*Address:** a) 8820 Mobile Avenue, IA, Oak Lawn, Illinois, 60453 U.S.A. b) P.O. Box 548, Worth, Illinois, 60482 U.S.A. c) (Formerly located at) 9838 S. Roberts Road, Suite 1W, Palos Hills, Illinois, 60465 U.S.A. d) (Formerly located at) 20-24 Branford Place, Suite 705, Newark, New Jersey, 07102 U.S.A. e) Bashir Safar Ugli 69, Baku, Azerbaijan f) 69 Boshir Safaroglu St., Baku, Azerbaijan g) Sarajevo, Bosnia-Herzegovina h) Zenica, Bosnia-Herzegovina i) (Last known address) 3 King Street, South Waterloo, Ontario, N2J 3Z6 Canada j) (Last known address) P.O. Box 1508 Station 1, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada k) (Last known address) 2465 Cawthra Rd., #203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada l) Ottawa, Canada m) Grozny, Chechnya n) 91 Paihonggou, Lanzhou, Gansu, China 730000 o) Hrvatov 30, 41000, Zagreb, Croatia p) Makhachkala, Daghestan q) Duisi, Georgia r) Tbilisi, Georgia s) Nazran, Ingushetia t) Burgemeester Kessensingel 40, Maastricht, Netherlands u) Stichting Benevolence International Nederland (a.k.a. Benevolence International Nederland, a.k.a. BIN). Radeborg 14B, 6228 CV Maastricht, Netherlands. Chamber of commerce, registration: 14063277 v) House 111, First Floor, Street 64, F-10/3, Islamabad, Pakistan w) P.O. Box 1055, Peshawar, Pakistan x) Azovskaya 6, km. 3, off. 401, Moscow, Russia 113149 y) Ulitsa Oktyabr'skaya, dom. 89, Moscow, Russia 127521 z) P.O. Box 1937, Khartoum, Sudan aa) P.O. Box 7600, Jeddah 21472, Saudi Arabia ab) P.O. Box 10845, Riyadh 11442, Saudi Arabia ac) Dushanbe, Tajikistan ad) United Kingdom ae) Afghanistan af) Bangladesh ag) Gaza Strip ah) Bosnia-Herzegovina ai) Yemen **\*Listed on:** 21 Nov. 2002 (updated 24 Jan. 2003) **\*Other information:** Employee Identification Number (U.S.) 363823186

**67. \*Name:** BENEVOLENCE INTERNATIONAL FUND

**\*A.k.a.:** Benevolent International Fund **F.k.a.:** na **\*Address:** a) (Last known address) 2465 Cawthra Rd., Unit 203, Mississauga, Ontario, L5A 3P2 Canada b) (Last known address) P.O. Box 1508, Station B, Mississauga, Ontario, L4Y 4G2 Canada c) (Last known address) P.O. Box 40015, 75 King Street South, Waterloo, Ontario, N2J 4V1 Canada d) (Last known address) 92 King Street, 201, Waterloo, Ontario, N2J 1P5 Canada **\*Listed on:** 21 Nov. 2002 **\*Other information:** na

**68. \*Name:** BOSANSKA IDEALNA FUTURA

**\*A.k.a.:** a) BIF-Bosnia b) Bosnian Ideal Future **F.k.a.:** na **\*Address:** a) Salke Lagumdzije 12, 71000 Sarajevo, Bosnia- Herzegovina b) Hadzije Mazica Put 16F,

72000 Zenica, Bosnia-Herzegovina c) Sehidska Street, Breza, Bosnia-Herzegovina d) Kanal 1, 72000 Zenica, Bosnia-Herzegovina e) Hamze Celenke 35, Ilidza, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina \*Listed on: 21 Nov. 2002 \*Other information: Doing business as BECF Charitable Educational Center, Benevolence Educational Center

**69. \*Name:** DJAMAT HOUMAT DAAWA SALAFIA (DHDS)

\*A.k.a.: El-Ahouel F.k.a.: na \*Address: na Listed on: 11 Nov. 2003 (amended on 26 Nov. 2004) \*Other information: A branch of GIA formed as a result of the break that occurred in 1996 when Afghanistan Veteran Kada Benchikha Larbi decided to oppose the head of GIA

**70. \*Name:** THE EASTERN TURKISTAN ISLAMIC MOVEMENT

\*A.k.a.: a) The Eastern Turkistan Islamic Party b) The Eastern Turkistan Islamic Party of Allah F.k.a.: na \*Address: na \*Listed on: 11 Sept. 2002 \*Other information: na

**71. \*Name:** GLOBAL RELIEF FOUNDATION (GRF)

\*A.k.a.: a) Fondation Secours Mondial (FSM) b) Secours mondial de France (SEMONDE) c) Fondation Secours Mondial – Belgique a.s.b.l. d) Fondation Secours Mondial vzw e) FSM f) Stichting Wereldhulp – Belgie, v.z.w. g) Fondation Secours Mondial – Kosova h) Fondation Secours Mondial “World Relief” F.k.a.: na \*Address: a) 9935 South 76th Avenue, Unit 1, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A. b) P.O. Box 1406, Bridgeview, Illinois 60455, U.S.A. c) 49 rue du Lazaret, 67100 Strasebourg, France d) Vaatjesstraat, 29, 2580 Putte, Belgium e) Rue des Bataves 69, 1040 Etterbeek, Brussels, Belgium f) P.O. Box 6, 1040 Etterbeek 2, Brussels, Belgium g) Mula Mustafe Baseskije Street No. 72, Sarajevo, Bosnia h) Put Mladih Muslimana Street 30/A, Sarajevo, Bosnia i) Rr. Skenderbeu 76, Lagija Sefa, Gjakova, Kosovo j) Ylli Morina Road, Djakovica, Kosovo k) Rruga e Kavajes, Building No. 3, Apartment No. 61, P.O. Box 2892, Tirana, Albania l) House 267 Street No. 54, Sector F – 11/4, Islamabad, Pakistan \*Listed on: 22 Oct. 2002 (amended on 26 Nov. 2004 and 20 Dec. 2005) \*Other information: Other Foreign Locations: Afghanistan, Azerbaijan, Bangladesh, Chechnya (Russia), China, Eritrea, Ethiopia, Georgia, India, Ingushetia (Russia), Iraq, Jordan, Kashmir, Lebanon, West Bank and Gaza, Sierra Leone, Somalia and Syria. US. Federal Employer Identification: 36-3804626. V.A.T. Number: BE 454,419,759. Belgian addresses incorrect: these are the addresses of Putte et Bruxelles de l’Association sans but Lucratif since 1998

**72. \*Name:** GULF CENTER S.R.L.

\*A.k.a.: na F.k.a.: na \*Address: Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy \*Listed on: 3 Sept. 2002 \*Other information: Fiscal Code: 07341170152 V.A.T. Number: IT 07341170152

**73. \*Name:** HAKAKAT UL-MUJAHIDIN / HUM

**\*A.k.a.:** a) Al-Faran b) Al-Hadid c) Al-Hadith d) Harakat Ul-Ansar e) HUA f) Harakat Ul- Mujahideen **F.k.a.:** na **\*Address:** na **\*Listed on:** 6 Oct. 2001 **\*Other information:** na

**74. \*Name:** HEYATUL ULYA

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** Mogadishu, Somalia **\*Listed on:** 9 Nov. 2001 **\*Other information:** na

**75. \*Name:** HOTEL NASCO

**\*A.k.a.:** Nasco Business Residence Center SAS Di Nasreddin Ahmed Idris EC **F.k.a.:** na **\*Address:** Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy **\*Listed on:** 3 Sept. 2002 (amended on 25 July 2005) **\*Other information:** Fiscal Code : 01406430155 V.A.T. Number : IT 01406430155

**76. \*Name:** ISLAMIC ARMY OF ADEN

**A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** na **\*Listed on:** 6 Oct. 2001 **\*Other information:** na

**77. \*Name:** ISLAMIC INTERNATIONAL BRIGADE (IIB)

**\*A.k.a.:** a) The Islamic Peacekeeping Brigade b) The Islamic Peacekeeping Army c) The International Brigade d) Islamic Peacekeeping Battalion e) International Battalion f) Islamic Peacekeeping International Brigade **F.k.a.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 4 Mar. 2003 **\*Other information:** na

**78. \*Name:** ISLAMIC JIHAD GROUP

**\*A.k.a.:** a) Jama'at al-Jihad b) Libyan Society c) Kazakh Jama'at d) Jamaat Mojahedin e) Jamiyat f) Jamiat al-Jihad al- Islami g) Dzhamaat Modzhakhedov h) Islamic Jihad Group of Uzbekistan i) al-Djihad al-Islami **F.k.a.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 1 June 2005 **\*Other information:** na

**79. \*Name:** ISLAMIC MOVEMENT OF UZBEKISTAN

**A.k.a.:** IMU **F.k.a.:** na **\*Address:** na **\*Listed on:** 6 Oct. 2001 **\*Other information:** na

**80. \*Name:** JAISH-I-MOHAMMED

**\*A.k.a.:** Army of Mohammed **F.k.a.:** na **\*Address:** Pakistan **\*Listed on:** 17 Oct. 2001 **\*Other information:** na

**81. \*Name:** JAMA'AT AL-TAWHID WA'AL-JIHAD (JTJ)

**\*A.k.a.:** a) al-Zarqawi network; b) al-Tawhid; c) the Monotheism and Jihad Group d) Qaida of the Jihad in the Land of the Two Rivers e) Al-Qaida of Jihad in the Land of the Two Rivers f) The Organization of Jihad's Base in the Country of the Two Rivers g) The Organization Base of Jihad/Country of the Two Rivers h) The Organization Base of Jihad/Mesopotamia i) Tanzim Qa'idat Al-Jihad fi Bilad

al-Rafidayn j) Tanzeem Qa'idat al Jihad/Bilad al Raafidaini **F.k.a.:** na **\*Address:** na **\*Listed on:** 18 Oct. 2004 (amended on 2 Dec. 2004) **\*Other information:** na

**82. \*Name:** JAM'YAH TA'AWUN AL-ISLAMIA

**\*A.k.a.:** a) Society of Islamic Cooperation b) Jam'iyat Al Ta'awun Al Islamiyya c) Jit **F.k.a.:** na **\*Address:** Qandahar City, Afghanistan **\*Listed on:** 17 Oct. 2001 **\*Other information:** na

**83. \*Name:** JEMAAH ISLAMIYAH

**\*A.k.a.:** a) Jema'ah Islamiyah b) Jemaah Islamiya c) Jemaah Islamiah d) Jamaah Islamiyah e) Jama'ah Islamiyah **F.k.a.:** na **\*Address:** na **\*Listed on:** 25 Oct. 2002 **\*Other information:** The network in Southeast Asia. Founded by the late Abdullah Sungkar.

**84. \*Name:** LAJNAT AL DAAWA AL ISLAMIYA (LDI)

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** na **\*Listed on:** 20 Feb. 2003 **\*Other information:** na

**85. \*Name:** LASHKAR-E-TAYYIBA

**\*A.k.a.:** a) Lashkar-e-Toiba b) Lashkar-i-Taiba c) al Mansoorian d) al Mansooreen e) Army of the Pure f) Army of the Righteous g) Army of the Pure and Righteous h) Paasban-e-Kashmir i) Paasban-i-Ahle-Hadith j) Pasban-e-Kashmir k) Pasban-e-Ahle-Hadith l) Paasban-e-Ahle-Hadis m) Pashan-e-ahle Hadis n) Lashkar e Tayyaba o) LET **F.k.a.:** na **\*Address:** na **\*Listed on:** 2 May 2005 (amended on 3 Nov. 2005) **\*Other information:** na

**86. \*Name:** LASHKAR I JHANGVI (LJ)

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 3 Feb. 2003 **\*Other information:** na

**87. \*Name:** LIBYAN ISLAMIC FIGHTING GROUP

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** na **\*Listed on:** 6 Oct. 2001 **\*Other information:** na

**88. \*Name:** I: MAKHTAB AL-KHIDAMAT/AL KIFAH

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** na **\*Listed on:** 6 Oct. 2001 **\*Other information:** na

**89. \*Name:** MAMOUN DARKAZANLI IMPORT-EXPORT COMPANY

**\*A.k.a.:** a) Darkazanli Company b) Darkazanli Export-Import Sonderposten **F.k.a.:** na **\*Address:** Uhlenhorsterweg 34 11 Hamburg, Germany **\*Listed on:** 6 Oct. 2001 **\*Other information:** na

**90. \*Name:** MEADOWBROOK INVESTMENTS LIMITED

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** 44 Upper Belgrave Road, Clifton, Bristol, BS8 2XN, United Kingdom **\*Listed on:** 7 Feb. 2006 **\*Other information:** Registration number: 05059698

**91. \*Name:** MIGA-MALAYSIAN SWISS, GULF AND AFRICAN CHAMBER  
**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** a) c/o Office Assoc. Per Lo Sviluppo Comm. Ind. E Turis b) Fra Gli Stati Arabi Del Golfo E La Svizzera **\*Address:** Via Maggio 21, 6900 Lugano TI, Switzerland **\*Listed on:** 3 Sept. 2002 **\*Other information:** na

**92. \*Name:** MOROCCAN ISLAMIC COMBATANT GROUP  
**\*A.k.a.:** Groupe Islamique Combattant Marocain **F.k.a.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 10 Oct. 2002 **\*Other information:** na

**93. \*Name:** MOVEMENT FOR REFORM IN ARABIA  
**\*A.k.a.:** a) Movement for Islamic Reform in Arabia b) MIRA c) Al Islah (Reform) d) MRA e) Al-Harakat al-Islamiyah lil-Islah f) Islamic Movement for Reform g) Movement for (Islamic) Reform in Arabia Ltd h) Movement for Reform in Arabia Ltd **F.k.a.:** na **\*Address:** BM Box: MIRA, London WC1N 3XX, United Kingdom, Alternate Address: Safiee Suite, EBC House, Townsend Lane, London, NW9 8LL, United Kingdom **\*Listed on:** 15 July 2005 **\*Other information:** Email address: info@islah.org, Tel: 020 8452 0303, Fax: 020 8452 0808, UK Company number 03834450

**94. \*Name:** NADA INTERNATIONAL ANSTALT  
**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** a) Vaduz, Liechtenstein b) formerly c/o Asat Trust reg. **\*Listed on:** 3 Sept. 2002 **\*Other information:** na

**95. \*Name:** NADA MANAGEMENT ORGANIZATION SA  
**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** Al Taqwa Management Organization Sa **\*Address:** Viale Stefano Franscini 22, Ch-6900 Lugano TI, Switzerland **\*Listed on:** 9 Nov. 2001 (amended on 26 Nov. 2004) **\*Other information:** Liquidated and deleted from Commercial Registry.

**96. \*Name:** NASCO NASREDDIN HOLDING A.S.  
**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** a) Demirhane Caddesi, No: 219, Zemin Kat, Zeytinburnu, Istanbul, Turkey b) last address listed for this entry in the Foreign Investment Archives of the Turkish Treasury is "Cobancesme San. Genc Osman Sok. No: 12, Yenibosna, Istanbul, Turkey" **\*Listed on:** 3 Sept. 2002 (amended on 20 Dec. 2005) **\*Other information:** na

**97. \*Name:** NASCOSERVICE S.R.L.  
**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy **\*Listed on:** 3 Sept. 2002 **\*Other information:** Fiscal Code: 08557650150 V.A.T. Number: IT 08557650150

**98. \*Name:** NASCOTEX S.A

**\*A.k.a.:** a) Industrie Generale De Filature Et Tissage b) Industrie Generale De Textile **F.k.a.:** na **\*Address:** a) KM 7 Route de Rabat, BP 285, Tangiers, Morocco b) KM 7 Route de Rabat, Tangiers, Morocco **\*Listed on:** 3 Sept. 2002 **\*Other information:** na

**99. \*Name:** NASREDDIN COMPANY NASCO SAS DI AHMED IDRIS  
NASREDDIN EC

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy **\*Listed on:** 3 Sept. 2002 **\*Other information:** Fiscal Code: 03464040157 V.A.T. Number : IT 03464040157

**100. \*Name:** NASREDDIN FOUNDATION

**\*A.k.a.:** Nasreddin Stiftung **F.k.a.:** na **\*Address:** C/o Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein **\*Listed on:** 3 Sept. 2002 **\*Other information:** na

**101. \*Name:** NASREDDIN GROUP INTERNATIONAL HOLDING LIMITED

**\*A.k.a.:** Nasreddin Group International Holdings Limited **F.k.a.:** na **\*Address:** a) C/o Arthur D. Hanna & Company b) 10 Deveau Street, Nassau, Bahamas c) P.O. Box N-4877, Nassau, Bahamas **\*Listed on:** 3 Sept. 2002 **\*Other information:** na

**102. \*Name:** NASREDDIN INTERNATIONAL GROUP LIMITED HOLDING

**\*A.k.a.:** Nasreddin International Group Ltd. Holding **F.k.a.:** na **\*Address:** a) c/o/ Rechta Treuhand-Anstalt, Vaduz, Liechtenstein b) Corso Sempione 69, 20149 Milan, Italy **\*Listed on:** 3 Sept. 2002 **\*Other information:** na

**103. \*Name:** OZLAM PROPERTIES LIMITED

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** 88 Smithdown Road, Liverpool, L7 4JQ, United Kingdom **\*Listed on:** 7 Feb. 2006 **\*Other information:** Registration number: 05258730

**104. \*Name:** PARKA TRADING COMPANY

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** P.O. Box 3313, Deira, Dubai, UAE **\*Listed on:** 9 Nov. 2001 **\*Other information:** na

**105. \*Name:** RABITA TRUST

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** a) Room 9a, 2nd Floor, Wahdat Road, Education Town, Lahore, Pakistan b) Wares Colony, Lahore, Pakistan **\*Listed on:** 17 Oct. 2001 **\*Other information:** na

**106. \*Name:** RED SEA BARAKAT COMPANY LIMITED

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** a) Mogadishu, Somalia b) Dubai, UAE **\*Listed on:** 9 Nov. 2001 **\*Other information:** na

**107. \*Name:** REVIVAL OF ISLAMIC HERITAGE SOCIETY (RIHS)

**\*A.k.a.:** a) Jamiat Ihia Al-Turath Al-Islamiya b) Revival of Islamic Society Heritage on the African Continent c) Jamia Ihya ul Turath **F.k.a.:** na **\*Address:** a) Pakistan b) Afghanistan **\*Listed on:** 11 Jan. 2002 **\*Other information:** NOTE: Only the Pakistan and Afghanistan offices of this entity will be designated

**108. \*Name:** RIYADUS-SALIKHIN RECONNAISSANCE AND SABOTAGE BATTALION OF CHECHEN MARTYRS (RSRSBCM)

**\*A.k.a.:** a) Riyadus-Salikhin Reconnaissance and Sabotage Battalion b) Riyadh-as-Saliheen c) The Sabotage and Military Surveillance Group of the Riyadh al-Salihin Martyrs d) Firqat al-Takhrib wa al-Istitla al-Askariyah li Shuhada Riyadh al-Salihin **F.k.a.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 4 Mar. 2003 **\*Other information:** na

**109. \*Name:** SALAFIST GROUP FOR CALL AND COMBAT/ GSPC

**\*A.k.a.:** Le Groupe Salafiste Pour La Prediction et le Combat **F.k.a.:** na

**\*Address:** na **\*Listed on:** 6 Oct. 2001 **\*Other information:** na

**110. \*Name:** SANABEL RELIEF AGENCY LIMITED

**\*A.k.a.:** a) Sanabel Relief Agency b) Sanabel L'il-Igatha c) SRA d) Sara e) Al-Rahama Relief Foundation Limited **F.k.a.:** na **\*Address:** a) 63 South Rd, Sparkbrook, Birmingham B 111 EX, United Kingdom b) 1011 Stockport Rd, Levenshulme, Manchester M9 2TB, United Kingdom c) P.O. Box 50, Manchester M19 2SP, United Kingdom d) 98 Gresham Road, Middlesbrough, United Kingdom e) 54 Anson Road, London, NW2 6AD, United Kingdom **\*Listed on:** 7 Feb. 2006 **\*Other information:** Website: <http://www.sanabel.org.uk>. E-mail: [info@sanabel.org.uk](mailto:info@sanabel.org.uk). Charity number: 1083469. Registration number: 3713110

**111. \*Name:** SARA PROPERTIES LIMITED

**\*A.k.a.:** Sara Properties **F.k.a.:** na **\*Address:** a) 104 Smithdown Road, Liverpool, Merseyside L7 4JQ, United Kingdom b) 2a Hartington Road, Liverpool L8 OSG, United Kingdom **\*Listed on:** 7 Feb. 2006 **\*Other information:** Website: <http://www.saraproperties.co.uk>. Registration number: 4636613

**112. \*Name:** SOMALI INTERNATIONAL RELIEF ORGANIZATION

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** 1806 Riverside Avenue, 2nd Floor, Minneapolis, Minnesota **\*Listed on:** 9 Nov. 2001 **\*Other information:** na

**113. \*Name:** SOMALI INTERNET COMPANY

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** Mogadishu, Somalia **\*Listed on:** 9 Nov. 2001 **\*Other information:** na

**114. \*Name:** SOMALI NETWORK AB

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** Hallybybacken 15, 70 Spanga, Sweden **\*Listed on:** 9 Nov. 2001 **\*Other information:** na

**115. \*Name:** SPECIAL PURPOSE ISLAMIC REGIMENT (SPIR)

**\*A.k.a.:** a) The Islamic Special Purpose Regiment b) The al-Jihad-Fisi-Sabililah Special Islamic Regiment **F.k.a.:** na **Address:** na **\*Listed on:** 4 Mar. 2003 **\*Other information:** na

**116. \*Name:** TAIBAH INTERNATIONAL-BOSNIA OFFICES

**\*A.k.a.:** a) Taibah International Aid Agency b) Taibah International Aid Association c) Al Taibah, Intl. d) Taibah International Aide Association **F.k.a.:** na **Address:** a) Avde Smajlovic 6, Sarajevo, BiH b) 26 Tabhanska Street, Visoko, BiH c) No.3 Velika Cilna Ulica, Visoko, BiH d) No. 26 Tahbanksa Ulica, Sarajevo, BiH **\*Listed on:** 11 May 2004 **\*Other information:** na



**117. \*Name: TUNISIAN COMBATANT GROUP**

**\*A.k.a.:** a) Groupe Combattant Tunisien b) Groupe Islamiste Combattant Tunisien (GICT) **F.k.a.:** na **\*Address:** na **\*Listed on:** 10 Oct. 2002 (amended on 26 Nov. 2004) **\*Other information:** na

**118. \*Name: UMMAH TAMEER E-NAU (UTN)**

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** a) Street 13, Wazir Akbar Khan, Kabul, Afghanistan b) Pakistan **\*Listed on:** 24 Dec. 2001 **\*Other information:** na

**119. \*Name: Wafa HUMANITARIAN ORGANIZATION**

**\*A.k.a.:** a) Al Wafa b) Al Wafa Organization c) Wafa Al-Igatha Al-Islamia **F.k.a.:** na **\*Address:** a) Jordan House No. 125, Street 54, Phase II Hayatabad, Peshawar, Pakistan b) Saudi Arabia c) Kuwait d) UAE **\*Listed on:** 6 Oct. 2001 **\*Other information:** na

**120. \*Name: WALDENBERG AG**

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** a) Al Taqwa Trade, Property and Industry b) Al Taqwa Trade, Property and Industry Company Limited c) Al Taqwa Trade, Property and Industry Establishment d) Himmat Establishment **\*Address:** a) c/o Asat Trust Reg., Altenbach 8, 9490 Vaduz FL, Liechtenstein b) Via Posero, 2, 22060 Campione d'Italia, Italy **\*Listed on:** 9 Nov. 2001 (revised on 4 Nov. 2003, amended on 26 Nov. 2004) **\*Other information:** In liquidation.

**121. \*Name: YOUSSEF M. NADA**

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** Via Riasc 4, Ch-6911 Campione D'Italia I, Switzerland **\*Listed on:** 9 Nov. 2001 **\*Other information:** na

**122. \*Name: YOUSSEF M. NADA & CO. GESELLSCHAFT M.B.H.**

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** Kaertner Ring 2/2/5/22, 1010 Vienna, Austria **\*Listed on:** 9 Nov. 2001 (amended on 26 Nov. 2004) **\*Other information:** Company dissolved in October 2002, deleted from Company Registry as of November 2002. Premises vacated November 2002.

**E. Individuals and entities that have been removed from the list pursuant to a decision by the 1267 Committee**

**Taliban individuals:****1. \*Name:** 1: RAHMATULLAH 2: SAFI 3: na 4: na

**Title:** General **Designation:** Taliban representative in Europe **DOB:** a) Approximately 1948 b) 21 Mar. 1913 **POB:** Tagaab district, Kapisa province, Afghanistan **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** Afghan **Passport no.:** na **National identification no.:** na **Address:** na **\*Removed from list on:** 24 Oct. 2005

**Taliban entities:****1. \*Name: DA AFGHANISTAN BANK**

**\*A.k.a.:** a) Bank of Afghanistan b) Central Bank of Afghanistan c) The Afghan State Bank **F.k.a.:** na **\*Address:** a) Ibni Sina Wat, Kabul, Afghanistan b) Any other offices of Da Afghanistan Bank. **\*Removed from list on:** 11 Jan. 2002

**2. \*Name: ACCOUNT OF ARIANA AFGHAN AIRLINES IN CITIBANK**

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** New Delhi, India **\*Removed from the list on:** 15 Jan. 2002

**3. \*Name:** ACCOUNT OF ARIANA AFGHAN AIRLINES IN PUNJAB NATIONAL BANK

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** New Delhi, India **\*Removed from list on:** 15 Jan. 2002

**4. \*Name:** ARIANA AFGHAN AIRLINES

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** Bakhtar Afghan Airlines **\*Address:** a) Afghan Authority Building, P.O. Box 76, Ansari Watt, Kabul, Afghanistan b) Any other offices of Ariana Afghan Airlines **\*Removed from list on:** 15 Jan. 2002

**5. \*Name:** AFGHAN EXPORT BANK

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** na **\*Removed from list on:** 24 Jan. 2002

**6. \*Name:** AGRICULTURAL DEVELOPMENT BANK OF AFGHANISTAN (ADB)

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** United Kingdom **\*Removed from list on:** 24 Jan. 2002

**7. \*Name:** BANKE MILLIE AFGHAN

**\*A.k.a.:** a) Afghan National Bank b) Bank E. Millie Afghan **F.k.a.:** na **\*Address:** a) Jada Ibn Sina, Kabul, Afghanistan b) Any other offices of Banke Millie Afghan. **\*Removed from list on:** 24 Jan. 2002

**8. \*Name:** EXPORT PROMOTION BANK OF AFGHANISTAN

**\*A.k.a.:** na **F.k.a.:** na **\*Address:** na **\*Removed from list on:** 24 Jan. 2002

**Al-Qaida individuals:**

**1. \*Name:** 1: SHADI 2: MOHAMED 3: MUSTAFA 4: ABDALLA

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 27 Sept. 1976 **POB:** Irbid, Jordan **\*Good quality a.k.a.:** a) Emad Abdelhadie, born 27 Sept. 1976 in Alhamza b) Shadi Mohammed Mustafa Abdalla, born 27 Sept. 1976 in Irbid c) Shadi Abdallha, born 27 Sept. 1976 in Irbid, Jordan d) Shadi Abdallah, born 27 Sept. 1976 in Irbid e) Emad Abdekhadi, born 27 Sept. 1976 in Athamse f) Zidan Emad Abdelhadie, born 27 Sept. 1976 in Alhamza **Low quality a.k.a.:** a) (Used in Belgium) Shadi Mohammed Mostafa Hasan, born 27 Sept. 1976 in Beje, Iraq, address: Rue de Pavie 42, 1000 Brussels, Belgium b) Zidan c) Zaidan d) Al Hut (English: the shark) e) Emad Al Sitawi **\*Nationality:** Jordanian of Palestinian origin **Passport no.:** a) Jordanian passport no.: D 862 663, issued in Irgid, Jordan, on 10 Aug. 1993 b) Jordanian passport no.: H 641 183, issued in Irgid, Jordan, on 17 April 2002 c) German International travel document no.: 0770479, issued in Dortmund, Germany on 16 Feb. 1998 **National identification no.:** na **Address:** Imprisoned in Germany after being convicted **\*Removed from list on:** 23 Dec. 2004 **\*Other information:** a) Name of father: Mohamed Abdalla b) Name of mother: Jawaher Abdalla, née Almadaneie

**2. \*Name 1:** ABDI 2: ABDULAZIZ 3: ALI 4: na

**Title:** na **Designation:** na **DOB:** 1 Jan. 1955 **POB:** na **\*Good quality a.k.a.:** na **Low quality a.k.a.:** na **\*Nationality:** na **Passport no.:** na **National identification no.:** na **\*Address:** Drabantvagen 21, 177 50 Spanga, Sweden **\*Removed from list on:** 26 Aug. 2002

3. \*Name 1: ABDIRISAK 2: ADEN 3: na 4: na

Title: na Designation: na DOB: 1 June 1968 POB: na \*Good quality a.k.a.: na  
Low quality a.k.a.: na Nationality: na Passport no.: na National identification  
no.: na \*Address: Akaftingebacken 8, 163 67 Spanga, Sweden \*Removed from  
list on: 26 Aug. 2002

4. \*Name: 1: ZEINAB 2: MANSOUR 3: FATTOUH 4: na

Title: na Designation: na DOB: 7 May 1933 POB: na \*Good quality a.k.a.: na  
Low quality a.k.a.: na \*Nationality: na Passport no.: na National identification  
no.: na Address: Obere Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Switzerland  
\*Removed from list: 18 Jan. 2006

5. \*Name 1: LIBAN 2: HUSSEIN 3: na 4: na

Title: na Designation: na DOB: na POB: na \*Good quality a.k.a.: na Low  
quality a.k.a.: na \*Nationality: na Passport no.: na National identification no.:  
na Address: a) 925 Washington Street, Dorchester, Massachusetts b) 2019 Bank  
Street, Ontario, Ottawa, Canada \*Removed from list on: 8 July 2002

6. \*Name 1: GARAD 2: JAMA 3: na 4: na

Title: na Designation: na DOB: 26 June 1974 POB: na \*Good quality a.k.a.: a)  
Nor, Garad K. b) Wasrsame, Fartune Ahmed Low quality a.k.a.: na  
\*Nationality: na Passport no.: na National identification no.: na Address: a)  
2100 Bloomington Avenue, Minneapolis, Minnesota b) 1806 Riverside Avenue,  
2nd floor, Minneapolis, Minnesota \*Removed from list on: 26 Aug. 2002

7. \*Name: 1: MOHAMED 2: MANSOUR 3: na 4: na

Title: na Designation: na DOB: 30 Aug. 1928 POB: a) Egypt b) UAE \*Good  
quality a.k.a.: Al-Mansour, Dr. Mohamed Low quality a.k.a.: na \*Nationality:  
Switzerland Passport no.: na National identification no.: na Address: Obere  
Heslibachstrasse 20, 8700 Kuesnacht, ZH, Switzerland \*Removed from list: 18  
Jan. 2006

#### Al-Qaida entities:

1. \*Name: AARAN MONEY WIRE SERVICE INC.

\*A.k.a.: na F.k.a.: na \*Address: 1806 Riverside Avenue, Second floor,  
Minneapolis, Minnesota \*Removed from list on: 26 Aug. 2002

2. \*Name: BARAKAT ENTERPRISE

\*A.k.a.: na F.k.a.: na \*Address: 1762 Huy Road, Columbus, Ohio \*Removed  
from list on: 26 Aug. 2002

3. \*Name: GLOBAL SERVICE INTERNATIONAL

\*A.k.a.: na F.k.a.: na \*Address: 1929 5th Street, Suite 204, Minneapolis,  
Minnesota \*Removed from list on: 26 Aug. 2002